



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9—जुलाई 15, 2011 (आषाढ़ 18, 1933)

No. 28]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9—JULY 15, 2011 (ASADHA 18, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जून 2011

सं. डीपी/पर्स. 1/2011/1964/11/18/2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पुलिस अधीक्षकों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

| क्रम अधिकारी का नाम सं. | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नति पर तैनाती स्थान | कार्यभार ग्रहण करने की तारीख |
|-------------------------|--|------------------------------|
|-------------------------|--|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|----------------------|------------|---|
| (सर्वश्री) | | | |
| 1. आर.सी. चौधरी | एचडी/पटना | 28.05.2011 | |
| 2. ई. नारायणन | बीएस एंड एफसी, मुंबई | 28.05.2011 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---------------------|------------|---|
| 3. आर.पी. कौशल | सीबीआई अकादमी | 28.05.2011 | |
| 4. विजय कुमार | एसी-1, नई दिल्ली | 28.05.2011 | |
| 5. सुरिंद्र पॉल | एससी-1, नई दिल्ली | 28.05.2011 | |
| 6. आर. राजू | एसयू, चेन्नई | 28.05.2011 | |
| 7. वी.पी. आर्या | एसीबी, इम्फाल | 31.05.2011 | |
| 8. एम.सी. साहनी | एसी-2, नई दिल्ली | 28.05.2011 | |
| 9. केशव मिश्रा | ईओ-1, नई दिल्ली | 28.05.2011 | |
| 10. गणेश वर्मा | एसीबी, नई दिल्ली | 28.05.2011 | |
| 11. टी. पुनिथमणि | एमडीएमए, नई दिल्ली | 30.05.2011 | |
| 12. अशवनी कुमार | मुख्यालय, नई दिल्ली | 28.05.2011 | |

एस.जे.एम. गिलानो
उप-निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 16 जून 2011

सं. 2/2/07-प्रशासन/132797--सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री राजीव वर्मा को अवर सचिव के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन 6,600/- के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 17.06.2011 से छः माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

आर. एन. नायक
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जून 2011

सं. ई-16013(1) 4/2009/कार्मिक-1/175--राष्ट्रपति, श्री अरुण चौधरी, भा.पु.से. (बिहार : 1977) विशेष निदेशक आसूचना ब्यूरो को दिनांक 07.06.2011 के (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली में अपर महानिदेशक पद पर रु. 75,500--80,000/- के वेतनमान में, जो केवल उनको व्यक्तिगत तौर पर मान्य हो उनकी सेवानिवृत्ति या अन्य आदेश जो भी पहले हो, से नियुक्त करते हैं।

इन्द्रजीत कौर
निदेशक/पुलिस

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जून 2011

सं. 3/26/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री कुलदीप एन. शर्मा, भा.पु.से. (गुजरात-76) को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, (गृह मंत्रालय) भारत सरकार, नई दिल्ली में दिनांक 20 अप्रैल, 2011 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 67,000--79,000/- में सेवानिवृत्ति की अवधि 31.12.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

धनीराम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 3/44/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती निर्मल ए. चौधरी, भा.पु.से. (जे.एच. : 83) को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, (गृह मंत्रालय) भारत सरकार, नई दिल्ली में दिनांक 17 जून, 2011 अपराह्न से संशोधित वेतनमान पे बैंड-4 रु. 37,400--67,000/- के साथ ग्रेड पे रु. 10,000/- में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, महानिरीक्षक/निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

धनीराम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2011

सं. ओ. दो-3639/2011--कार्मिक--भारत सरकार ने श्री डी. के. पाण्डेय, भा.पु.से. (जे.एच. : 84) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति पर रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड (पीबी-4) तथा ग्रेड वेतन रु. 10,000/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल., का कार्यभार दिनांक 18.05.2011 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

आर. एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2011

सं. पी. सात-2/2011-मंत्रा.--सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप वेतन एवं लेखा कार्यालय, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली के श्री के. शशिधरन, संयुक्त सहायक निदेशक (ईरला संख्या-6359) ने संयुक्त सहायक निदेशक का पदभार 31.01.2011 (अपराह्न) को त्याग दिया।

जी.वी.एच. गिरीप्रसाद
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

रक्षा मंत्रालय

(आयुध निर्माणी बोर्ड)

कोलकाता, दिनांक 2 मार्च 2011

सं. 0173/राजपत्र अधिसूचना/मुख्या./जी.बी.--महानिदेशक आयुध निर्माणियां/अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता ने निम्नलिखित पदोन्नति को जो अधिकारियों के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से प्रभावी होगी, अनुमोदित किया है :--

| क्रम सं. | नाम | वैयक्तिक सं. | पद से | पद पर | स.स्य. अधि. में पदोन्नति की तारीख |
|----------|--------------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | सर्वश्री/श्रीमती | | | | |
| 1. | सिबब्रत साहा | 100502 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.03.2006 |
| 2. | शोभा रानी सिन्हा | 970113 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 17.03.2006 |
| 3. | समीर कुमार मजुमदार | 101083 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.07.2006 |
| 4. | अरुण कुमार मजुमदार | 100503 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.09.2006 |
| 5. | मधुसूदन दासगुप्ता | 101252 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.02.2006 |
| 6. | लेखनी चक्रवर्ती | 100472 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.03.2006 |
| 7. | अलोक कुमार हाजरा | 100458 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 24.12.2008 |
| 8. | पम्पा मजुमदार | 101058 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 24.12.2008 |
| 9. | सुजीत कुमार मित्रा | 100467 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 24.12.2008 |
| 10. | जयदेव सिन्हा | 100478 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 24.12.2008 |
| 11. | कस्तूरी सेन | 100463 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 24.12.2008 |
| 12. | कल्लोल देबनाथ | 100525 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 24.12.2008 |
| 13. | वी. सी. श्रीवास्तव | 908010 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 14. | जे. सी. जोशी | 908011 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 15. | राम नरेश | 908012 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 16. | आशीष बासु | 100384 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 17. | मालबिका गुईन | 100404 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 18. | स्वपन कुमार हालदार | 10045 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 19. | आर. के. जादव | 908013 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 20. | मो. नसीम खान | 908014 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 21. | रबीन्द्र नाथ घोष | 100401 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |
| 22. | संजय बंद्योपाध्याय | 101052 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.07.2010 |
| 23. | सुरेश कुमार | 908016 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.08.2010 |
| 24. | एस. के. निगम | 908017 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.08.2010 |
| 25. | शांति चक्रवर्ती | 100526 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.08.2010 |
| 26. | सुधीर राय चौधरी | 100487 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 05.08.2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
| 27. | बिभु शंकर मजुमदार | 100471 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.11.2010 |
| 28. | कविता देब | 100431 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 02.12.2010 |
| 29. | रंजीत नियोगी | 100488 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.02.2006 |
| 30. | देब प्रसाद राय | 101252 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.01.2008 |
| 31. | स्वपन कुमार बर्मन | 101091 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 01.02.2008 |
| 32. | आशुतोष नस्कर | 100951 | सहायक | सहायक स्टाफ अधिकारी | 14.05.2010 |

2. उपरोक्त पदोन्नतियां प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से प्रभावी हुई हैं।

3. उपरोक्त पदोन्नतियां न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के अंतर्गत परिवर्तित परिस्थितयां, यदि कोई हो, के कारण संशोधनों के अधीन होंगी।

4. उपरोक्त पदोन्नतियां वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना तथा विद्यमान रिक्ति के अनुसार आदेशित की गई है।

टी. पी. नारायण मूर्ति
स्टाफ अधिकारी/मुख्यालय
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

सं. 0173/राजपत्र अधिसूचना/मुख्या./जी.बी.--महानिदेशक आयुध निर्माणियां/अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता ने निम्नलिखित पदोन्नति को जो व्यक्तियों के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से प्रभावी होंगी, अनुमोदित किया है :--

| क्रम सं. | नाम | वैयक्तिक सं. | पद से | पद पर | निजी सचिव में पदोन्नति की तारीख |
|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| सर्वश्री/श्रीमती | | | | | |
| 1. | मनिमय सिन्हा | 100473 | वैयक्तिक सहायक | निजी सचिव | 22.06.2007 |
| 2. | झरना चौधुरी | 100515 | वैयक्तिक सहायक | निजी सचिव | 31.03.2008 |
| 3. | रंजन घोष | 101645 | वैयक्तिक सहायक | निजी सचिव | 31.03.2008 |
| 4. | तापस भट्टाचार्य | 100442 | वैयक्तिक सहायक | निजी सचिव | 07.04.2010 |
| 5. | मृणाल कांति पॉल | 100469 | वैयक्तिक सहायक | निजी सचिव | 28.05.2010 |
| 6. | अनुप कुमार बंद्योध्याय | 100472 | वैयक्तिक सहायक | निजी सचिव | 01.02.2011 |

2. उपरोक्त पदोन्नतियां प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से पहले ही प्रभावी हो चुकी हैं।

3. उपरोक्त पदोन्नतियां न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के अंतर्गत परिवर्तित परिस्थितयां, यदि कोई हो, के कारण संशोधनों के अधीन होंगी।

4. उपरोक्त पदोन्नतियां वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना तथा विद्यमान रिक्ति के अनुसार आदेशित की गई है।

टी. पी. नारायण मूर्ति
स्टाफ अधिकारी/मुख्यालय
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

दिनांक 7 मार्च 2011

विषय :-- छठवें सी पी सी का कार्यान्वयन-रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयुध निर्माणी बोर्ड में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक अग्रजन/अग्रजन स्टोर होल्डर तथा रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में कनिष्ठ कार्य प्रबंधक के पदों का विलय

संदर्भ :--आ.नि.बोर्ड पत्र सं. 3265/6th CPC/IMPL/2011 A/NG, dated 04-02-2011

सं. 0160/ए एफ/जे डब्ल्यू एम (मर्जर)-मुख्या./जी.बी.--आ.नि.बोर्ड के उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 04.02.2011 में समाविष्ट अनुदेश की शर्तों पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में (पूर्व संशोधित) सहायक अग्रजन/अग्रजन (एन.टी.), स्टोर होल्डर के पद तथा कनिष्ठ कार्य प्रबंधक के पद को रु. 9,300--34,800/-, ग्रेड पे रु. 4,600/- के पे बैंड (पी.बी.-2) में कनिष्ठ कार्य प्रबंधक के एकल ग्रेड में विलय कर दिया गया है जो 01.01.2006 से प्रभावी होगा। तदनुसार आ.नि.बोर्ड फॉरमेशन में तैनात निम्न दर्शाए गए व्यक्तिगण जो रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक अग्रजन/अग्रजन (एन.टी.), स्टोर होल्डर के पद पर कार्य कर रहे हैं उनका विलय कनिष्ठ कार्य प्रबंधक ग्रुप बी (राजपत्रित में) (पी.बी.-2) रु. 9,300--34,800/- के वेतनमान में रु. 4,600/- के ग्रेड पे के साथ कर दिया गया है, जो 01.01.2006 से प्रभावी होगा। उन व्यक्तियों के संबंध में जो आ.नि.बोर्ड इकाईयों में तैनात हैं तथा सहायक अग्रजन/अग्रजन (एन.टी.), स्टोर होल्डर के पद पर उत्तरवर्ती तारीख से 01.01.2006 तक कार्य कर रहे हैं, कनिष्ठ कार्य प्रबंधक (ग्रुप बी, राजपत्रित) पद पर विलय टेबल के कॉलम 6 में दर्शाई गई तारीख से प्रभावी होगा :--

| क्रम सं. | नाम | वैयक्तिक सं. | पद से | पद पर | पुनर्पदनाम की तारीख |
|----------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | सर्वश्री/श्रीमती | | | | |
| 1. | दास पी. के. | 896245 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 2. | सील टी. के. | 819166 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 3. | सेन जयंत | 845625 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 4. | दास चौधरी ए. | 853867 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 5. | चक्रवर्ती एस. | 857159 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 6. | चटर्जी जी. के. | 845655 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 7. | दास बिजन | 857185 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 8. | एस. के. चक्रवर्ती | 800251 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 9. | रुद्र टी. के. | 857192 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 10. | एस. बनर्जी | 923161 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 11. | आचार्य सी. के. | 859891 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 12. | बिस्वास एस. के. | 857355 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 13. | बनर्जी एम. के. | 845709 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 14. | धारा टी. के. | 824839 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 15. | दास ए. के. | 824848 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 16. | दत्ता पुलक कुमार | 800284 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 17. | सरकार बी. के. | 904633 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 18. | माधवन टी. (ए. वी. मुख्या.) | 103021 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 19. | दाश के. सी. | 922041 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 20. | सारंगी के. पी. | 922058 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 21. | पात्रा आर. | 922097 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------------------------------------|---------|--------------|----------------------|------------|
| 22. | चटर्जी हिमाद्री | 932181 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 23. | बंदोपाध्याय एम. (श्रीमती) | 822499 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 24. | धर बी. के. | 859851 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 25. | रॉय बी. आर. | 913046 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 26. | साहा एस. के. | 871702 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 27. | जॉय सी. वी. (आ.नि.सेल) | 853983 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 28. | शर्मा दिवाकर (ओ.एफ.सेल) | 932215 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 29. | गिरिजा बी. (ए. वी. मुख्या.) | 800284 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 30. | नाईक सत्य नारायण | 922031 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 31. | मथिवनन टी. पी. (ए. वी.) | 821525 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 32. | घोष आर. आर. | 901423 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 33. | घोष एम. | 809538 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 34. | गांगुली एस. के. | 901003 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 35. | दब रूपक कुमार | 816792 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 36. | यू. एन. मंडल | 860044 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 37. | नाग एस. के. | 901407 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 38. | मुखर्जी टी. के. | 930009 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 39. | सरकार सुकलाल | 816833 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 40. | पाल एम. आर. | 857411 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 41. | चक्रवर्ती एस. | 849262 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 42. | सरकार आर. सी. | 901091 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 43. | मित्रा ए. के. | 857395 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 44. | भौमिक एम. एस. | 835229 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 45. | मुखर्जी एस. | 901335 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 46. | दत्ता प्रशांत कुमार | 817240 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 47. | नाथ काली दास | 817484 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 48. | मुखर्जी डी. | 824868 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 49. | भट्टाचार्य एस. | 904716 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 50. | घोष एस. आर. | 901404 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 51. | बोस पी. के. | 901405 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 52. | बंदोपाध्याय एम. के. | 901412 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 20.04.2006 |
| 53. | सरकार एस. | 901416 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 54. | के. विजय कुमार (ए. वी. मुख्या.) | 9380636 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 16.04.2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|--------|------------------|----------------------|------------|
| 55. | भट्टाचार्य एस. के. | 814214 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 30.06.2009 |
| 56. | दत्ता मोहितोश | 858807 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 03.04.2006 |
| 57. | चौधरी सुजय | 896733 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 30.06.2009 |
| 58. | मजुमदार सुबीर कुमार | 932211 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 59. | नटराजन के. (ए. वी.) | 913024 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 60. | सामंत एस. के. | 896323 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 61. | दे. गौतम | 913195 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 62. | दास डी. के. | 809605 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 03.04.2006 |
| 63. | पॉल ए. के. | 809733 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 64. | साहा उत्तम | 842867 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 65. | श्रीवास्तव वी. के. (ओ. ई. एफ. मुख्या.) | 829855 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 66. | इन्द्र चन्द्र बाबू (श्रीमती) (ए. वी. मुख्या.) | 880691 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 67. | बासु डी. | 816496 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 68. | बिस्वास आर. डी. | 800320 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 69. | दास आर. एन. | 268121 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 70. | बैद्यनाथन वी. (ए. वी. मुख्या.) | 926098 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 71. | बिस्वास आर. के. | 809723 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 72. | बंद्योपाध्याय एस. | 817713 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 02.04.2007 |
| 73. | सिंधा पी. के. | 824947 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 30.06.2009 |
| 74. | बंद्योपाध्याय बी. | 809711 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 75. | बंद्योपाध्याय बिजन कुमार | 901635 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 16.04.2008 |
| 76. | आचार्य पी. | 901626 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 16.04.2008 |
| 77. | बसाक रंजीत | 860284 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 09.06.2010 |
| 78. | साहा प्रकाश चन्द्र | 860280 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 09.06.2010 |
| 79. | चटर्जी गौतम | 904766 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 09.06.2010 |
| 80. | दास मधुमिता (श्रीमती) | 800318 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 28.07.2010 |
| 81. | जाना एल. एम. | 922029 | अग्रजन (एन. टी.) | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 82. | कर्मकार रत्र (श्रीमती) | 809732 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 31.05.2010 |
| 83. | कबि चरण बैरागी | 922225 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 28.07.2010 |
| 84. | नाग एस. के. | 901407 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 85. | पंडा पी. के. | 922115 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 16.04.2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------------|------------|
| 86. | सरकार शेखरेश | 896803 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 28.07.2010 |
| 87. | सन्याल प्रवीर दास | 800317 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 28.07.2010 |
| 88. | साहा रविन्द्र दास | 904711 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 89. | भौमिक तपन | 860281 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 31.05.2010 |
| 90. | दास बी. एन. | 816691 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 91. | बनर्जी पी. के. | 901419 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 92. | पाल सुब्रत | 809752 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 28.07.2010 |
| 93. | दे एस. के. | 901654 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 01.01.2006 |
| 94. | मोल्लिक सचिन (ओ. ई. एफ. मुख्या.) | 829888 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 31.05.2010 |
| 95. | मुखोपाध्याय फाल्गुनी | 814200 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 28.07.2010 |
| 96. | सिंघा आर. पी. | 800314 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 97. | खान एस. सी. | 901327 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 98. | चटर्जी पी. के. | 824896 | सहायक अग्रजन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 13.04.2007 |
| 99. | राय तड़ित | 828933 | चार्जमैन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 31.05.2010 |
| 100. | मंडल श्रीमंत | 858900 | चार्जमैन | कनिष्ठ कार्य प्रबंधक | 31.05.2010 |

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(प्राधिकार : आ.नि.बोर्ड पत्र सं. 3265/6th CPC/IMPL/2011A/NG dated 04-02-2011)

टी. पी. नारायण मूर्ति
स्टाफ अधिकारी/मुख्यालय
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2011

सं. 12025/1/2011-डीसीएच/स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री एन. पुरुषोत्तमन को पदोन्नति के आधार पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में पे बैंड-3 रुपये 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रुपये 5,400/- में दिनांक 10.06.2011 के पूर्वाह्न से अग्रिम आदेशों तक के लिए सहायक निदेशक ग्रेड-I (ग्रुप क) नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 31.05.2011 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गई हैं।

आर. एन. अग्रवाल
उपनिदेशक (प्रशासन)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 22 जून 2011

सं. सी-81/707--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' डिवीज़न-I (सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों) की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के पद पर रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रुपये 4,600/- के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है :--

| क्र. सं. | नाम | पदोन्नति की तिथि |
|----------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री एस. के. सेन | 08.02.2011 |
| 2. | श्री एस. के. हरीश | 01.03.2011 |

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2011

सं. ए-38011(15)/2011-प्रशासन(मु.स्था.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती आशा काक, सहायक निदेशक (ग्रेड-2) (आर्थिक अन्वेषक) मुख्यालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

| 1 2 | 3 |
|---|-------------------------|
| 3. मोहम्मद अलीउद्दीन | 09.02.2011 |
| 4. श्री रवि कान्त शर्मा | 08.02.2011 |
| 5. श्री कुलदीप सिंह | 08.02.2011 |
| 6. श्री जे. डी. चौधरी | 17.02.2011 |
| 7. श्री वीरेन्द्र प्रसाद (अनु. जाति) | 09.02.2011 |
| 8. श्री पी. एस. पाल (अनु. जन जाति) | 11.02.2011 |
| 9. श्री पी. के. प्रधान | 14.02.2011 |
| 10. श्री आर. एस. बिष्ट | 08.02.2011 |
| 11. श्री नाथी राम (अनु. जाति) | 09.02.2011 |
| 12. श्री ज्ञान चन्द (अनु. जाति) | 09.02.2011 |
| 13. श्री खुशी राम (अनु. जाति) | 14.02.2011 |
| 14. श्री आर. के. डे | 17.02.2011 |
| 15. श्री मोहन लाल (अनु. जाति) | 08.02.2011 |
| 16. श्री क्लेमेन्ट लाकरा (अनु. जन जाति) | 10.02.2011 |
| 17. श्री एच. एल. दास (अनु. जाति) | 08.02.2011 |
| 18. श्री एस. पी. गायकवाड (अनु. जाति) | 21.02.2011 |
| 19. श्री अबिनाश लाकरा (अनु. जन जाति) | 08.02.2011 |
| 20. श्री अब्राहम लाकरा (अनु. जन जाति) | 14.02.2011 |
| 21. श्री के. एस. मीना (अनु. जन जाति) | 08.02.2011 |
| 22. श्री के. चन्नु (अनु. जन जाति) | 14.02.2011 (अपराह्न) |
| 23. श्री ए. के. चौधरी | 08.02.2011 |
| 24. श्री ए. ए. पटेल | 21.02.2011 |
| 25. श्री एन. के. दास | 08.02.2011 |
| 26. श्री ए. एम. पॉल | 14.02.2011 |
| 27. श्री राजिन्द्र कुमार (अनु. जाति) | 09.02.2011 (अपराह्न) |
| स्वर्ण सुब्बा राव भारत के महासर्वेक्षक | |

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. 11013/3/2010-विप.-I--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित विपणन अधिकारियों (ग्रुप-I) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन बैंड-3,

रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में वरिष्ठ विपणन अधिकारी (ग्रुप-I) के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम | कार्य ग्रहण करने की तारीख |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | श्री जेम्स एंटोनी | 05.04.2011 |
| 2. | श्री एम. एन. रामचन्द्रन | 01.04.2011 |
| 3. | श्री वी. सीतारमन | 01.04.2011 |
| 4. | श्री एम. एस. श्रीराम | 04.04.2011 |
| 5. | श्री के. सी. राउत | 01.04.2011 |
| 6. | श्री महेन्द्रपाल पराशर | 01.04.2011 |
| 7. | श्री एस. सी. गुप्ता | 01.04.2011 |
| 8. | श्री जयप्रकाश | 01.04.2011 (अपराह्न) |
| 9. | श्री किशोर चंद | 01.04.2011 (अपराह्न) |
| 10. | श्री देव कुमार | 01.04.2011 |
| 11. | श्रीमती शकुन्तला जुनेजा | 01.04.2011 |
| 12. | श्री एस. शिवकुमार | 01.04.2011 (अपराह्न) |
| 13. | श्री दिनेश कुमार | 04.04.2011 |

सुकुमार
उप सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 22 जून 2011

शुद्धि-पत्र

सं. पीडी/7(24)/2009/भर्ती-IV/एसओ(ई)/ईटीजी/11/4164--क्रमांक पीडी/7(24)/2009/भर्ती-IV/एसओ(ई)/ईटीजी/6260 दिनांक जुलाई 14, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में। उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 103 में दर्शाये गये डॉ. कुटे रामाचारी सुब्रमनियन चन्द्रकुमार की पदोन्नति की प्रभावी तिथि को संशोधित कर 01.07.2009 के बदले 11.05.2011 के अनुसार पढ़ा जाए।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

मुम्बई-400085, दिनांक 23 जून 2011

सं. जीएफ/38/स्था.-I/578--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ग "क" के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों

को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

| क्र. सं. | नाम | प्रारंभिक नियुक्ति ग्रेड/पद | स्थायीकरण की तिथि |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | श्री सूवादिप पाल | वैज्ञानिक अधिकारी-सी | 01.10.2009 |
| 2. | डॉ. विनोद जे. ढोले | वैज्ञानिक अधिकारी-डी | 01.04.2010 |
| 3. | श्री गौरी शंकर साहु | वैज्ञानिक अधिकारी-सी | 01.10.2010 |
| 4. | श्री बत्तुल श्रीकांत | वैज्ञानिक अधिकारी-सी | 01.10.2010 |
| 5. | श्री अबिनाश साहू | वैज्ञानिक अधिकारी-सी | 01.10.2010 |
| 6. | श्री सैकत सेन | वैज्ञानिक अधिकारी-सी | 01.10.2010 |
| 7. | कु. पापिया घोष | वैज्ञानिक अधिकारी-सी | 01.10.2010 |
| 8. | डॉ. अमित भा. अभ्यंकर | वैज्ञानिक अधिकारी-डी | 01.10.2010 |

सी. गोपालकृष्णन
उपस्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 17 जून 2011

सं. 6(2224)97-प्रशा./वाल्सू.-II/6509--परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अपर सचिव एतद्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग मुम्बई के सहायक (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) श्री एन. बी. सामल को दिनांक 08 जून 2011 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय में अनुभाग अधिकारी (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री एन. बी. सामल दिनांक 08.06.2011 से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

बी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 17 जून 2011

सं. 6(2570)/2011-प्रशा./6526--राष्ट्रपति, श्री निरंजन कुमार, (आईडीएस:1999) को दिनांक 14 जून 2011 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में चार वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वेतन बैंड पीबी-3 (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव (प्रशा.)

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 22 जून 2011

सं. एनएफसी/काप्रभ-II/पदो.-10/1121--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड और प्रभाविता तारीख से इसी इकाई में, स्थानापन्न हैसियत में, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :—

| क्र.सं. | नाम | पदोन्नति | पदोन्नति की तारीख |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| | ग्रेड से | ग्रेड को | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | | | |
| पे बैंड/ग्रेड पे वैज्ञानिक अधिकारी/ई-रु. 15,600--39,100/- रु. 7,600/- | | | |
| (सर्वश्री/श्रीमती) | | | |
| 1. | ए. के. नायक | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| 2. | के. कस्तूरी बाई | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| (31.01.2011 को सेवानिवृत्त) | | | |
| 3. | डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| 4. | एन. मनिक्याला राव | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| 5. | वाई. प्रताप | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| 6. | एन. क्रांतिसागर | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 03.07.2010 |
| 7. | टी. के. घोष | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 05.07.2010 |
| 8. | ए. नागेश्वर राव | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| 9. | टी. जगनमोहन राव | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |
| 10. | ओ. नारायण | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई 01.07.2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 11. | सुजाता राय | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 12. | डॉ. बी. रवि राज | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 13. | मो. असदुल्लाह शरीफ | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 14. | पी. के. मैती | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 15. | उत्पल सिंह | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 16. | वी. बी. देशमुख | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 17. | डी. नागराजू | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 18. | एन. के. एस. दुबे | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 19. | एस. मुरुगन | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 20. | के. भूमन्ना | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 21. | निर्मल संतरा | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 22. | के. वी. वी. सत्यनारायण | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 23. | एस. नरसिम्मन | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 24. | एस. अरुलसामी | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 25. | जी. वी. प्रसाद | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| 26. | टी. सुरेश | वैज्ञा. अधि./डी | वैज्ञा. अधि./ई | 01.07.2010 |
| पे बैंड/ग्रेड पे वैज्ञानिक अधिकारी-डी - रु. 15,600--39,100/- रु. 6,600/- | | | | |
| 1. | डॉ. शलभ सक्सेना | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 2. | डॉ. सुरेश कुमार | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 3. | जी. सत्यनारायण | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 4. | बी. सुरेश | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 5. | राहुल उपरेती | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 6. | ए. येशु दास | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 7. | आर. एस. चौहान | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 8. | यू. एस. भदोरिया | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 9. | के. चन्द्राकर | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 10. | डी. हेमा सुन्दर | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 11. | के. प्रभाकर राव | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 12. | दीनानाथ सिंह | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 13. | के. पुरुषोत्तम राव | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 14. | के. नरसिम्हा राव | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 15. | डी. वी. आर. प्रसाद | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 16. | टी. एस. वी. आर. नागेश्वर राव | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 17. | ए. हरि बाबू | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 18. | पी. बी. वरा प्रसाद | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 19. | एन. भीमा | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 20. | प्रवीण मोहन | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 21. | आर. हनुमंत राव | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 22. | शेख रहीम | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 (21.02.2011 को निधन) |
| 23. | सत्यसिंहा दास | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 24. | बी. मुनिरत्नम | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 25. | डॉ. एम. कवि चक्रवती | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 26. | आर. पी. शेलवम | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 27. | सुमन कुमार | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| 28. | ए. भीमशंकर राव | वैज्ञा. अधि./सी | वैज्ञा. अधि./डी | 01.07.2010 |
| पे बैंड/ग्रेड पे वैज्ञानिक अधिकारी-सी - रु. 15,600--39,100/- रु. 5,400/- | | | | |
| 1. | एस. आर. लोधा | वैज्ञा. अधि./एसबी | वैज्ञा. अधि./एसबी | 01.07.2010 |
| 2. | के. रमेश बाबू | वैज्ञा. अधि./एसबी | वैज्ञा. अधि./एसबी | 01.07.2010 |
| 3. | एम. शिव कुमार | वैज्ञा. अधि./एसबी | वैज्ञा. अधि./एसबी | 01.07.2010 |
| 4. | मो. शब्बीर अहमद | वैज्ञा. अधि./एसबी | वैज्ञा. अधि./एसबी | 01.07.2010 |

के. पी. एस. पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 25 जून 2011

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/484--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/167 दिनांक 08.03.2011 के क्रम में, श्रीमती पी. जानकी, सहायक लेखा अधिकारी को रु. 5,400/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800 के पे बैंड-2 में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.06.2011 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी

लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 24.05.2011 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/485--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/288 दिनांक 13.04.2011 के क्रम में, श्रीमती जे. स्वरूपा रानी, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800 के पे बैंड-2 में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/486--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/287 दिनांक 13.04.2011 के क्रम में, श्री वी. भरत भूषण, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800 के पे बैंड में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.05.2011 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 23 जून 2011

सं. 3-1707/2011-वैज्ञा. स्था.-791--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह "ख" राजपत्रित) की सिफारिश के आधार पर श्री टी. श्रीमन्नारायण मूर्ति, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी) को वेतन बैंड-2, रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक भू-भौतिकीविद के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 28.04.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, द. पूर्वी मध्य क्षेत्र, चेन्नई में पदोन्नत किया जाता है।

वह कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. आर. चौहान
प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पी. ए. एम. कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. 560(5) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/057589--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी. ए. एम. कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00218--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स किंगसगेट रिसोर्सिस मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 10 फरवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00254--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स किंगसगेट रिसोर्सिस मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मोनी टेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00163--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोनी टेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अपाचे कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 मार्च 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपाचे कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/
2011/00096--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुण्डन इण्डिया फार्मिनेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एक्सेल इन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 26 अप्रैल 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00046--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्सेल इन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सनलाईट बिल्डर्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 9 मई 2011

सं. 560(5)/18611--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनलाईट बिल्डर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बिराय इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00059--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

अवसान पर मैसर्स बिराय इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साहर्ष चिट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00209--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साहर्ष चिट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डोलफिन कंसट्रक्शन्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00016--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डोलफिन कंसट्रक्शन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लक्ष्मी केमिस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00052--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

अवसान पर मैसर्स लक्ष्मी केमिस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मदन चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00176--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मदन चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स देवी सागर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स देवी सागर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बूपा इण्डिया होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 मई 2011

सं. 560(5)/184608--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स बूपा इण्डिया होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओरोस ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00408--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरोस ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ई. टच. आई. टी. एंडवान्स सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00437--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ई. टच. आई. टी. एंडवान्स सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेक्निक ऐग्री विजन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 18 मई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेक्निक ऐग्री विजन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्लोरा परफोमयम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00255--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बेस्ट मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 जून 2011

सं. कंर/दिल्ली/560(5)/ईईएस-2011/पार्ट-III-1/3202--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| s. no. | CIN | COMPANY NAME |
|--------|-----------------------|---|
| 1 | U70101DL1992PTC124575 | राधाकृष्णा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | U55204DL2005PTC140498 | सिन्नाबर कुजीन प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | U74140DL1998PTC094226 | ए वि आर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | U74999HR1987PTC028989 | एंट्रोपी इकुइपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | U67120DL1996PTC081830 | जीत फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | U67120DL1993PTC053664 | डैफी सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | U80211DL2001PLC111957 | स्पेक्ट्रम एडुकेशन लिमिटेड |
| 8 | U55101DL1998PTC092902 | कलनग्युट रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | U51909DL2004PTC124618 | ओबेरजाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | U36939DL1998PTC096711 | चौधरी स्पोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | U72900DL2007PTC166250 | शिविक टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | U74899DL1995PTC068853 | अक्षित प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | U24232DL2007PTC162362 | लाइनेक्स फर्मसुतिकल प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | U74899DL1998PTC096439 | बिजनैस इवेंट्स एंड लेजर ट्रेवल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | U70109DL2006PTC149958 | डी एस रियल एस्टेट डेवेलोपर प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | U63040DL2006PTC146237 | पेस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | U26941HR1993PTC031954 | होमलैंड फार्मासुटिकल्स एंड सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | U65992DL1999PTC100164 | प्रकृति चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | U65992DL2003PTC118301 | के वाई चित फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | U51109DL2000PTC105788 | सिर्फिट सिटी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 21 | U72900DL2006PTC149022 | वाणी ब्रोडकास्टिंग नेट-वर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 22 | U64100DL1995PTC069011 | राइट चोइस कुरिएर प्राइवेट लिमिटेड |
| 23 | U27100DL2007PTC170495 | आर.बी. जोधामल स्टील प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | U01119DL1999PTC101514 | कठेरिया अग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | U74899DL1988PTC033470 | जीत कांस्ल्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | U72900DL2000PTC106352 | लोजिक-इ-टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 27 | U74899DL1994PTC062765 | प्रस्तुति अडवरटाईसर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | U65992DL1991PTC045478 | रोल्लिक चित फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | U24230DL1998PTC094266 | कुरेटिव फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 30 | U85100DL1996PTC080234 | यु एंड एस हेल्थकेयर कंसल्टेंट्स एंड हॉस्पिटल प्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | U67120DL1996PTC078852 | धरम फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | U74899DL1989PTC036137 | प्रिमिएर मिडियाफ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 33 | U66010DL1981PTC012763 | सकस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 34 | U55101DL2004PTC131711 | बेल होस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 35 | U74899DL1991PTC044476 | वि एच पि सिक््युरिटी पपर्स मिल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 36 | U24246DL2003PTC123766 | वामा ब्यूटी हेबिटेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 37 | U74899DL1986PTC023809 | रेलिअंत माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 38 | U29199DL2005PTC136065 | क्यू टी डाइस एंड ट्रैनिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 39 | U93090DL2006FTC152264 | ब्लोम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 40 | U70109DL2006PTC154969 | आईवोरी इन्फ्रास्कच प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | U51395DL1996PTC076312 | के.टी. तेलेकोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 42 | U45201DL2004PTC130235 | बिधुरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 43 | U74899DL1995PTC066217 | ग्राउंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 44 | U72900DL2003PTC118451 | क्लिनिसिक टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 45 | U15419DL2003PTC119898 | मसाला राम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 46 | U74899DL1983PTC015051 | इंटीग्रेटेड इन्फोरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | U00284DL2005PTC138823 | प्रकट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 48 | U65992DL1990PTC040117 | ड्रीमलैंड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 49 | U15209DL2000PTC108184 | श्रीजी डाईरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 50 | U65992HR1999PTC034305 | दुषद चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 51 | U65992DL1992PTC048166 | फौरसोन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 52 | U70101DL2006PTC145960 | सरोहा एस्टेट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 53 | U74899DL1995PTC064355 | झांजी कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 54 | U51109DL2000PTC106882 | अनादी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 55 | U72300DL2000PTC104867 | इबिज टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 56 | U72400DL2008PTC172836 | एवाया आइ टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड e |
| 57 | U63013DL2006PTC149756 | एम् एच एल सी कुरिएर प्राइवेट लिमिटेड . |
| 58 | U74899DL1978PTC009277 | एक्सपोर्ट्स क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 59 | U74140DL2001PTC111556 | अक्सिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 60 | U74899DL1988PTC031527 | जे जे अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 61 | U85110DL1997PTC090915 | हांडा नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड |
| 62 | U74140DL2005PTC134665 | मंजू गुप्ता लीगल कांस्ल्टैन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 63 | U15492DL2006PTC149397 | के आर बी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 64 | U80301DL2006PTC154148 | गोपाला एड् केयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 65 | U51909DL2002PTC116864 | ए टी एन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 66 | U51395DL2003PTC121912 | विरासत इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 67 | U27310DL2005PTC132643 | श्रीराम मेटालजुर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 68 | U24231DL2003PTC118796 | तारा मेडीवेयस प्राइवेट लिमिटेड |
| 69 | U67120DL1994PTC057340 | गेट टिप्स इन्वेस्टमेंट्स एंड फिनान्सिअल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड |
| 70 | U74899DL1994PTC059338 | सोनिक ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 71 | U63040DL1997PTC087740 | एलाईट ट्रिस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 72 | U72200DL2000PTC108958 | बिजनेस लोजिसिपल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 73 | U29150DL2006PTC146342 | सीसा इंडिया एविएशन इकुइपमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 74 | U34101DL1997PTC085431 | मल्होत्रा ऑटोमोबाइलस प्राइवेट लिमिटेड |
| 75 | U72200DL1998PTC091532 | प्रीतम कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 76 | U45200DL2007PTC158823 | सिटीवाइड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 77 | U45200DL2007PTC158827 | वेनटेज प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 78 | U67120DL1998PTC096114 | सिंगल पॉइंट रेसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड |
| 79 | U28932DL1996PTC081233 | पृथी टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 80 | U71290DL1990PTC041709 | काई लीजिंग एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 81 | U74899DL2000PTC104169 | एस आर एस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 82 | U74999DL2006PTC155187 | विनायक ट्रांसक्रिप्शन बिल्लिंग एंड डेब्ट रेकोवरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 83 | U27109DL1989PTC034656 | वि एस मेटल प्रोफाइलस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 84 | U24239DL2003PTC120050 | सेपटा मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 85 | U24114DL1995PTC066914 | केशो राम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 86 | U65992DL2005PTC139477 | जसमीत चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 87 | U74899DL1976PTC008442 | जीनों इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 88 | U72200DL2006PTC150271 | एम् के एस इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 89 | U70109DL2006PTC152846 | रोयल एससेंट बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 90 | U63090DL2003PTC119485 | मोथ सपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 91 | U24233DL2007PTC167115 | मेदिकोरोनेट फार्मासुतिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 92 | U40108DL2002PTC114654 | स्टोन एंड वेबस्टर इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 93 | U51506DL2005PTC133077 | बिदिशा इकुइपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 94 | U18101DL2003PTC122762 | औटोग्राफ डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 95 | U15511DL2007PTC167676 | डिवाइनो फाइन वाइन एंड स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 96 | U74899DL2001PTC109684 | सी एस आई सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 97 | U45200DL2006PTC156388 | हिमाचल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 98 | U70109DL1994PTC058294 | हरित कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 99 | U74899DL1990PTC039493 | हेलिओ ग्राफिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 100 | U72300DL2007PTC169066 | मिडवेयर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 101 | U29248DL1999PTC098279 | मैनकोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 102 | U72100DL2000PTC106855 | विन्स्टर इन्टरनेट बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 103 | U72300DL2005PTC142906 | टेकश्रुर ओन-लाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 104 | U74999DL1996PTC079529 | गिस्त ऑटो प्राइवेट लिमिटेड |
| 105 | U67120DL1993PTC052659 | सिंगला सॉस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 106 | U15312HR1999PTC034354 | अल-ग्यास राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 107 | U26941DL2000PTC108806 | अंकित सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 108 | U93090DL2006PTC151889 | ए एस ए अट्रैसोरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 109 | U70109DL2006PTC154838 | मड एंड मोटार रेअल्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 110 | U74140DL2005PTC141021 | ब्रांडरूट्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 111 | U74999DL2007PTC162704 | श्री गोविंदा इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 112 | U63040DL1996PTC081429 | अमेनिटी होलीडेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 113 | U51909DL2005PTC142351 | ए के जेड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 114 | U51909DL2005PTC137492 | प्रोफेशनल टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 115 | U93020DL1996PTC077420 | क्लिनिक दू थारुसैंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 116 | U55101DL2006PTC152122 | तथागत रेजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 117 | U64200DL1999PTC099803 | मकसत कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 118 | U65992DL1995PTC074186 | जी एस पि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 119 | U31311DL2003PTC120842 | आर्नव क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 120 | U74899DL1986PTC024066 | अग्गरवाल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 121 | U74899DL1995PLC072914 | आर पि इंडिया फिनवेस्ट लिमिटेड |
| 122 | U45201DL2001PTC110818 | उमंगसन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 123 | U65992DL1993PTC052069 | संत सिंह सभा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 124 | U18101DL2004PTC129173 | जुरिक फैशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 125 | U00899DL2005PTC140454 | अक्सिओम सरटीफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 126 | U85110DL1996PTC077659 | सक्षम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 127 | U70109DL1998PTC096980 | अलारा हाइर एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 128 | U24100DL1992PLC048991 | पुष्प कम प्लास्ट लिमिटेड |
| 129 | U51909DL2003PTC123511 | स्वाभिमान इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 130 | U72900DL2005PTC142267 | गुर्वीन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड |
| 131 | U19201DL2002PTC117008 | रविन्द्रा शूज प्राइवेट लिमिटेड |
| 132 | U80301DL2005PTC137914 | एड्फन तोयस प्राइवेट लिमिटेड |
| 133 | U74899DL1982PTC014869 | वि वि के केम्टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 134 | U74140DL2004PTC126167 | एलाईट मेंटेनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 135 | U45400DL2008PTC172608 | एकमे वेस्टओवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 136 | U24239DL2000PTC106062 | कुइनकान हाइजिन प्राइवेट लिमिटेड |
| 137 | U15316DL2006PTC155238 | फ्रोकान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 138 | U10102DL2000PTC108789 | माधव माइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 139 | U10102DL2000PTC108788 | प्रयाग माइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 140 | U29130DL1999PTC100148 | अल्लाईएड ब्रेक को. प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 141 | U99999DL1999PLC101830 | लोडल इम्पेक्स लिमिटेड |
| 142 | U15139DL1982PTC014302 | एस एन ओ शैक फ्रोजेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 143 | U64203DL2000PTC108961 | कराउन कैब एंड डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 144 | U01132HR2002PTC034967 | महक टी प्राइवेट लिमिटेड |
| 145 | U74899DL2006PTC144527 | आनंद क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 146 | U74999DL2001PTC113428 | सेफ हैण्ड नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 147 | U18101DL1987PTC030154 | आर एंड आर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 148 | U63040DL1996PTC080147 | इनटाइम टूरस एंड ट्रेवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 149 | U65923DL1991PTC046826 | रचित क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 150 | U74899DL1985PTC067873 | जे वि फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 151 | U27310HR1989PTC030708 | तीसॉस मेटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 152 | U27109DL1984PTC018030 | फाल्कोन इन्तेर्नेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 153 | U51909DL1986PTC025573 | वोर्थ क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 154 | U05004DL1994PTC061487 | ओसानिक अकुआकल्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 155 | U19201HR2007PTC036643 | के के शूज प्राइवेट लिमिटेड |
| 156 | U15491DL2000PTC108406 | अनिलजी फूड्स एंड बेवेरेजेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 157 | U01132DL1997PLC090636 | हितेषी ग्रीन्गोल्ड एंड प्लान्तेशन्स लिमिटेड |
| 158 | U52110DL1987PLC029393 | सुप्रकोम इंडिया लिमिटेड |
| 159 | U67110DL2003PTC119606 | ग्रीन फोरेक्स एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 160 | U70101DL1981PTC011719 | खोसला प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 161 | U74899DL1995PTC066575 | यूत्तिकोन फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 162 | U24239DL2002PTC116254 | ओउजेल फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 163 | U33112DL2000PTC103913 | वैशाली हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 164 | U60231DL2002PTC115536 | श्री सोब्नाम लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 165 | U74899DL2004PTC048380 | सूरज रेजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 166 | U45201DL2005PTC137690 | ए.एन. डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 167 | U74999DL1992PTC048791 | डैनटी ड्रेससेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 168 | U74899DL1995PTC071753 | रूबिक्स फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 169 | U74920DL2005PTC143989 | मुस्कान डिसकवर डिटेकटिव एंड सेक्युरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 170 | U51410DL1996PTC080270 | शंदुर्ग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 171 | U80301DL2005PTC140349 | ए बी एक्सस्पर्ट्स एंड एक्सस्प्रेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 172 | U72900DL2003PTC122258 | तेजस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड |
| 173 | U74899DL1983PTC015656 | बादशाह इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 174 | U74899DL1972PTC006136 | चेतना एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 175 | U51909DL2005PTC140909 | कैमेओ इंटरपराइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 176 | U74899DL2000PTC105750 | के सी एस विजीओन प्राइवेट लिमिटेड |
| 177 | U45400DL2007PTC163960 | आई एक्सस आइ ए इन्फ्रास्कच प्राइवेट लिमिटेड |
| 178 | U65992HR1988PTC030207 | पिक एन. मोव चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 179 | U34300DL2006PTC147384 | त्रिकुटा ऑटो कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 180 | U64200DL1993PLC053773 | सीधी टेक सर्विसेज लिमिटेड |
| 181 | U51410DL1998PTC096594 | पि बी जी पेट्रोलिअम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 182 | U74899DL1995PTC072709 | शिवा मेर्चान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 183 | U72900DL2003PTC120939 | डेस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 184 | U18101DL2000PTC107370 | पेकेर्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 185 | U74140DL2004PTC125592 | सजेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 186 | U45201DL2005PTC133244 | एस एस एंगगकान प्राइवेट लिमिटेड |
| 187 | U67120DL1993PTC054045 | देव-कारन पोर्टफोलिओस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 188 | U74899DL1998PTC093364 | लाजवंती ट्रेवेल एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड |
| 189 | U51909DL2004PTC130886 | तिबसकी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 190 | U45201DL2005PTC142773 | एल बी बी सी डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 191 | U72100DL2000PTC105947 | इन्फोटेक इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 192 | U00309DL2005PLC140827 | पानीपत वि.के. रीसाईकलिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड |
| 193 | U74899DL1986PTC024939 | वेलग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 194 | U65992DL1995PTC069806 | जोसिमा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 195 | U18101DL2005PTC139004 | विवा क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 196 | U45101DL2005PTC142268 | गुर्वीन डेवेलोपर एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 197 | U64203DL2003PTC122033 | एच डी एम् उर्मेट टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 198 | U67120DL1995PTC064116 | मोटिवेशनल सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 199 | U22110DL1996PTC083327 | ए ए एस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 200 | U74999DL1991PTC044198 | पशुपथी टेप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 201 | U55202DL2004PTC126050 | ओम केटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 202 | U19129DL1999PTC101602 | एम्बर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 203 | U51909DL1996PTC082144 | वालैली राम केवल किशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 204 | U92412DL2007PTC162880 | कुएस्त होस्पितेलिती प्राइवेट लिमिटेड |
| 205 | U74899DL1995PTC068072 | एतकोर फिनेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 206 | U72100DL2001PTC109807 | अखौरी इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 207 | U26101DL1986PTC023791 | एस.के. ग्लास एजएन्सिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 208 | U63090HR1993PTC032187 | धारीवाल रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 209 | U72900HR2007PTC037278 | एरोस डाटा टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 210 | U74999DL2001PTC112046 | पैकर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 211 | U51909DL2004PTC126939 | अल्लाईएनस कोम्स्यूस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 212 | U26101DL1981PTC012407 | एस के ग्लास इन्डस्त्रिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 213 | U51109DL1989PLC038209 | कामा एन्तेप्राईसेज लिमिटेड |
| 214 | U74899DL1981PTC012184 | लालस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 215 | U45400DL2007PTC171199 | इयुरोटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 216 | U72900DL2000PTC104939 | नेटवर्कसाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 217 | U74899DL1992PTC048829 | कोनौट टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 218 | U51909DL1998PTC097068 | मौर्वी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 219 | U51909DL1992PTC051348 | एंटीक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 220 | U74140DL1997PTC088192 | टेम्पुल एंड बन्फ अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 221 | U74140DL2004PTC128554 | आर ए सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 222 | U74140DL2003PTC119171 | स्ट्रेटेजिक वैल्यू कोरपोरेट कांस्ल्टैन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 223 | U18101DL1984PTC017633 | मोंगा टेक्स्टाईलस प्राइवेट लिमिटेड |
| 224 | U72900DL2007PTC158574 | सुमोर इतेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 225 | U45201DL1989PLC037804 | गार्डेन फार्म्स एंड रेजोर्ट्स लिमिटेड |
| 226 | U27203HR1993PLC032059 | लक्ष्मी अलुमीनियम लिमिटेड |
| 227 | U72900DL2000PTC106649 | इ-इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 228 | U45201DL2003PTC122632 | संगम बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड |
| 229 | U67120DL1993PTC052299 | बी.एम्.टी. पोर्टफोलिओ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 230 | U74899DL2005PTC140625 | एम्बेडेड इन्फो डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 231 | U72200DL2001PTC111162 | हरनेस ओवेर्सीज इ-टेकनोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 232 | U55101DL2002PTC117620 | वि.एस. रेस्टोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 233 | U51909DL1996PTC075904 | राजकुमार (गंगा राम एंड सौंस) प्राइवेट लिमिटेड |
| 234 | U51909DL2005PTC139772 | म्युच्युअल मेर्चेंडाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 235 | U65992DL1987PTC027427 | बोबल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 236 | U74899DL1991PTC043719 | जी एम् स्प्लाइएर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 237 | U22110DL2004PTC131568 | पैनडेक्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 238 | U51397DL2002PTC116510 | समदृष्टि ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 239 | U18101DL2004PTC128933 | सरिता गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 240 | U18101DL2002PTC116579 | गे टेक्स स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 241 | U24239DL2004PTC124296 | एन इ ओ बाईओसेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 242 | U74899DL1973PTC006606 | सैचुरी एक्सपोर्टर्स एंड इंजिनीरिंग को प्राइवेट लिमिटेड |
| 243 | U72900DL1999PTC100613 | आकांशा ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 244 | U63040DL2003PTC123204 | सप्फैर ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 245 | U67190DL1995PTC071435 | जब्बी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट कांस्ल्टैन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 246 | U74140DL2004PTC125087 | ए एस ए कांस्ल्टैन्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 247 | U51909DL2002PTC116888 | पि जे पि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 248 | U74140DL1997PTC087822 | पोस्सीबिलीटीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 249 | U74999DL2003PTC119111 | परफेक्ट बॉडी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 250 | U19202HR2007PTC036604 | अरमान फूटवेअर प्राइवेट लिमिटेड |
| 251 | U51909DL2003PTC123524 | डूबेल ड्यूटी फ्री ओपरेटोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 252 | U74300DL2003PTC120580 | बेनिक्स मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 253 | U72900DL2000PTC104138 | वेब्सटी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 254 | U72100DL1998PTC096442 | रोबोट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 255 | U45201DL2005PTC140553 | गुग्गल कांस्ल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 256 | U74210DL1998PTC097586 | फ्यूचर टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 257 | U65992DL1991PTC042823 | फिल्मिस्तान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 258 | U55101DL2005PTC132150 | टुडे होटल्स (कर्नाटक) प्राइवेट लिमिटेड |
| 259 | U70701HR1995PLC032556 | यु ग्रो फार्म फोरेस्ट्री लिमिटेड |
| 260 | U74899DL1994PTC057065 | ओल्ड गोल्ड ओवेसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 261 | U74899DL1986PTC023382 | अग्रिशा ट्रेडिंग एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 262 | U45201DL2002PTC113847 | इन्दर सिंह धरमवीर सिंह अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 263 | U25202DL2005PTC133754 | अंगद पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 264 | U22110DL1987PTC029273 | तरुण ओपफसेट प्राइवेट लिमिटेड |
| 265 | U85110DL1996PLC075779 | अल -फलाह एनेर्जिस लिमिटेड |
| 266 | U45201DL1998PTC096313 | हाक कन्सल्टन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 267 | U72900DL2004PTC130116 | एलाईसियन इ-कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 268 | U22219DL2003PTC118406 | आई सी पि पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 269 | U45201DL2005PTC138949 | प्रफेक्न्स रेअल्टीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 270 | U45200DL2007PTC171649 | गोल्ड टच डेवेलोप्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 271 | U65910DL1995PTC067937 | एस्टीम फिनेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 272 | U18101DL2003PTC119352 | मोनार्च क्राफ्ट्स एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड |
| 273 | U72200DL2002PTC113709 | कांटेल् इन्फोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 274 | U74899DL1995PLC074094 | वरुण फिनकैप लिमिटेड |
| 275 | U36101DL2001PTC110899 | मुखराम तेवतिया अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 276 | U15139HR1986PTC024510 | पचरंगा फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 277 | U74899DL2001PLC109169 | ग्लोकोम इन्फोटेक लिमिटेड |
| 278 | U24111DL1999PTC100280 | ओक्स्यजेंसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 279 | U74140DL2004PTC129506 | रेंज एच आर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 280 | U45400DL2007PTC169115 | सनफ्लोवर इन्फ्राको प्राइवेट लिमिटेड |
| 281 | U74140DL2002PTC118200 | सोपा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 282 | U27109DL1988PTC030764 | लेक्सो स्टील प्राइवेट लिमिटेड |
| 283 | U64200DL1997PTC087181 | सेंचुरी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 284 | U55101HR1990PTC030871 | शिवा सत्य इन् प्राइवेट लिमिटेड |
| 285 | U18101DL2006PTC150835 | दो भाई गारमेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 286 | U21014DL2005PTC139230 | श्री ओंकारेश्वर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 287 | U72300DL2006PTC145659 | एस.एस. इन्फो विजीओन प्राइवेट लिमिटेड |
| 288 | U65992DL1989PTC035292 | गुड फोर्च्यून चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 289 | U85100DL2007PTC170774 | के के हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 290 | U31109DL2000PTC106214 | शार्को मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 291 | U51311DL2005PTC138355 | लहक फिड्स फैशनस प्राइवेट लिमिटेड |
| 292 | U74899DL1988PTC032236 | अंजलि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 293 | U11102DL2001PTC111579 | जे इ ओ -सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 294 | U72900DL2000PTC104115 | एम् बी त्रवेलिंडिया कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 295 | U72200DL2002PTC115362 | सी आइ इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 296 | U74899DL1984PTC018896 | संजय एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 297 | U74899DL1947PLC001281 | सर्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड |
| 298 | U72900DL2000PTC105938 | कोहलीस साइबर प्राइवेट लिमिटेड |
| 299 | U65992HR1993PTC032005 | गोल्डेन फोर्च्यून चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 300 | U74140DL2008PTC173421 | प्लेनेट लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 301 | U74899DL1994PTC061508 | फिल्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 302 | U55101DL1997PTC089860 | बेलग्रेव होटल्स एंड रेजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 303 | U18101DL2004PTC124488 | शामा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 304 | U74900DL1998PTC092057 | एल.एन. मट्टा एंड सॉस प्राइवेट लिमिटेड |
| 305 | U45200DL2007PTC157479 | कर्मा सनितारीवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 306 | U65992DL1987PTC029539 | स्पीडएज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 307 | U02005DL1997PTC091413 | प्रोमित इरिगेण्ड प्राइवेट लिमिटेड |
| 308 | U74899DL1999PTC102433 | अरुणा सॉफ्ट इन्टरनेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 309 | U72200DL1999PTC098683 | सुवानी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड |
| 310 | U99999DL1991PTC045514 | पर्ल सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 311 | U35923DL1989PTC036152 | बी. ए. ऑटो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड |
| 312 | U34101DL1999PTC102394 | चट्टा एअर्थ मोवर्न्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 313 | U74899DL1994PTC058662 | सिल्वरकोइन फिनांस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 314 | U74899DL1989PTC037467 | वृंदा ओवेर्सिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 315 | U74300DL2003PTC120329 | अलटिमेत डिस्प्ले साइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 316 | U55101DL2006PTC155193 | स्काईलार्क होटेलिएर्स एंड रेअल्टी प्राइवेट लिमिटेड |
| 317 | U31909DL1999PTC101741 | विनायक लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 318 | U72900DL2000PTC105093 | वाई आर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 319 | U15116DL1989PTC035516 | इट वेल प्रोसस्सेड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 320 | U74210DL1989PTC035070 | एन. आर्किटेक्ट्स कोल्लेजीएम् प्राइवेट लिमिटेड |
| 321 | U74899DL1994PTC063725 | स्वागत कंसल्टेंट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 322 | U15209DL2000PTC104300 | डेली अगो मिल्क फूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 323 | U74899DL1988PTC030230 | तायाल इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 324 | U72200DL2000PTC108259 | राधा क्रिशंस टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 325 | U29197DL1986PTC025830 | मैक्रोन फिल्डेशन एंड सेपरेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 326 | U72200DL2008PTC175617 | ओफैर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 327 | U29199DL2004PTC125329 | ओनिकस ग्रैव्युर प्राइवेट लिमिटेड |
| 328 | U18101DL2004PTC124053 | टोटल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 329 | U74899DL2000PLC107341 | कॉमबाइंड कोरकार्गो एक्सप्रेस लिमिटेड कोम्ब |
| 330 | U18109DL2006PTC154508 | अस्त्रल कोल्लेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 331 | U61100DL1980PLC010699 | वर्ल्डवाइड हेवी लिफ्ट शिपिंग लिमिटेड |
| 332 | U70109DL2006PTC150180 | ए.के.एम्. बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड . |
| 333 | U65910DL1997PTC084865 | एस आर रेस्तोरेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 334 | U45201DL2006PTC146071 | अर्नव डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 335 | U45201DL2001PLC111912 | लिविंग एन्विरॉस लिमिटेड |
| 336 | U51909DL1998PTC096591 | वात्पुरेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 337 | U74899DL1995PTC073875 | रुसाग्रो फरटीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 338 | U74899DL1989PTC037475 | इन्द्रप्रस्थ फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 339 | U45201DL2006PTC146072 | अव्यय बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड |
| 340 | U24223DL2000PTC108276 | फिल्टेक स्पेसिअलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 341 | U24231DL2002PTC117369 | ब्रिटिश प्रोसथेसिया एंड इम्प्लान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 342 | U45201DL2000PTC103519 | कालू राम कांस्त्रक्शंस एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 343 | U74899DL1995PLC065547 | सिन्हा बल्क शिपिंग लिमिटेड |
| 344 | U45201DL2000PTC108932 | रोड बिल्डर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 345 | U63023DL2005PTC138554 | भाटिया लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 346 | U74899DL2000PTC108791 | अपेक्स पॉवरट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड |
| 347 | U74899DL1982PTC013095 | भूमिका ट्रेवेल्स एंड एयर फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड |
| 348 | U74899DL1995PTC072056 | दीललो एजेंसी एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 349 | U72900DL2000PTC104581 | जेनाक्स टेक्नोलॉजिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 350 | U40105DL2006PTC154630 | सोलार्मन एनेर्जी प्राइवेट लिमिटेड |
| 351 | U62100DL2001PTC110860 | पर्ल एविएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 352 | U51103DL1997PTC084902 | एम् सी सी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 353 | U10200DL2005PTC136249 | कोल वेस्ट युटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 354 | U74140DL2004PTC127474 | फ्रिन एकोटेक एन्जिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 355 | U18101DL2005PTC138768 | सासा फैशन अक्सेसोरीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 356 | U72300DL2007PTC162693 | जिनी डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 357 | U70101DL2005ULT139541 | माजी प्रोपर्टीज एंड डेवेलोपमेंट कंपनी (प्राइवेट .को.विद यु एल टी लिअब) |
| 358 | U72200DL2005PTC131828 | स्टैण्डर्ड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 359 | U85121DL2006PTC152353 | एन वि हेल्थकेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 360 | U74899DL1988PTC032533 | टी वि के मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 361 | U63013DL1999PTC101044 | पाइओनियर मोवर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 362 | U74994DL2005PTC135574 | क्रिस्टोफर होम इंटीरिओर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 363 | U24100DL1993PTC053205 | हरयाणा कलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 364 | U51909DL2004PTC125304 | नीलम इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 365 | U80302DL2003PTC121477 | शास्वत हाई-टेक एडुकेशन एंड पब्लिकेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 366 | U34300DL2004PTC129564 | सेन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड |
| 367 | U74899DL1990PTC041525 | अम्बालिका चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 368 | U23202DL1995PLC073471 | सिन्थेल पराफिन्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 369 | U74999DL1996PLC081816 | एँफ एम् इंडिया लिमिटेड |
| 370 | U74899DL1993PTC056267 | यूनिक स्टिकर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 371 | U31101DL2006PTC145176 | कोबेल्ल पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 372 | U65910DL1996PTC080452 | सुकृत फिन्लीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 373 | U45200DL2006PTC155042 | शगून कोलोनाइजरस प्राइवेट लिमिटेड |
| 374 | U19209DL2000PTC104928 | जी एस आर फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 375 | U45201DL2003PTC123648 | मिल्लेन्नीएम् बिल्टवेल प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 376 | U11103DL2006PTC152256 | दामोदरजी पेट्रो-केम प्राइवेट लिमिटेड |
| 377 | U74899DL1994PTC060546 | मोहिन्द्र फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 378 | U00000DL2001PTC109959 | नाजी एरोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 379 | U15543DL1997PTC085567 | अलवर बोतलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 380 | U74899DL1993PTC056622 | ओम्नितेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 381 | U25202HR2006PTC036072 | तोकाश पैकर्स एंड मोवर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 382 | U18109DL2006PTC152176 | अडवांस फैशनस प्राइवेट लिमिटेड |
| 383 | U18101DL1992PTC050413 | मोहिन्द्र थ्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 384 | U00000DL2000PTC108948 | एस टी टूर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 385 | U45200DL2005PTC143012 | पेट्रीओट कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 386 | U31200DL2005PTC139130 | एच एन आर इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 387 | U51398DL2004PTC127426 | हिंदी स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 388 | U74140DL2003PTC120994 | सैरोक्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 389 | U70102DL2006PTC153923 | यूजी टेक्नोलॉजिड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 390 | U17200DL2008PTC172294 | कैपिटल क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 391 | U72200DL1997PTC088695 | ओपएन इमेज लेब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 392 | U45400DL2007PTC170044 | अलखनंदा ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 393 | U74899DL1991PTC045686 | स्नरे फिनांस एंड मर्केंटाइल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 394 | U31109DL1994PTC058857 | एम्.के. बैटरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 395 | U93091DL2006PTC152301 | इन्फार सेक्युरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 396 | U63090DL2007PTC165435 | टी बी टूरिस्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 397 | U00304HR2005PTC035850 | रुबिक हेबोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 398 | U17118DL2004PTC130440 | एच एम् स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 399 | U15122DL2007PTC167652 | ब्लू एंजल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 400 | U63090DL2001PTC113193 | सर्वहना रोड लाईस प्राइवेट लिमिटेड |
| 401 | U74300DL2006PTC154023 | ब्लैक रोक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 402 | U99999DL1985PTC022343 | ओचानी इन्डुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 403 | U72900DL2006PTC153986 | ब्लू फोएनिकस अट्टाईसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 404 | U74899DL1989PTC035650 | मिराकल चित प्राइवेट लिमिटेड |
| 405 | U55101DL2006PTC154931 | वाईट नाईट टूरिस्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 406 | U18101DL1997PTC086945 | मुक्ता अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 407 | U74140DL2002PTC117904 | टोटल क्लेरीटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 408 | U72300DL2006PTC153288 | टेकट्रीबनेटवोर्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 409 | U63040DL2004PTC131583 | बी.आर. एडवरटाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 410 | U51909DL1995PTC068219 | वातायन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 411 | U74899DL1989PTC035191 | नीरज पेंट्स एंड ओर्गानिक प्राइवेट लिमिटेड |
| 412 | U15419DL2004PTC124625 | आर एस वि पि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 413 | U72200DL2004PTC126475 | टचस्टोन इन्वोवेटिव लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 414 | U32101DL2006PTC144926 | पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 415 | U45201DL1997PTC084532 | श्री माता विंग ब्रोदर्स (सी एंड इ) प्राइवेट लिमिटेड |
| 416 | U45200DL2006PTC156098 | उद्दिश डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 417 | U63040DL2007PTC164803 | यु फ्लाई ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 418 | U18101DL2003PTC119347 | नमः इंटरपराईसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 419 | U63033DL2003PTC119542 | विन्ची एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 420 | U72900DL2008PTC172951 | कम्पाईलर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 421 | U51103DL2007PTC163435 | पीताम्बरा पोवरजेन प्राइवेट लिमिटेड |
| 422 | U65992DL2003PTC118347 | बाल्यान चित फंड प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 423 | U65922HR1994PLC032480 | स्थानेस्वर महादेव फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड |
| 424 | U74899DL2001PTC109482 | सुरव एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 425 | U72900DL1991PTC045037 | सभरवाल सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 426 | U63040DL2001PTC111335 | वशांत एड्वेनचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 427 | U51109DL2000PTC107808 | डी एल के मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 428 | U52322DL2006PTC156187 | लूम एन क्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 429 | U72900DL2003PTC123113 | डयूस इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 430 | U65992HR1992PTC031776 | ए.एच.डी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 431 | U01112HR1988PTC030211 | सुमित्रा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 432 | U65929DL1995PTC065122 | साई प्रिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 433 | U65921DL1985PTC019908 | बोनी फिनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 434 | U65919DL1994PLC059157 | ए.डी.डी.एस. जनरल फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड |
| 435 | U80301DL2007PTC164560 | फॉरटीओरा स्कूल ऑफ एक्स्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 436 | U74899DL2006PTC146405 | आर वि वि इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 437 | U31909DL1995PTC069464 | ए.पि.एस. इलेक्ट्रिकल्स एंड कोन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 438 | U64202DL2002PTC116084 | वनटेक ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 439 | U74899DL1995PTC073594 | सपरा फिन्लिज एंड सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 440 | U74899DL1992PTC050109 | मनीटेक फिनान्सिअल ऑब्जर्वर प्राइवेट लिमिटेड |
| 441 | U27104DL2005PTC138548 | संतराम स्टील फैब्रिकेटोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 442 | U74140DL2005PTC142790 | न्यू फिएल्ड्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 443 | U19201DL2004PTC124554 | एस आर एल टी शुटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 444 | U67190DL2006PTC154553 | एक्स्सलेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 445 | U45201DL2001PTC109247 | एम एल गारमेट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 446 | U15499DL2003PTC121782 | जिंग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 447 | U31101DL2006PTC148575 | पाइओनियर सेमी कंडक्टरस प्राइवेट लिमिटेड |
| 448 | U74900DL2007PTC165013 | टी एन पि रियलकोन अटवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 449 | U74899DL1989PTC036866 | हरित डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 450 | U51909DL2005PTC136977 | मणिभद्रा एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 451 | U74999DL2003PTC119276 | टी एस आइ अविषण प्राइवेट लिमिटेड |
| 452 | U45400DL2007PTC171285 | कुएस्त कम्प्युसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 453 | U74140DL1972PTC006150 | फिनांस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 454 | U99999DL1979PTC010101 | अक्युमेन डाईमोंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 455 | U24232DL1992PLC049129 | रोट स्टेम फार्मासुतिकल्स लिमिटेड |
| 456 | U00099DL2005PTC135239 | क्लिन्ट्स फसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 457 | U24211DL1989PTC036149 | पेसटोकेम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 458 | U72300DL2007PTC164424 | युवाका टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 459 | U24119DL2004PTC126882 | कात्याल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 460 | U74899DL2002PTC114570 | मल्टी ओपेक्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 461 | U74899DL2001PTC110755 | फर्स्ट बाईट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 462 | U74140DL2008PTC175712 | कॉस्मिक क्रिएटिव टेक्नोलोजी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 463 | U51101DL1996PTC077815 | मदन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 464 | U72300DL2006PTC155272 | इ आर पि सॉफ्ट वेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 465 | U99999DL1973PTC006588 | रावला कारूक्कण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 466 | U12000DL2007PTC170497 | हिडेन ट्रेजर्स माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 467 | U67190DL1997PTC086322 | हरिताश चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 468 | U24239DL1999PTC102354 | अल्बटरोस फार्मासुतिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 469 | U25209DL1997PTC088387 | जगसन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 470 | U65910DL1997PLC089022 | सारा लीजिंग एंड फिनांस लिमिटेड |
| 471 | U24247DL2004PTC131318 | मोनिका हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 472 | U93092DL2006PTC152483 | तरी पाई अट्टाईसोरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 473 | U63040DL2000PTC107002 | शास्त्री ट्रेवेल्स एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड . |
| 474 | U65992DL1985PTC021592 | कांस्युलेट चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड . |
| 475 | U51909DL2007PTC158099 | ऑटोमेटेड प्रेसिसीओन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 476 | U30007DL1998PTC091837 | सी आर ए ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 477 | U51909DL2003PTC121554 | विजी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 478 | U74899DL2003PTC122692 | के बी स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 479 | U74899DL1995PTC066853 | सुर्तानी फर्म्स एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 480 | U74899DL1991PTC043154 | स्विज्जर अप्प्लाइएनसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 481 | U11200DL2007PTC161390 | अपस्ट्रीम अल्लाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 482 | U70101DL1989PLC034886 | दुर्लभ हाऊसिंग एंड लीजिंग लिमिटेड |
| 483 | U23109DL2005PTC133162 | रैकोट कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 484 | U92199DL2004PTC131594 | चावला बैंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 485 | U74899DL1995PTC066008 | प्रकाश पोर्टफोलिओस प्राइवेट लिमिटेड |
| 486 | U74210DL1990PTC040018 | सिटक सर्विसेज इंजिनियरिंग इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 487 | U74140DL2004PTC124375 | अम्बालिका कंसल्टेंट इंटरपराइसेज प्राइवेट लिमिटेड . |
| 488 | U72900DL2006PTC149969 | इनटेलीकोर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड . |
| 489 | U74899DL1990PTC042350 | मागो फिनांस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 490 | U74140DL1997PTC085353 | आर . के . पि . मनागेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 491 | U45201DL2005PTC135026 | राजहंस बिल्ड वेल् प्राइवेट लिमिटेड |
| 492 | U14101DL2007PTC171993 | विगयता ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 493 | U36101DL2005PTC136610 | मार्स फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 494 | U55101DL1987PTC028961 | प्रोफेशनल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 495 | U24116DL1996PTC081352 | गुजरात कस्मोकेम प्राइवेट लिमिटेड |
| 496 | U74899DL1999PTC100630 | डिवाइन रबबर प्राइवेट लिमिटेड |
| 497 | U73100DL2007PTC169135 | सन स्टार रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 498 | U28939DL2004PTC127148 | अंकुर टेक्नोफेब प्राइवेट लिमिटेड |
| 499 | U74899DL2005PTC141072 | एरॉ डिस्ट्रीब्यूशन (चंडीगढ़) प्राइवेट लिमिटेड |
| 500 | U74920DL2000PTC108968 | होरिजोन सेक्युरिकोर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 501 | U19201HR2006PTC036260 | लखानी फूटवेअर एंड एक्सेसोरिज प्राइवेट लिमिटेड . |
| 502 | U92120DL2007PTC159883 | रास मोविज एंड स्टोरीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 503 | U72900DL2007PTC166778 | वेबनेट कम्प्युसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 504 | U18101DL2003PTC123462 | श्री बाँके बिहारी फैशनस प्राइवेट लिमिटेड |
| 505 | U18109DL2007PTC164737 | जी .के . वेस्टर्न लाइफस्टाइल क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 506 | U74899DL1965PTC004333 | इए कॉम'स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 507 | U18109DL2006PTC152564 | डू लाइफ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 508 | U51909DL2005PTC133068 | डी एंड एस फेराकेम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 509 | U63040DL1997PTC089208 | नोर्थ-वेस्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 510 | U74899DL2005PTC137522 | बी पैनटेंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 511 | U18204DL2007PTC162444 | निधि गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 512 | U51109HR2007PTC037331 | ओ सी एस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 513 | U24233DL2006PLC150400 | इनफी फार्मासुतिकल्स लिमिटेड |
| 514 | U51909DL1999PTC100159 | कैंसर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 515 | U74140DL2004PTC126040 | ओरेंरी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 516 | U74140HR2007PTC037471 | अजोर इंटरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 517 | U31909DL1999PTC102492 | सन इंडिया एयरकोन प्राइवेट लिमिटेड . |
| 518 | U74899DL1987PTC028468 | कांसेप्ट्स डाटा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 519 | U45400DL2007PTC168963 | ब्राइटफेड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 520 | U72200DL2000PTC105929 | ज़िन्जिंगडोट कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 521 | U72300HR2008PTC037739 | स्विफ्ट साइबर टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 522 | U85110DL1996PTC082927 | ममता मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 523 | U72900DL2007PTC170262 | शार्प सोफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 524 | U74140DL2006PTC154787 | जी एम् कॉर्पोरेट इन्फो.कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 525 | U15500DL1997PTC090749 | भोम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 526 | U72300DL2008PTC173341 | एक्सप्लोर कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 527 | U22219DL2005PTC137016 | एस एस प्रिंटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 528 | U55101DL1989PTC037074 | प्रनड्स होली रेजोर्से प्राइवेट लिमिटेड |
| 529 | U74899DL1983PTC017089 | जय्युस पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 530 | U74110HR2006PTC036424 | इ ओ सी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 531 | U72900DL2000PTC106416 | फैशन जेन.कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 532 | U70101DL1988PTC032886 | यूनाईटेड सी आइ -कोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 533 | U22110DL1997PTC090114 | अल्पाइन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 534 | U65191DL1991PLC043511 | भावराज फिनान्सिअल सर्विसेज लिमिटेड |
| 535 | U74899DL1994PTC057171 | श्री सत्यं शक्ति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 536 | U72200DL2001PTC113216 | देव जेनी सोफ्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 537 | U65920DL1995PTC072031 | आर सी एस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 538 | U17111DL2005PTC137001 | केटचिट्स बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड . |
| 539 | U51909DL2004PTC126089 | एच वि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 540 | U20296DL2007PTC168993 | गैलेक्सी बरस आर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 541 | U74899DL1995PTC072357 | ओम्सोन फिनान्सिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 542 | U51397DL2002PTC115669 | बिमल हेल्थकेयर प्रिवत E लिमिटेड |
| 543 | U74996DL2006PTC150285 | उमीडेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड . |
| 544 | U72300DL2004PTC127976 | बंदा डाटा प्रोसेस्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 545 | U72900DL2000PTC106160 | स्वाराष्ट्र इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 546 | U17115DL1998PTC095128 | अशनीत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 547 | U55101DL2006PTC154946 | सिग्मा होटेलिएर्स एंड रियलटोरस प्राइवेट लिमिटेड |
| 548 | U74999DL2000PTC103496 | जैकली माँ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 549 | U74899DL1982PTC014424 | निकास कोमर्शियल बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 550 | U45400DL2008PTC172466 | आइ सी इ -सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 551 | U74210DL2006PTC150086 | गोपाल क्रिशन इंजिनीरिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड . |
| 552 | U74999DL2007PTC162701 | दुर्ग बमबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड |
| 553 | U22110DL1993PTC051591 | सक्सेस बुक्स एंड इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 554 | U99999DL1979PTC009959 | रक्षक चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 555 | U02001DL1999PLC098058 | वसुंधरा अगफो (इंडिया) लिमिटेड |
| 556 | U74300DL2004PTC126940 | डाइनामिट कम्प्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 557 | U32106DL2007PTC159784 | मित्तल इलेक्ट्रोकोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 558 | U27209DL1986PTC026039 | श्री महावीर केम प्राइवेट लिमिटेड |
| 559 | U72300DL2006PTC154976 | सिफार कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 560 | U74899DL1996PTC077308 | जय अम्बे अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 561 | U74999DL2003PTC118728 | परफेक्ट रोड सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 562 | U18101DL2004PTC128940 | साक्षी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 563 | U60231DL2000PTC103320 | रूपम फ्रेटवेस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 565 | U74900DL1996PTC080818 | डी आर जी सेक्युरिटीज एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 566 | U45400HR2007PTC037037 | गोल्डक्रेस्ट टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 567 | U92111DL2003PTC123756 | मास मीडिया इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 568 | U28112DL2007PTC160715 | कान्हा प्रिसिसीओन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 569 | U74899DL1993PTC054718 | वाईट हाक ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 570 | U55101DL1997PLC090149 | वैशाली स्प्रिंग मीडोस लिमिटेड |
| 571 | U72200DL2004PTC130544 | आइ आर वि कम्प्युसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 572 | U65992HR2000PTC034404 | राईट चोइस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 573 | U85110DL2005PTC137865 | सुश्रुता हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 574 | U65992DL1982PTC013106 | बिंद्रा फिनांस एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 575 | U65929DL1994PLC063250 | भावराज फिन्लीज लिमिटेड |
| 576 | U74899DL1987PTC027487 | निवृत्ति एन्जिनीर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 577 | U65921DL1995PTC074156 | तोफहा फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 578 | U45201DL2005PTC138300 | लाइओन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 579 | U34103DL2006PTC150246 | भसीन वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 580 | U67120DL1995PTC069066 | शिवानी फिनान्सिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 581 | U74899DL1992PTC047006 | श्री शीतल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 582 | U25190HR2007PTC036759 | अरमान रबबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 583 | U25517HR2006PTC036308 | अरमान शूज प्राइवेट लिमिटेड |
| 584 | U74899DL2001PTC109117 | दत्त एंड एस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 585 | U70101DL2005PTC139444 | हाईटाइम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 586 | U72200DL2006PTC156849 | एन डी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 587 | U18101DL2007PTC169998 | नवयुग फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 588 | U51909DL2003PTC118724 | हीना टेली कन्सुलिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 589 | U51109DL2000PTC104868 | परिशीओउस एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 590 | U29191DL1998PTC097710 | सीजनमेकर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 591 | U74899DL1980PTC010187 | आकार प्राइवेट लिमिटेड |
| 592 | U74899DL1988PTC031187 | शुची बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 593 | U70101DL1995PTC073982 | गज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 594 | U19200HR2007PTC036767 | लखानी अरमान फूटवेअर प्राइवेट लिमिटेड |
| 595 | U72200DL1998PTC096309 | सूर्यमा नेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 596 | U55101DL1998PTC093217 | बिस्त होटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 597 | U30007DL1998PTC092079 | ब्रावो कॉम्पैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 598 | U72900DL1997PTC086674 | सिस्टेमैटिक्स टेक्नोसोफ्त प्राइवेट लिमिटेड |
| 599 | U22110DL1998PTC094481 | हिमालयन इंस्टीट्यूट बुक्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 600 | U74899DL2001PTC112314 | इ लैबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 601 | U55101DL2002PTC117554 | फर्स्ट कुअलिटी होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 602 | U18101DL1996PTC078196 | ग्रास अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 603 | U32109DL1993PTC055162 | एडवांसड टेक्नो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 604 | U85120DL2005PTC142647 | यूरो डेंटल लैब प्राइवेट लिमिटेड |
| 605 | U40106DL2006PTC155891 | वितल सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 606 | U74900DL1998PTC094147 | लोटस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 607 | U63013DL2003PTC122990 | स्काई शिप कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 608 | U34300DL2003PTC119473 | परक ऑटो-ओन प्राइवेट लिमिटेड |
| 609 | U45202DL1997PTC085486 | छवि डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 610 | U72200DL2005PTC133881 | सागा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 611 | U70109DL2006PTC152055 | कमल लक्ष्मी बिल्ड वेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 612 | U65992HR1989PTC030564 | इओटोन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 613 | U85193DL2006PTC152409 | अविका होमेओ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड |
| 614 | U74999DL2003PTC119903 | बी आर अकुआ शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 615 | U65992DL1990PTC038777 | सज्जन चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 616 | U18204DL2006PTC156717 | वैभव मनुफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 617 | U67190DL1996PTC080630 | प्रीती पोर्टफोलिओस प्राइवेट लिमिटेड |
| 618 | U32109DL1998PTC094952 | नेटवर्क इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 619 | U00092DL2005PTC138712 | बुध कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 620 | U72900DL2006PTC152379 | रेडीएंट टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 621 | U72900DL2002PTC115304 | ब्रह्मा कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 622 | U74899DL1993PTC054723 | मेटालाईट इण्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 623 | U72900DL2002PTC116528 | एस.के. टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 624 | U14219DL2001PTC113612 | माइनिंग एंड इंजिनियरिंग देवेलोपमेंट एंड कांस्वर्कण को. प्राइवेट लिमिटेड |
| 625 | U45400DL2007PTC168308 | डैफोडील इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 626 | U74899DL2000PTC105930 | ब्रैंडटेल्स डोट कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 627 | U45200DL2007PTC158223 | एस एम् एस इन्नोवेटिव आर्किटेक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 628 | U45201DL1997PTC090658 | डी .आइ . डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 629 | U51909HR2004PTC035373 | क्रोस -जंक्शन एक्सिस्टिंग बिटोर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 630 | U36999DL2007PTC158331 | एस जेड एल सेफगाइर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 631 | U26100DL2007PTC170411 | टी .ए . ग्लास प्रोसेसिंग एंड प्लाईवूड प्राइवेट लिमिटेड . |
| 632 | U55201DL2004PTC125046 | परथावाला रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 633 | U74300DL1988PTC034327 | वेक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 634 | U29299DL2007PTC169255 | सेवेन सीज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड |
| 635 | U36911DL1999PTC098595 | एल ए पीर्स जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 636 | U72200DL1998PTC096752 | रविन सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 637 | U72200DL2005PTC136293 | प्लाज़ा इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड |
| 638 | U22110DL2005PTC138673 | ओप्टिमा पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 639 | U67120DL2006PTC144615 | स्ट्रैटेजिक रिस्क कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 640 | U72900DL2003PTC122066 | नर्सेंट इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 641 | U72300DL2007PTC166586 | ओलाब्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 642 | U72900DL2004PTC124606 | अग्रता इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 643 | U18101DL1997PTC086252 | चित्र सारीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 644 | U64203DL2007PTC159892 | थुराया सेटेल्लेराईट टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 645 | U72200DL2005PTC133536 | नेटजोन इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 646 | U27101DL1994PTC057953 | बिरेंद्रा सिंह एंड को. प्राइवेट लिमिटेड |
| 647 | U74899DL1995PTC073928 | अम्बा इंटीरिओर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 648 | U51109DL1996PTC082214 | वि जी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 649 | U99999DL1991PTC042774 | टोप्लाइन पॉवर इकुइपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 650 | U65992HR1998PTC033981 | फास्ट ग्रोथ चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 651 | U74899DL2000PTC106700 | पिरामिड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 652 | U51909DL2007PTC170131 | नील गगन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 653 | U52190DL2001PTC110494 | एक्स्हीलरोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 654 | U18101DL2005PTC136130 | शिव राम डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 655 | U92199DL2002PTC117578 | फन फेयर अम्युसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 656 | U36996DL2007PTC158940 | डी .के .के . जेवेल्लेर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 657 | U01135DL1992PTC047286 | विपुल क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 658 | U27209DL2007PTC169224 | मुस्कान ब्रास आर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 659 | U45201DL1993PTC055929 | कोर एस्टेट्स एंड रेसोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 660 | U74899DL1986PTC025404 | अनुभव अद्वेराईसिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 661 | U45201DL2003PTC119844 | चोप्रा रियलटोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 662 | U18109DL2006PTC154064 | न्यू एरा टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड |
| 663 | U55204DL2006PTC149790 | ए वि एम् केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 664 | U29191DL2004PTC124742 | आर एस बी एयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 665 | U74899DL1994PTC063770 | म्युचुअल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 666 | U55101DL2005PTC142049 | कुमार मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 667 | U18101DL2005PTC136425 | दुर्गा वेअर प्राइवेट लिमिटेड |
| 668 | U65923DL1996PTC076141 | न्यूएज फिन्सेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 669 | U51909DL2005PTC133423 | पिरामिड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 670 | U74899DL2000PTC107550 | आकाश प्लेनर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 671 | U72300DL2008PTC174505 | एम्.जे. टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 672 | U93090DL2006PTC151769 | आर्विंद एनेर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 673 | U01111DL1996PLC080764 | कृषक औद्योगिक विकास लिमिटेड |
| 674 | U72900HR2002PTC034919 | सिक्स्फोल्ड सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 675 | U18109DL2006PTC151936 | न्यू लाईट गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 676 | U85110DL1988PTC031931 | एडवांसड इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 677 | U52100DL2007PTC163592 | क्यू बी इ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 678 | U51909DL2005PTC140136 | मेटाकेयर एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 679 | U51909DL2002PTC116243 | रोयल लाइफ मल्टी मार्केटिंग एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 680 | U45201DL2006PTC147373 | संग्रह बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 681 | U16002DL2004PTC126724 | नागपाल तोबक्को प्राइवेट लिमिटेड |
| 682 | U70200DL1986PTC023227 | वि.के. प्लान्तेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 683 | U67190DL1995PLC066745 | भावराज इनफोसिस लिमिटेड |
| 684 | U55109DL2004PLC126132 | कन्वेंशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड |
| 685 | U51909DL2003PTC123054 | वेक्सिल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 686 | U45202DL1999PTC102536 | पनेसर कांस्त्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 687 | U33205DL1993PTC055267 | शित्ति फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड |
| 688 | U17200DL1998PTC092872 | श्री राम वाणिज्य पोलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 689 | U85110DL2003PTC119567 | विन-टेक्नो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 690 | U45201DL1997PTC090717 | ए एम् एम् कांस्त्रक्शंस एंड एन्जिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 691 | U51432DL2001PTC111145 | औरा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 692 | U74900DL1996PTC078135 | राइट सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड |
| 693 | U45203DL1996PTC082767 | कोरोनेशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 694 | U65910DL2007PTC164104 | फिन्मर्क फिनान्सिअल अदाईसोरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 695 | U45201DL1989PTC034609 | धवन कन्स्त्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 696 | U74120DL2008PTC173377 | एम् एंड डी सेक्युरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 697 | U74300DL2008PTC175666 | कॉक्लेव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 698 | U30007DL1997PTC084646 | अल्गोरिथम इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 699 | U51224DL2003PTC118933 | पद्मावती एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 700 | U74999DL1998PTC096676 | एडेन एन्टरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 701 | U72900DL2006PTC156103 | ए डी आइ कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 702 | U72300DL2008PTC175325 | बाइट्स एंड ब्रैनस आइ टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 703 | U24248DL2007PTC170843 | स्ट्रॉंग स्मेल अगरबत्ती वोक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 704 | U99999DL1997PTC084671 | डी एम् एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 705 | U32109DL2005PTC139649 | कैनरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 706 | U60231DL2007PTC169430 | जे सी एम् लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 707 | U72501DL1996PTC083568 | अफ्फिनिती कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 708 | U51909DL2005PTC135703 | सरमाउंट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 709 | U72900DL2007PTC164568 | डी के पि इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 710 | U51909DL2005PTC144034 | लविश मेचैड्राईस प्राइवेट लिमिटेड |
| 711 | U63040DL2002PTC117292 | वाइल्ड इंडिया ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 712 | U74140DL2005PTC134621 | ट्रोजन अट्टाईसोरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 713 | U45200DL1984PTC018201 | सुप्रीम टेक्नो कांस्क्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड |
| 714 | U72300DL1990PLC042492 | डाटासोफ्ट इंडिया लिमिटेड |
| 715 | U45400DL2007PTC170235 | हनुमानजी इन्फ्राबिल्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 716 | U74120HR2007PTC037312 | डू केलिबर सर्च प्राइवेट लिमिटेड |
| 717 | U72900DL2000PTC103424 | हंसा साइबर टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 718 | U74140DL2002PTC117213 | फ्रॉन्टरनर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 719 | U74899DL1995PTC068530 | राव एंड सॉस प्राइवेट लिमिटेड |
| 720 | U32109DL2004PTC128652 | के एम् इलेक्ट्रो टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 721 | U51397DL2002PTC116966 | एलिविसर मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 722 | U74899DL1988PTC030297 | ब्रिजोल आयलकेम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 723 | U27202DL2007PTC170067 | क्लास्सिक ब्रास प्राइवेट लिमिटेड |
| 724 | U45400DL2007PTC162951 | रचना इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 725 | U70200DL2006PTC157052 | कान्हा रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 726 | U27109DL1985PLC021627 | अगरवाल कास्टिंग्स उद्योग लिमिटेड . |
| 727 | U45201DL2004PTC131283 | एस सी सिंगला बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 728 | U24211DL1995PLC068393 | सैंचुरी फरटीलाइजर्स लिमिटेड |
| 729 | U74300DL2000PTC105043 | एल पि एम् ब्रैंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 730 | U74899DL1985PTC022288 | ब्लू होरिजोन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 731 | U74899DL1991PTC044826 | होरिजोन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 732 | U93000DL1999PTC099478 | इम्पेक्स इंडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 733 | U72200DL2006PTC155288 | बैंडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 734 | U65992HR1992PTC031778 | पारी थोसिक चिट्स प्राइवेट लिमिटेड . |
| 735 | U72300DL2004PTC127821 | प्रभु कम्प्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 736 | U25199DL1986PTC026487 | सावन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड .. |
| 737 | U65992DL1998PTC097076 | गुरलीन चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 738 | U74910DL2000PTC106524 | ओन्तरेक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 739 | U91909DL2004PTC130855 | डस्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 740 | U72900DL2000PTC105384 | अपोल्लो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 741 | U24233DL2006PTC151083 | बेस्ट मेडफूड रेमेडीस प्राइवेट लिमिटेड . |
| 742 | U31300DL1998PTC093916 | एस.बी. वाइरस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 743 | U22110DL1985PTC020563 | सूरज कान्त मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 744 | U74999DL1996PTC078656 | इन्तेर्नेशनल फक्टोरिस (इंडिया) को. प्राइवेट लिमिटेड |
| 745 | U51909DL2007PTC163853 | अल्वेयस इन स्टाइल मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 746 | U65921DL1997PLC089003 | सेक्युरा फिनांस एंड लीजिंग लिमिटेड |
| 747 | U00313HR2005PTC035766 | आदित्य मोल्दिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 748 | U00389HR2005PTC035780 | शिवांक तोयस प्राइवेट लिमिटेड |
| 749 | U70101DL1989PTC034879 | गुडगाँव प्रोप्रिटिस प्राइवेट लिमिटेड |
| 750 | U74210DL2002PTC115414 | सुगर एक्स्त्रैक्ट कंसल्टिंग एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 751 | U15316DL2003PTC122467 | गोरमेट पिज्जस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 752 | U72300DL2005PTC136292 | डैपफोदिल आइ टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 753 | U24239DL2003PTC121430 | टेकनोबित फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 754 | U72200DL1999PTC099769 | कृष्णोत एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 755 | U72900DL2006PTC147028 | अल्बत्रोस कोम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 756 | U65999HR2004PTC035322 | दिशा इंश्युरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 757 | U74920DL2003PTC123249 | शार्प आई सेक्युरिटी कंसल्टेंट्स एंड प्रोब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 758 | U80302DL2002PLC115445 | इंस्टीट्यूट ऑफ़ श्रृंखला सर्विसेज एडुकेशन एंड ट्रेनिंग लिमिटेड |
| 759 | U29303DL1996PTC076731 | आशु इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 760 | U80903DL2004PTC125983 | यु एस सी पि ए एक्साम प्रेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 761 | U74899DL1982PTC014840 | ब्लागना चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 762 | U18101DL1999PTC102072 | कलाकृति एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 763 | U74899DL2001PTC109631 | रेस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 764 | U45201DL2004PTC130402 | अमेय कोन्वर्क्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 765 | U45309DL1996PTC075088 | कालिंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 766 | U51397DL2002PTC115718 | मानव मेडिसिन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 767 | U70109DL2006PTC151024 | सरप्राईस बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 768 | U74899DL2000PTC105519 | ब्रैंडट्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 769 | U27106DL2000PTC108360 | कम्युनिक कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 770 | U70101DL2006PTC148981 | चिन्तपुरनी प्रोप्लिड प्राइवेट लिमिटेड |
| 771 | U74140DL1996PTC083777 | मनु कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 772 | U45201DL2004PTC127413 | एस के एस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 773 | U45201DL2004PTC126877 | सिंघ बिल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 774 | U74899DL1984PTC017557 | इंटरप्रेस मेगेज़िन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 775 | U00356DL2005PTC139896 | एस जी एम् लिफ्ट्स एंड एस्केलेटोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 776 | U30007DL1997PTC085805 | नाइक टा बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 777 | U63040DL2000PTC108459 | डिवाइन एडवेंचर ट्रिस्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 778 | U74899DL1995PTC071745 | फ़ोरिस फ़िनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 779 | U74140DL2005PTC141582 | पसुमारती अल्टीमो कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 780 | U74899DL1995PTC073490 | जेड ओ-एफ़ इ फिन्लीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 781 | U99999DL1995PTC073769 | जतिन सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 782 | U25209DL2003PTC119436 | जे ए गैंग प्लास्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 783 | U74899DL2001PTC109222 | कुईन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 784 | U51420DL2005PTC132112 | वि एम् कोनकास्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 785 | U74920DL2002PTC117231 | ब्लैक फोक्स सेक्युरिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 786 | U45201DL2004PTC129624 | नैना बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 787 | U45201DL2002PTC115748 | एस वि डी एल प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 788 | U18109DL2006PTC152833 | जी. के. गर्टक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 789 | U74899DL2004PTC130019 | महावादी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 790 | U33110DL1997PTC084657 | लेसरमेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 791 | U18101DL2005PTC136426 | अंजुमन क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 792 | U74899DL1987PTC027430 | एरोटेक्निका सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 793 | U52100DL2007PTC167451 | फ्यूचर ऑफिस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 794 | U72900DL2003PTC121827 | ट्राईल रिज सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 795 | U74900DL1999PTC099708 | सबा रिवेर्सिबल्स एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 796 | U24239DL2007PTC170665 | जेनेसिस क्लिनिकल RESEARCH प्राइवेट लिमिटेड |
| 797 | U51229DL2001PLC112846 | एम रेनैस्संस लिमिटेड |
| 798 | U29299HR1985PTC021258 | हरयाणा इरिगेष्ण इकुइपमेंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 799 | U70101DL2004PTC129702 | अम्बिका बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 800 | U51109DL1999PTC101570 | राजेश्वरी टेक्निकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 801 | U45400DL2007PTC167911 | सुखधाम रेसीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 802 | U74899DL1994PTC058887 | आर एन ए सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 803 | U72200DL2005PTC139860 | सेकोइर इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 804 | U36101DL2005PTC135221 | नाज़ फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड |
| 805 | U34200DL2007PTC169475 | अंशिका ऑटो प्राइवेट लिमिटेड |
| 806 | U18101DL2005PTC136419 | भावना वेअर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 807 | U63013DL2003PTC121632 | आइ डी एम् कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 808 | U45400DL2008PTC172322 | हिमसर बिल्डर एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 809 | U74899DL1979PTC009665 | चहल अग्रिकल्चरल फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 810 | U51909DL2007PTC163375 | कार्बोन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 811 | U74899DL1988PTC034329 | कनुप ट्रैडिस्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 812 | U52100DL2007PTC167386 | माइंडप्रो मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 813 | U51101DL2002PTC114360 | आइ.आर. गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 814 | U74899DL1994PTC060659 | एक्स सर्विसमेन एवेरेस्ट कार्रिअर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 815 | U70101DL1998PTC094210 | अमर गुरु बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 816 | U72200DL1999PTC102373 | जेड आइ-टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 817 | U74999DL2005PTC140725 | डिवाइन सर्टिफिकेष्ण सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 818 | U72400DL2006PTC153791 | मिदास सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 819 | U01409DL1997PLC086953 | गंगोत्री ग्रीन-वैल्ली लिमिटेड |
| 820 | U74899DL1977PTC008547 | अल्हसीन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 821 | U74899DL1985PTC022483 | के के पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 822 | U51223DL2005PTC140146 | अल-बरकत फ्रोजेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 823 | U51397DL2003PTC118878 | डॉ. दिवानिया फार्मासुतिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 824 | U74899DL1994PTC058632 | सूद एन्तेरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 825 | U45402DL1996PTC077712 | हिमालय डेकोरेटर कोमबाईनस प्राइवेट लिमिटेड |
| 826 | U55101DL2002PTC114404 | ठाकुरदास एन्तेरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 827 | U45201DL2005PTC135760 | ए के एस मीडोस एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 828 | U45201DL2004PTC129785 | वाम सिमक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 829 | U65990DL1998PTC091524 | सुदेश होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 830 | U72900DL2001PTC109884 | वेब मीडिया सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 831 | U11200HR2007PTC036867 | एस वोन गैसिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 832 | U74899DL1986PTC023945 | उर्जा अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 833 | U17291DL1997PTC087730 | भगवती प्रोसस्सोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 834 | U45400DL2007PTC168072 | राईट बिल्ड लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 835 | U17223DL1985PTC020024 | वंदना कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 836 | U27310DL2007PTC163562 | बिल्डू श्री स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 837 | U74899DL1984PTC017895 | एच के चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 838 | U67120DL1995PTC064756 | लोडर्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 839 | U72200DL2001PTC113548 | न्यूरोसॉफ्ट लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 840 | U18101DL2002PTC114011 | यु आर गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 841 | U74140DL2000PTC106936 | मधुर मिलन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 842 | U92100DL2007PTC162683 | रियल क्ले मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 843 | U85310DL2007PTC170572 | ताज मोटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 844 | U51909DL2005PTC138634 | आधार डिस्ट्रीब्यूटोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 845 | U52335DL1999PTC099449 | रेडन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 846 | U74920DL2004PTC125692 | डैगनेट डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 847 | U51209DL1999PTC099529 | विब्रोस ऑटो मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 848 | U51311DL2005PTC144164 | अंजुमन ए ए क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 849 | U40109DL2006PTC154585 | सोल एनेर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 850 | U72200DL1997PTC084973 | श्रीमा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 851 | U74899DL1995PTC069099 | इन्दुकैम होमिओपथिक फार्मासुतिकल्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 852 | U45201DL2006PTC145374 | टाइम्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 853 | U01111DL2004PTC125491 | जे एन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 854 | U18109DL1998PTC093156 | फिगर क्लोथिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 855 | U17122HR2007PTC036865 | प्रिया सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 856 | U74899DL1995PLC065410 | कॉर्नरस्टोन फिनान्सिअल सर्विसेज लिमिटेड |
| 857 | U85110DL2006PTC147446 | सुखदा मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 858 | U63090DL2002PTC114762 | एरो क्रूस ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 859 | U72200DL2002PTC114066 | जैश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 860 | U45201DL1992PTC048572 | इन्तेर्को डेवेलोप्स एंड फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 861 | U51909DL2002PTC113802 | कस्टोर्स एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 862 | U74220DL2006PTC154483 | एच.आर. इन्वेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 863 | U33111DL2005PTC136356 | रेडीएंट रेजेंट्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 864 | U74140DL2001PLC111461 | हीरो अस्सोसिएट्स लिमिटेड |
| 865 | U72100DL1999PTC098779 | वि आइ ए इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 866 | U45200DL2003PTC122320 | ए एस पि कांस्क्रूषण एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 867 | U74999DL2000PTC103358 | साइबरक्यू ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 868 | U51101DL2007PTC169476 | एस बी आर एक्स एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 869 | U63090DL2003PTC120444 | करम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 870 | U74120DL2008PTC173716 | कौशिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 871 | U20299DL2007PTC158671 | काथ कर्मा हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 872 | U62100DL2002PTC117656 | अक्यूडाटा इन्फोस्पेस्तेम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 873 | U51909DL2004PTC123843 | माँ जगद जननी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 874 | U74899DL1981PTC012243 | शिवदर्शन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 875 | U24133DL2002PTC115186 | आशिमा पोली केम प्राइवेट लिमिटेड |
| 876 | U51909DL2003PTC122561 | परोलोन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 877 | U45200DL1989PTC034602 | एवेरस्ट प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 878 | U74300DL1993PTC054907 | केड माइरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 879 | U17111DL2000PTC108335 | मैसन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड |
| 880 | U74899DL1965PTC004337 | इन्स्पी ऑटो इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 881 | U45400DL2007PTC170826 | ओ आर पि एस डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 882 | U51909DL1998PTC097521 | यूरोस्टार इन्नोवेशनस प्राइवेट लिमिटेड |
| 883 | U74899DL1990PTC042362 | डी डी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 884 | U74899DL1989PTC036240 | गेरा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 885 | U51311DL2003PTC119832 | सुशार एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 886 | U74899DL1978PTC009003 | वैकटेश्वरा एन्जिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 887 | U45400DL2007PTC171473 | न्यू लाइफ स्टाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 888 | U80302DL2006PTC147488 | ग्रेटर नॉएडा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 889 | U01403DL2007PTC167564 | देवप्रिया नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 890 | U26959HR1992PTC031646 | अडवांस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 891 | U74140DL1999PTC097816 | अमिगो सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 892 | U24232DL2005PTC144100 | ग्लिसटर फार्म प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 893 | U18101DL2005PTC134398 | उचित फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 894 | U74899DL1990PTC040934 | स्टेल्लर इन्डुमेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 895 | U51909DL1984PLC019477 | प्रियतमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड |
| 896 | U52190HR1998PTC033977 | ग्रेट इस्टर्न एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 897 | U72900DL2000PTC107977 | कुलगुरु कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 898 | U24231DL2003PTC120931 | विकास केमिस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 899 | U72200DL2005PTC137169 | एस सी इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 900 | U72900DL2000PTC104020 | आक्रोस वर्ल्ड इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड |
| 901 | U15209DL2000PTC106377 | जे एन जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 902 | U51909DL2002PTC116506 | ब्लूस्म वेल रियल तिनक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 903 | U72900DL2002PTC114804 | ओ.एस.डी. कोल्लिएर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 904 | U45400DL2007PTC163458 | आधारशिला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 905 | U74950DL2001PTC110638 | मल्टीवैक इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 906 | U51909DL2003PTC118841 | सत्या साई टेक्नीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 907 | U99999DL1996PTC078812 | अपर एयर एंड सी कार्गो प्राइवेट लिमिटेड |
| 908 | U64120DL1993PTC055958 | वायु सेवा कुरिएर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 909 | U74899DL1993PTC055785 | शील सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 910 | U24248DL2007PTC170351 | स्टार अगरबती वोक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 911 | U51909DL2002PTC117461 | एलिमेंट्स डिजाइन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 912 | U65992HR1991PTC031202 | रेस्क्यूमैन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 913 | U51909DL1996PLC075533 | जे के इंडिया लिमिटेड |
| 914 | U24222DL2004PTC126256 | रिफ्लेक्स पैट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 915 | U74899DL1992PTC050577 | मिनाक्षी फ्यूल इन्जेक्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 916 | U74899DL1990PTC042072 | जी एंड ए सिनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 917 | U74899DL2005PTC143660 | के.बी. सेक्युरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 918 | U65992DL1985PTC022058 | ग्रह संचय चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 919 | U51215DL2004PTC131735 | नरेन हर्बल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 920 | U29299DL1989PTC034787 | अदोनिंस होम अप्प्लाइन्सज प्राइवेट लिमिटेड |
| 921 | U63040DL2001PTC112713 | यूरो कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 922 | U45102DL1990PTC041984 | कॅवर ओ.पि. वर्मा एंड अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 923 | U63040DL2008PTC172988 | परिणीता ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 924 | U74899DL1989PTC037211 | क्रिसर्स एलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 925 | U74900DL1996PTC079740 | रुस्तम फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 926 | U51103DL2005PTC134754 | पिक्सेल डिजिटल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 927 | U72300DL2006PTC149442 | आर सी सॉफ्ट वेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 928 | U52341DL1993PTC055116 | ऋचा अधिसिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 929 | U28910DL2007PTC163603 | नवनीत ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 930 | U65992HR1992PTC031862 | न्यू विंटेज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 931 | U01111DL2004PTC123933 | सरस्वती अग्रीकल्चर फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 932 | U74899DL1995PTC070351 | ए पि एस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 933 | U74999DL2007PTC160712 | सोनावेद डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड |
| 934 | U65921DL1987PTC028390 | इन्तेर्टेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 935 | U74920DL2004PTC130257 | इन्फ्रा स्कुएर हेल्थकेयर प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 936 | U74899DL1995PTC074145 | अल्टिअस मर्चेंडाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 937 | U05005DL1978PLC009001 | पीजे इंडो बुल्गेरिएन फिशेरिज लिमिटेड |
| 938 | U00000DL1993PTC054235 | रोहिणी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 939 | U51909DL2003PTC121465 | अस्टेरिक्स इंडिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 940 | U72900DL2003PTC123028 | भक्ति टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 941 | U25199DL1991PTC045215 | रेजेन्सी रबबर प्राइवेट लिमिटेड |
| 942 | U23201DL2004PTC126487 | एम् एम् ए जी ल्यूब्रिकेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 943 | U74899DL1989PTC038444 | गोड ब्लेस्सिंग लीजिंग एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 944 | U74140DL2004PTC126417 | ए के एस विकेल कंसल्टेंसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 945 | U18101DL2005PTC136789 | अशज्योती अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 946 | U34300DL2001PTC111465 | डी के एस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड |
| 947 | U70109DL2006PTC155548 | यूनाईटेड लैंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 948 | U70102DL2007PTC160071 | जी पि ए डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 949 | U74899DL1995PTC066395 | शिवराज एन्टरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 950 | U74899DL2000PTC108743 | मोकुल सेक्युरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 951 | U70102DL2006PTC156327 | के जी ए बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 952 | U74190DL2001PTC111586 | बालाजी मैनपावर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 953 | U74899DL1991PTC042783 | गिआनवती अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 954 | U74899DL1986PTC023765 | कुश चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 955 | U31909DL2007PTC159548 | ऑर्बिट टेलीवैचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 956 | U74899DL2001PTC109279 | इन्नोवेशन फोर्म्युलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 957 | U65921DL1995PTC065217 | रजनी फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 958 | U74140DL2000PTC107976 | जाबो इन्तेर्नेशनल एन्तेरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 959 | U24233DL2007PTC170149 | आर आर डी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 960 | U72900HR1999PTC034264 | स्पाईडेन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 961 | U51909DL2003PTC120105 | स्पक्लेट्स अकुआ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 962 | U25209DL2006PTC150228 | क्रिशन कन्हैया प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 963 | U74899DL1970PTC005488 | पौल्को ट्रेड इंटरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 964 | U72900DL2002PTC116867 | जेईस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 965 | U74899HR2006PTC036005 | रे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 966 | U62100DL1998PTC093110 | आउटर बाउंड टूर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 967 | U70109DL1996PTC081581 | एअर्थ फार्म्स एंड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 968 | U51410DL1991PTC043699 | सोल्यो पैंट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 969 | U17121DL2007PTC162936 | वेरनाल वीयाजेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 970 | U65910HR1994PTC032383 | ओ एस एम् फिन्लिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 971 | U24232DL1998PTC092130 | लेय्कोन फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 972 | U92312DL2002PTC113740 | सिटी ऑडियो विसिओन प्राइवेट लिमिटेड |
| 973 | U70109DL2006PTC149875 | ट्रस्स्क प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 974 | U74999DL2005PTC136216 | सिल्वर गेम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 975 | U72200DL1980PTC010281 | रियल टाइम कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 976 | U74899DL1989PTC036279 | स्पेल रेजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 977 | U63040DL2000PTC107473 | वोयजेउर वर्ल्ड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 978 | U74899DL1992PTC049937 | इगल इ -सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 979 | U52190DL2001PTC110105 | राम कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड |
| 980 | U74899DL1989PTC034844 | हिन्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 981 | U45203DL1995PTC069034 | पारामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 982 | U51393DL2001PTC111256 | कश्यप ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 983 | U51311DL2001PTC111411 | वृन्दावन इन्फाइन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 984 | U72200DL2000PTC104082 | सी डी डिजाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 985 | U99999DL1989PTC038636 | बोस बम्बर आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 986 | U74899DL1999PTC100312 | श्रुति ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 987 | U74899DL1994PLC061027 | ट्रांसिल इंडिया लिमिटेड |
| 988 | U23201DL2001PLC110801 | मेगा ल्यूब इंडिया लिमिटेड |
| 989 | U26921DL1997PTC085344 | इन्तेर्नेशनल रिफ़ाक्टोरिस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 990 | U51909DL2004PTC125578 | ओरेंज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 991 | U80902DL2007PTC158013 | नोबल मन्हातन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 992 | U51109DL1997PTC088135 | आर्यन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 993 | U72200DL2007PTC171568 | वेवसाईट टेकनोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 994 | U63040DL2005PTC141676 | बेला ट्रिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड |
| 995 | U32103DL1994PTC060487 | रेनू हाईरिंग एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 996 | U17299DL2004PTC128200 | संझिधानी कलाकृति प्राइवेट लिमिटेड |
| 997 | U65910DL1988PTC031122 | विष्णु क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 998 | U67120DL1997PTC086144 | वेलफेयर फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड |
| 999 | U74899DL1993PLC052393 | एन बी ए फिनांस लिमिटेड |
| 1000 | U55101DL2006PTC154992 | एम्. जी. होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1001 | U72900DL2004PTC124726 | लेक्सादिगम सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1002 | U72900DL2000PTC105596 | मिति सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1003 | U33112DL2006PTC145485 | सिम्लेक्स मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड |
| 1004 | U18101DL2005PTC136015 | मधुर क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1005 | U74999DL2001PLC113472 | सेफ्टी एंड सेक्युरिटी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड |
| 1006 | U18101DL2005PTC136016 | आर बी ए क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1007 | U74899DL1989PTC036487 | चिनाब लैंड एंड डेवेलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1008 | U20296DL2007PTC157739 | सैगल इनवूइस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 1009 | U05001DL1980PLC010200 | गोल्डेन आहार लिमिटेड |
| 1010 | U74899DL1995PTC066145 | टोनिक फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1011 | U72900DL2000PTC105686 | डाईमेंशन कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 1012 | U51909DL2006PTC145322 | मोक्ष एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1013 | U29246DL1995PLC070955 | सुविधा सेफ डिपोजिट वॉल्ट्स लिमिटेड |
| 1014 | U52335DL1995PTC065576 | एॅमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1015 | U74899DL2005PTC141577 | अल्फ़ा ब्रेक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1016 | U80302DL2005PTC133978 | गुलमोहर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ प्राइवेट लिमिटेड |
| 1017 | U65999DL1995PTC069340 | इन्दर क्रेडिट अर्रॅज्स एंड रिप्रेसेंटेतिव्स एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1018 | U74999DL2000PTC104732 | मेक ए डिफ़रेंस मार्केटिंग अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1019 | U24231DL1987PTC028194 | यूडोरा फार्मासुटिकाल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1020 | U80302DL2005PTC143953 | आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1021 | U65992DL1997PTC085845 | अगम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1022 | U72200DL1997PTC086789 | लोजिकटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1023 | U74130DL1998PTC093613 | चाय नेटवर्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1024 | U45200DL2007PTC158524 | बेर्यल बिल्डर्स एंड कन्स्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1025 | U45200DL2007PTC158240 | डिंकी बिल्डर्स एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1026 | U74899DL1994PTC059536 | प्रिया सेक्युरिटिस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1027 | U45201DL2003PTC121448 | लेमोंट्री एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1028 | U45200DL2006PTC155606 | एलानोर बिल्डर्स एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1029 | U51909DL2004PTC129047 | निरंजन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1030 | U74899DL1983PTC016576 | समृधि स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1031 | U72900DL2005PTC139734 | इन्प्रेनेउर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1032 | U74899DL1995PTC067389 | सत्या सेक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1033 | U51109DL2007PTC158947 | अविरल डिसट्रिब्युशंस प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 1034 | U74899DL1984PTC017818 | तोषी फिनांस एंड चिट फंड को प्राइवेट लिमिटेड |
| 1035 | U34300DL1981PTC012492 | कएल गेअर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1036 | U74899DL1995PTC067939 | गोस्वामी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1037 | U74899DL1994PLC060363 | गोल्डलाइन स्पिन्नर्स लिमिटेड |
| 1038 | U45400DL2007PTC166434 | के आर सी -पल रियलटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1039 | U24246HR2003PTC035239 | लेमोर कॉस्मेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 1040 | U31909DL2003PTC120537 | फॉर्मोस्ट अप्प्लाइड एनस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1041 | U74899DL1991PTC044366 | एच एस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1042 | U45200DL2007PTC158511 | डिल्ली बिल्डर्स एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1043 | U65992DL1997PTC087302 | ए जी एल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1044 | U51909DL2003PTC120217 | सुपर लाइफ मल्टीलिंक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 1045 | U18101DL2005PTC139028 | विजया नितक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1046 | U72900DL2007ULT161444 | सुपिरिओर टेक आई टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 1047 | U80903DL2004PTC123859 | ग्रेटर नॉएडा इन्स्टिट्यूशनल रेसीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1048 | U74300DL2001PTC110763 | एन्हांस पब्लिक -रिलेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1049 | U85191DL2006PTC151524 | एम् आर एस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 1050 | U74300DL1996PTC079906 | AKANKSHA ADVERTISING एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1051 | U65992DL2000PTC105708 | B N K चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1052 | U29244DL1996PTC075811 | AGRICO इकुइपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1053 | U00892DL2005PTC138788 | एफ़ पि ओ इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1054 | U63040DL1984PTC017287 | जेफ़र ट्रेवेल एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड |
| 1055 | U74899DL1994PTC061627 | EL -टेक स्विच गेअर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1056 | U67120DL1994PTC057008 | सूर्या मुखी सेक्युरितिस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1057 | U63013DL2002PTC114744 | सीकोन एयर एंड सी लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1058 | U29309DL1984PLC018483 | पोलो टोय्स लिमिटेड |
| 1059 | U74899DL1995PTC068505 | डेल्टा प्राइम कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 1060 | U36911DL1999PTC100089 | आइ वि ओ स्पिना जेवेलरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1061 | U29120DL1998PTC093522 | एन आर जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1062 | U74899DL1995PTC069380 | ब्लूबर्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1063 | U72900DL2003PTC121158 | रा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1064 | U00000DL2002PTC118006 | एस डी पि ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1065 | U17291DL2000PTC108708 | नीलकंठ कम्प्यूटर एम्ब्रोइडरी वोक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1066 | U72200DL2002PTC115879 | इन्वेंट्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1067 | U74140DL2001PTC110309 | रॉय एंड अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1068 | U74210DL1998PTC096241 | नीर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1069 | U29192DL2004PTC128647 | टेक्नो कूल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1070 | U74899DL1993PTC055181 | इ एम् इ एस एस डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1071 | U67120DL2000PTC103763 | एस एन जी अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1072 | U64200HR2007PTC037347 | गोरडियन टेलीकोन्नेक्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1073 | U74899DL1995PTC071521 | लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1074 | U65921HR1986PTC026386 | सपना टूर्स ट्रेवल्स एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1075 | U65923DL2007PTC160030 | ए . एन . सी . होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1076 | U74899DL1992PTC051261 | बॉय -डी ए इ (इंडिया) फिशरिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 1077 | U36912DL2006PTC155431 | बी एस एम् फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड |
| 1078 | U74899DL1995PTC067880 | गिल्ट फसिलीटीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1079 | U19201DL2003PTC122218 | नाइल फूट वेअर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1080 | U85110DL1997PTC090339 | एस पि ए मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 1081 | U74899DL1993PLC052186 | ओनिडा इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 1082 | U72900DL2003PTC118521 | हाईअसिंथ इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1083 | U74999DL1963PTC003985 | रेखा इन्वेस्टमेंट एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 1084 | U65910DL1988PTC031188 | स्पेस डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1085 | U29299DL1980PTC010691 | पैन कांटेनैटल प्राइवेट लिमिटेड |
| 1086 | U74992DL1996PTC075977 | टॉप-वन सेक्युरिटीस एंड फिन्लज प्राइवेट लिमिटेड |
| 1087 | U27310DL2007PTC158620 | बी एंड जे मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1088 | U74899DL1974PTC007092 | पारसनाथ पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1089 | U72900DL2003PTC123315 | आर एस इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 1090 | U52110DL1986PLC025755 | देवन मेर्काटाइल्स लिमिटेड |
| 1091 | U45201DL1998PTC092639 | विद्या टॉवर्स एंड रेसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1092 | U65992HR1999PTC034384 | वि.एस.वि. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1093 | U65910DL1996PTC081261 | असका लीजिंग एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1094 | U74899DL1986PTC025782 | विजिल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 1095 | U40107DL2005PTC134503 | हर्बिन्सॉस एनेर्जी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1096 | U65992DL1998PTC096438 | स्पेअरहेड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1097 | U24233DL1996PTC077662 | पैन्सोम हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1098 | U74899DL2001PTC109494 | नेट कोन्नेक्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1099 | U28991DL2001PTC112285 | शिवा प्रेसिसीओन कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1100 | U45201DL2004PTC131606 | अमकिर प्रोमोटर्स एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1101 | U51909DL2004PTC128411 | कर्माटेक इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1102 | U74910DL2005PTC136630 | ॐ एच आर विसिऑस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1103 | U15142HR1983PTC015136 | पन्नालाल आयल एंड जेनेरल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1104 | U29223DL2008PTC175843 | इनको-पि पि रोल्लिंग एंड प्रोसेस इकुइपमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 1105 | U72200DL1999PTC099866 | असान टेली कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 1106 | U51909DL1999PTC099942 | एन के बी इंडिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1107 | U74140DL1998PTC094016 | जी एम् प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1108 | U72900DL2002PTC117642 | दिशा डार्मोडमाइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 1109 | U74899DL1993PTC056336 | मयूर इंटर लिनक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1110 | U70102DL1997PTC084458 | दीप अग्गार्वल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1111 | U51909DL2005PTC139812 | पि एस एस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1112 | U74899DL1974PTC007422 | भारत डाइस एंड पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1113 | U65992DL1998PTC096813 | आयन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1114 | U55101DL2000PTC103392 | कैप्टेन रेसोर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1115 | U72900DL2000PTC104455 | रिकोस्सा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1116 | U24239DL2003PTC118366 | ह्यूमैन केयर रेमेडी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1117 | U51909DL2005PTC143858 | रेव इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1118 | U74899DL2000PTC107124 | जे सी आर मार्केटिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1119 | U24119HR2001PTC034767 | अर्जुन ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1120 | U99999DL1981PTC011572 | विनल फिनांस एंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 1121 | U65992DL1986PTC023373 | श्रीलेखा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 1122 | U74899DL1989PTC036842 | एक्शन कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड |
| 1123 | U15139DL2007PTC157664 | पारेओ-ए फूड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 1124 | U72900DL2007PTC171787 | उडान इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 1125 | U29303DL1999PTC099231 | सीजन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड |
| 1126 | U63040DL1999PTC099640 | हरपाल तुर एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1127 | U51311DL1996PTC081443 | जाप ट्रेड लिनक्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 1128 | U70109DL2006PTC150160 | डी एस प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1129 | U74899DL1995PTC064883 | नीतिका फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड |
| 1130 | U72200DL1998PLC096348 | यूरोसोफ्ट इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 1131 | U24299DL1960PTC003342 | पोरसलैम एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1132 | U74900DL1998PTC092600 | क्रैस्सेंट अप्प्लाइएन्सज़ प्राइवेट लिमिटेड |
| 1133 | U31909DL2005PTC134392 | कंट्रोल्स एंड स्विचगेअर (उत्तरांचल) प्राइवेट लिमिटेड |
| 1134 | U93091DL2006PTC148750 | मक्ज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1135 | U51311DL2005PTC136666 | कल्पना सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1136 | U24111DL2000PTC108316 | विनयल अधेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1137 | U74300DL2002PTC117431 | अंगकोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1138 | U50101DL2004PTC123802 | शीतल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1139 | U45201DL2006PTC147111 | बी एल बी एस एस्टेट्स एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1140 | U74899DL1995PTC069945 | के के इंटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 1141 | U27209DL1997PTC085787 | सफ्फाईर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1142 | U74899DL2000PTC103696 | वैर्तेक्स पुल्लोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1143 | U74999DL2005PTC135112 | मंत्रा मोबिगैन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 1144 | U74899DL1988PTC030934 | अम्बर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1145 | U13100DL2001PTC113291 | हरयाणा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1146 | U34103DL2004PTC129724 | एड्वान्स्ड मोबिलिटी वेहीकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1147 | U74999DL2003PTC122443 | सी इ सी काऊंसेलिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 1148 | U55101DL2005PTC131959 | ए बी एस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1149 | U74899DL2001PTC109414 | भारती हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1150 | U65992HR1993PTC032164 | क्रैसेसेंट चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 1151 | U32308DL2006PTC146735 | सन वियु मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 1152 | U65992DL2000PTC107746 | नेवे चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2011

सं. कर/दिल्ली/560(5)/ईईएस-2011/भाग-III-1/3203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| S. No. | CIN | Company Name |
|--------|-----------------------|---|
| 1 | U22211DL1998PTC095561 | कलर फिएल्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | U74899DL1995PTC067290 | नोर्थब्रिज पेरिकोम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | U74910DL2005PTC133646 | सेवेन स्टार हाउसकीपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | U72200DL2004PTC129271 | सिटी फेम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | U70101DL2006PTC148387 | वेस्ट इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | U23209DL1999PTC101899 | ए एस पेट्रोलिअम प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | U74899DL1990PTC039140 | आर ए के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 8 | U74899DL1982PTC013879 | वैशाली उद्योग प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | U74899DL1980PTC010701 | झालानी ब्रोडर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | U27310DL1995PTC066076 | विनीत स्टील एंड अल्लोय्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | U00000DL2000PLC103379 | एलाभ टेक्नोलॉजिस लिमिटेड |
| 12 | U74140DL1996PTC083401 | अन्जाक स्टडीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | U51909DL1996PTC081474 | यूनीवोर्थ ओवेसिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | U72200DL2000PTC103229 | शहाणा सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | U67120DL1995PTC064281 | नेटरोन फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | U45201DL2004PTC129927 | पाइन वूड रियलटोरस प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | U65993DL1996PTC081685 | महारा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | U17299DL2007PTC159626 | ऑचल निटफैब प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | U32109DL2004PTC125249 | टॉप-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | U51909DL1999PLC100701 | देवान चंद ढोलन दास एंड को. लिमिटेड |
| 21 | U65992DL1990PTC042265 | विकास मार्ग चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 22 | U74899DL1983PTC015576 | पाण्डेय एंड अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 23 | U65992HR1990PTC030820 | यु.जी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | U25209DL1989PTC035267 | डेल्टा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | U74899DL1987PTC028777 | ए बी फार्म प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | U25199DL1988PLC032335 | मक्सो रबर्स लिमिटेड |
| 27 | U74900DL1998PTC097485 | सेक्युर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | U67190DL1988PTC032439 | राइजिंग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | U72900DL2002PTC115698 | सी-तेल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 30 | U74910DL2003PTC123603 | आइ आर आइ एस करियर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | U74899DL1993PTC053911 | गूसा अर्जेसिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | U51310HR1953PTC001812 | नोवेल ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 33 | U32204DL2004PTC124455 | आइ आर आइ एस टेली कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 34 | U74110DL2005PTC141095 | आडिय स्वेयोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 35 | U72200DL1994PTC059335 | मिरा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 36 | U51109DL2007PTC162923 | डी एफ इ एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 37 | U67120DL1996PTC075567 | जे वाई सी फिनान्सिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 38 | U45203DL1984PTC018769 | सावित्री एस्टेट्स एंड टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 39 | U24233DL2001PTC110874 | एडमार्स भार्या प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 40 | U27200HR1989PTC030460 | महालक्ष्मी गलवानाइसर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | U74920DL2003PTC119821 | दीप सेक्युरिटी एंड प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 42 | U74900DL1996PTC080583 | किट्टी फिन्लिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 43 | U31103DL2006PTC150199 | मधुरीना प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड . |
| 44 | U65910HR1974PTC007165 | शालू फिनान्सिअल एंड लोन को प्राइवेट लिमिटेड |
| 45 | U74899DL1991PTC043144 | डाइनामिक लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 46 | U45201DL1995PTC072440 | वि आर डी कॉन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | U74899DL1995PTC032840 | लाहोरी राम एंड सौंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 48 | U74899DL1995PTC073833 | वासवी फिस्कल प्राइवेट लिमिटेड |
| 49 | U74899DL2000PLC107767 | एम टील -मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड |
| 50 | U74899DL1994PTC057091 | वृन्दावन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 51 | U51909DL1994PTC060100 | केतिका इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 52 | U74899DL1995PTC071279 | ए आर जी ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 53 | U45200DL2007PTC158993 | ड्रीमक्यूएस्ट प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 54 | U64201HR1995PTC032622 | कर्नल कम्युनिकेशंस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 55 | U33119DL2000PTC103249 | ली वाताना प्राइवेट लिमिटेड . |
| 56 | U67110DL1996PTC080823 | स्वेल्ट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 57 | U24246DL2005PTC135854 | एन यू स्किन प्राइवेट लिमिटेड |
| 58 | U65921DL1992PTC050011 | चिन्मय लीजिंग एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 59 | U67120DL1996PTC080812 | ब्लिस सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 60 | U65922DL1988PTC030438 | फास्ट लीजिंग एंड फिनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 61 | U22219DL1996PTC079340 | गेट इट डाईरेक्टोरिस प्राइवेट लिमिटेड |
| 62 | U72200DL1996PLC082000 | गेट इट सॉफ्टवेयर लिमिटेड |
| 63 | U72900DL2004PTC124543 | चारु इ कॉम एंड होस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 64 | U18101DL1998PTC092497 | मोहल भारती एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 65 | U74899DL1994PTC060931 | इस्ट डेल्ही कम्युनिकेशंस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 66 | U51909DL1998PTC096816 | लखनऊ एनेटैन्मेंट नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड . |
| 67 | U72200DL2000PTC107628 | साई इफोवे प्राइवेट लिमिटेड |
| 68 | U51909DL2005PTC136899 | रक्तकमल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 69 | U74140DL2004PTC124544 | चारु रेलोकेषन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 70 | U31909DL2004PTC129033 | सोनल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 71 | U51909DL2005PTC136064 | कन्तामानी फोटो फ्रेम्स ब्रदेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 72 | U74899DL1995PTC068423 | पी एंड अनू इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 73 | U65992HR1992PTC031773 | प्रोसेक्युर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 74 | U70101HR1997PTC033798 | ए बी रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 75 | U51909HR2003PTC035227 | पीरलाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 76 | U18101DL2005PTC138941 | गर्भा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 77 | U51311DL2005PTC140772 | गरमा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 78 | U18101HR2000PTC034509 | हैरिटेक्स फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 79 | U51909DL1992PTC048590 | जेट स्टार इन्तेर्नेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 80 | U74899DL1991PLC045137 | गंगा अगरी सीड्स लिमिटेड |
| 81 | U51109DL1990PTC039225 | मजेस्टिक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 82 | U34826DL1989PTC034826 | अबधूत स्वामी मेल्टेकम प्राइवेट लिमिटेड |
| 83 | U67120DL1995PTC065672 | श्री दुर्गा सेक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 84 | U17220DL1988PTC031253 | डेल्ही धुरी दुबोर प्राइवेट लिमिटेड |
| 85 | U15200HR1991PTC031223 | मिल्की वे आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड |
| 86 | U24231DL1998PTC093711 | विन्सन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 88 | U51391DL1998PTC095193 | रोनाल्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 89 | U72900DL2000PLC103202 | कॉस्मोस सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड |
| 90 | U74899DL1992PTC049795 | रावल नर्सिंग होम एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड |
| 91 | U63040DL1996PTC083514 | स्काईबर्ड एरवेयस प्राइवेट लिमिटेड |
| 92 | U51909DL2005PTC133569 | सायो इंटरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड |
| 93 | U65921DL1994PLC062213 | ए.के.एस. फिन्लिज लिमिटेड |
| 94 | U24239DL2004PTC131620 | बनयान वेल्नेस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 95 | U65921DL1994PLC062278 | मिलन फैशन्स एंड फिन्लिज लिमिटेड |
| 96 | U31200DL1985PTC021041 | प्रोकोन कंसोर्टिएम प्राइवेट लिमिटेड |
| 97 | U51101DL2006PTC148450 | ओजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 98 | U74899DL1992PTC049427 | फ्लोरेस इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 99 | U31909DL1981PLC011837 | इंडो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
| 100 | U02001HR1998PLC033889 | कारन भूमि फॉरेस्ट लिमिटेड |
| 101 | U15315HR1995PLC032662 | जेबक मल्ट लिमिटेड |
| 102 | U65910DL1992PTC051422 | जिज्ञासा इन्वेस्टमेंट्स एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड |
| 103 | U45201DL2005PTC132623 | सर बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 104 | U18101DL2003PTC118470 | वैभवी स्पिन्नेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 105 | U65992DL1995PTC071979 | दिष्टि चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 106 | U45201DL2005PTC134820 | एकम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 107 | U74899DL1983PTC015901 | कैपेबल ट्रेडिंग एंड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 108 | U65992DL1996PTC083959 | आभास चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 109 | U00892DL2005PTC140876 | कैप्सटन इन्फोवेयस प्राइवेट लिमिटेड |
| 110 | U65992DL1996PTC083464 | समृद्धि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 111 | U74899DL1989PTC035945 | बब्बर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 112 | U74899DL2000PTC108843 | वि 3 क्लास्सेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 113 | U74899DL1994PTC059751 | इन्टीरिओर एक्सप्रेसन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 114 | U74899DL2000PTC109530 | बी डी खन्ना एन्तेर्प्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 115 | U74899DL1994PTC059203 | एन ए कम्प्यूटर्स शोपिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 116 | U70101DL1992PTC050037 | वि एन वि कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 117 | U45200DL2007PTC159275 | मोहित कोन्सल्टन्स एंड डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 118 | U70109DL2007PLC168843 | ए वि बी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलोप्स लिमिटेड |
| 119 | U55101DL2006PTC149012 | वाईटस्काई होलिडेज प्राइवेट लीड |
| 120 | U45206DL2007PTC160319 | मोहित कोन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 121 | U22306DL1981PTC011499 | बी डी खन्ना पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 122 | U24299DL1990PTC040305 | आर्य प्रोग्रेसिव केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 123 | U74899DL1986PTC025390 | मोर्निंग ब्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 124 | U74899DL1975PTC007856 | अब्बासी ब्रोडर प्राइवेट लिमिटेड |
| 125 | U29211HR1990PTC031134 | अग्गारवाल इम्प्लेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 126 | U15541DL1999PTC099361 | ए एन अंजेल फूड एंड बेवराजेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 127 | U74899DL2006PTC145202 | मिराज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 128 | U00893HR2005PTC035751 | एटक्स एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 129 | U74999DL2000PTC104692 | सिको वाटरप्रूफिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 130 | U24231HR2003PTC035055 | नेक्सस मेडिकेम प्राइवेट लिमिटेड |
| 131 | U45400DL2008SGC172772 | इनप्लेन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 132 | U74140DL2008PTC172957 | गंगा एक्सप्रेसवे कांस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 133 | U51909HR2004PTC035355 | जोन फोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 134 | U26109DL1999PTC099149 | श्यामा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड |
| 135 | U72900DL2004PTC126388 | नाविगैट कॉल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड |
| 136 | U29199DL2005PTC144197 | थेर्मो प्रिसिशन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 137 | U01122DL1996PTC082529 | बडस बाईओटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 138 | U51909DL2005PTC133091 | न्यू वे एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 139 | U74994DL2003PTC123349 | स्टाइल एंड डेकोर एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 140 | U18101DL2005PTC134452 | शुभी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 141 | U18101DL1998PTC093337 | रग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 142 | U74899DL1994PLC060606 | जे पि फोस्फेट्स लिमिटेड |
| 143 | U65910DL1995PLC065865 | सहकर लीजिंग एंड फिनांस लिमिटेड |
| 144 | U45201HR1990PTC030996 | प्रशं जे इंजिनियरिंग कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 145 | U65992HR1994PTC032369 | अलास्का चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 146 | U65921HR1986PTC026346 | ब्लू बर्ड अप्पलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 147 | U74899DL1992PTC048764 | त्रिन्शक्ति एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 148 | U74910DL1987PTC028808 | मनेक्स कोस्टल्टैट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 149 | U51909DL2005PTC137220 | लक्ष ट्रेडलिनक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 150 | U67190DL1994PLC060127 | तनया फिनान्सिअल सर्विसेज लिमिटेड |
| 151 | U74899DL1986PTC025324 | शुभा इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 152 | U00000DL1997PTC087880 | नमः शिवाय एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 153 | U72100DL1999PTC102028 | एल्फिन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 154 | U67120DL1999PTC098349 | शुभलक्ष्मी सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 155 | U72200DL1998PTC092035 | बी एन बी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 156 | U57909HR2004PTC035551 | धर्तिपुत्रा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 157 | U05001DL1982PLC014897 | शिव गंगा फिश्रिस लिमिटेड |
| 158 | U74899DL1988PTC032982 | सी एम डी सी डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड |
| 159 | U74899DL1995PTC065923 | अनंत फिनान्सिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 160 | U67120HR1994PTC032413 | राजगौतम फिनान्सिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 161 | U74899DL1995PTC064647 | अग्गु इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 162 | U25209DL1997PTC088615 | पूजा पलासटोकेम प्राइवेट लिमिटेड |
| 163 | U74899DL1996PTC079138 | कूपर्स एंड लाइब्रैड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 164 | U22122DL2002PTC114406 | पेव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 165 | U65992HR1991PTC031245 | डी.एस.वि. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 166 | U18101DL2008PTC172249 | एस एन टी लेबल्स & डाटा कोड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 167 | U31402DL1995PTC072579 | इन्डोवोल्ट बैट्री प्राइवेट लिमिटेड |
| 168 | U74899DL1990PTC040001 | नॉएडा न्यूज प्राइवेट लिमिटेड |
| 169 | U74899DL1995PLC066133 | जी एस आर अग्रो रिसोर्ट्स लिमिटेड |
| 170 | U55103DL2001PTC110510 | एवलोन होलिडेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 171 | U74899DL1985PTC021718 | एन के फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 172 | U65921DL1989PTC036886 | युशिका लीजिंग एंड फिनांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 173 | U01122HR2003PLC035115 | तन्सी बाईओ-टेक (इंडिया) लिमिटेड |
| 174 | U45200DL2007PTC158253 | फास्ट ट्रेक डेवेलोप्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 175 | U74899DL2001PTC110137 | फोर्ट लेदर प्राइवेट लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 176 | U72200DL1996PTC080217 | शकुंतला कम्प्यूटर्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 177 | U28993DL1992PLC048999 | इस्ट डेल्टा वोल्टस लिमिटेड |
| 178 | U51311DL2004PTC127188 | एस आर एच एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 179 | U74899DL1972PTC006269 | तेरा होटल एंड रेस्टोरैन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 180 | U74899DL1994PTC062372 | रापिड लिनक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 181 | U74899DL1990PTC041642 | कारानिता टेक्सप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 182 | U65929DL1996PLC076718 | बिना फिनलिज लिमिटेड |
| 183 | U02005DL1995PLC068476 | गंगा कावेरी अगो फोरेस्ट्री लिमिटेड |
| 184 | U01119DL1992PLC048576 | इडासा अगो इंडिया लिमिटेड |
| 185 | U27109DL2003PTC120620 | ट्रिग स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 186 | U74899DL1990PTC040638 | के एल मनचंदा एकेडेमिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड |
| 187 | U74899DL1995PLC069189 | मरीन रिसोर्स इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 188 | U74999HR2001PTC034735 | किसान स्पिन्क्लेर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 189 | U15432DL1986PTC025168 | कमल प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 190 | U74899DL1993PTC052409 | एस एम् ए डी पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड |
| 191 | U74140DL2004PTC125172 | स्पेक्टा एबिओस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 192 | U74899DL1994PTC061444 | पि के सेक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 193 | U65921DL1992PTC047096 | बी बी एम् फिनांस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 194 | U74999HR2004PTC035575 | एस के अच फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 195 | U74899DL1983PTC015070 | घुमान होटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 196 | U51909HR2004PTC035388 | नव्या त्राएक्सिम प्राइवेट लिमिटेड |
| 197 | U15400DL2008PTC173971 | रामा सन्देश फूड ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड |
| 198 | U72200DL2004PTC130582 | गेटवेल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 199 | U74999DL2000PTC104669 | के डी एम् इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 200 | U28111DL2004PTC129184 | मक्विस्मन फब्रिकाश्वस प्राइवेट लिमिटेड |
| 201 | U72900DL2007PTC170231 | रिविएरा इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 202 | U74899DL1989PTC035455 | चंदसांस अप्लिसंज प्राइवेट लिमिटेड |
| 203 | U63045DL2005PTC132017 | स्काई कुइन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 204 | U40101DL1995PLC070750 | इलेक्ट्रिक स्प्लाइ को. (इंडिया) लिमिटेड |
| 205 | U74899DL1998PTC095171 | खुराना डिपार्टमेंटल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड |
| 206 | U74899DL1979PTC009885 | सूर्य होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 207 | U31909DL1996PTC077718 | अहिंनता ऑडियो आर्कड प्राइवेट लिमिटेड |
| 208 | U65923HR1999PTC034358 | मुकुरित फिनान्सिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 209 | U65910HR1995PLC032810 | श्री सिद्धार्थ लीजिंग एंड फिनांस लिमिटेड |
| 210 | U74899DL1993PTC051558 | केल्टन इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 211 | U86221DL2004PTC126745 | न्यू एज लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 212 | U21000DL1984PTC018343 | ॐ पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 213 | U17214DL1996PLC079224 | टेक्सास ब्रिडिंग कंपनी लिमिटेड |
| 214 | U74899DL1995PTC072449 | रियल वैल्यू पम्पस प्राइवेट लिमिटेड |
| 215 | U55101DL1999PTC099499 | बनों एंड ब्रियन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 216 | U70109DL2006PLC150288 | ओजो सीटीस लिमिटेड |
| 217 | U35921DL1993PLC055927 | स्विफ्ट साइकल्स लिमिटेड |
| 218 | U70109DL2006PLC150140 | ओजो एन आर आइ रेजीडेन्टा लिमिटेड |
| 219 | U51909DL2006PLC152367 | ओजो एक्सिम वर्ल्डवाइड लिमिटेड |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 220 | U18101DL2007PTC161169 | ए के जी फब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 221 | U45201DL2006PLC145594 | ओजो एस्टेट्स लिमिटेड |
| 222 | U70101DL2006PTC148543 | लॉर्ड शिवनंदन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 223 | U01121DL1985PTC020309 | रूचि फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 224 | U21022DL1998PTC096463 | अनंत कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 225 | U65993DL1992PTC047081 | कालिंदी क्रेडिट्स एंड सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 226 | U70109DL2006PTC149806 | फाइन केयर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड |
| 227 | U85121DL2006PTC153455 | डी आइ एल यूरोप मेडिकल (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 228 | U74899DL1992PTC047253 | श्याम फेब एन्तेप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 229 | U51109DL2000PTC104475 | ज्योति वीसा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 230 | U72900DL2000PTC105395 | सिंगल आइ कॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 231 | U25199DL1995PLC069570 | प्रोमैन् केबल्स लिमिटेड |
| 232 | U74899DL1987PTC028662 | कमला नगर चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 233 | U22121DL2004PTC126333 | एकता मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 234 | U74899DL2006PTC145200 | मधुसूदन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 235 | U74899DL1988PTC033403 | बंधू चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 236 | U65992DL2000PTC106126 | गीन वेल्ली चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 237 | U45201DL2004PTC131395 | ए जेड ए बिल्डर्स एंड कन्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 238 | U65992DL2004PTC127115 | निशु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 239 | U74899DL1995PTC067362 | दाशा कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 240 | U74999DL2007PTC163828 | जस्पर कॉर्पोरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 241 | U74999DL2005PTC135088 | अक्षित प्लास्टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 242 | U18204DL2007PTC161958 | इलाकम फैशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड |
| 243 | U74140DL2003PTC120283 | भज गोविन्दम फिनान्सिअल कांस्ट्रुक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 244 | U65992HR1998PTC033845 | अक्षत चिट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 245 | U51431DL1992PTC049802 | कविता सेल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 246 | U29191DL1996PTC082636 | गायत्री वैभव ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 247 | U74999DL1991PTC043135 | पवन तनय फ्यूल इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड |
| 248 | U51311DL2002PTC118199 | रेडीअंत क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 249 | U24130DL1994PLC062477 | मेम्फिस पोलीमर्स लिमिटेड |
| 250 | U63012DL2004PTC126700 | एम्.डब्लू.शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड. |

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शान्ता लेमिनेट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 जून 2011

सं. एमसीए/आरओसी/दिल्ली (सीजीओ) सेक्शन 560/2011/00158--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त पर
मैसर्स शान्ता लेमिनेट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डोमस आर्ट गैलरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2011

सं. एमसीए/आरओसी/दिल्ली (सीजीओ) सेक्शन 560/2011/00135--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त
मैसर्स डोमस आर्ट गैलरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ट्रांस कोर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 जून 2011

सं. एमसीए/आरओसी/दिल्ली (सीजीओ) सेक्शन 560/2011/20879--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रांस कोर मार्केटिंग प्राईवेट
लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी
विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 24 जून 2011

सं. 560(5)/102--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई
हैं :-

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|-------------|---------------|---|
| 1. | 016677 | मैसर्स त्रिभुवन लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 027821 | मैसर्स एडवानटेक एग्रो कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 008855 | मैसर्स त्रिवेणी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 025431 | मैसर्स मानफी एविएशन सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 028414 | मैसर्स प्रियदर्शनी फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 021614 | मैसर्स ओपेल ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 018748 | मैसर्स सन शाइन इंडिया हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड |
| 8. | 032572 | मैसर्स सुभद्रा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 029376 | मैसर्स फास्ट डिटेक्टिव एण्ड सिक्वोरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 004694 | मैसर्स टेस्टी बिब्रेजि प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 032814 | मैसर्स श्री भैरव डिस्टिलरीज लिमिटेड |
| 12. | 003678 | मैसर्स रिबरिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 023281 | मैसर्स सर्वत्र फ्यूल मैनेजमेंट एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 029315 | मैसर्स विनायक व्हीकल फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |

एम. पी. शाह
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 20 जून 2011

सं. टीएस/560(5)/578--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560
की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस
तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2729 | मैसर्स बचित्तर सिंह एण्ड सन्स फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 2559 | मैसर्स जे. ए. एस. इण्डस्ट्रीज चण्डीगढ़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 0006 | मैसर्स पंजाब कोपरेटिव बैंक प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 0034 | मैसर्स रोज एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 0043 | मैसर्स अमृतसर शूगर मिल्स कं. लिमिटेड |
| 6. | 0833 | मैसर्स देविको प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 0077 | मैसर्स गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट फिरोजपुर कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 0115 | मैसर्स शक्ति इन्व्हेस्टमेंट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 0172 | मैसर्स पंजाब स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड |
| 10. | 0184 | मैसर्स तरन तारन बैंक लिमिटेड |
| 11. | 0235 | मैसर्स टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 0241 | मैसर्स श्री महालक्ष्मी कॉटन गिनिंग एण्ड प्रिंटिंग फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 0276 | मैसर्स ओम प्रैस कम्पनी लिमिटेड |
| 14. | 0673 | मैसर्स भठिन्डा दयालबाग स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 0337 | मैसर्स जनरल माईन्स एण्ड क्वैरीज लिमिटेड |
| 16. | 0390 | मैसर्स मिल्टैक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 0406 | मैसर्स पंजाब इण्डस्ट्रियल एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 0416 | मैसर्स इन्डिया एम्युनियेशन सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 0434 | मैसर्स कांगडा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 0512 | मैसर्स जैसिको इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 0542 | मैसर्स नार्थ लैंड स्पोर्ट्स लिमिटेड |
| 22. | 1965 | मैसर्स पंजाब ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड |
| 23. | 1834 | मैसर्स मिनरबा हौजरी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 0602 | मैसर्स मलोट ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 0607 | मैसर्स सेठ ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 0658 | मैसर्स एशियाटिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------|--|
| 27. | 0672 | मैसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट एण्ड जनरल कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 0760 | मैसर्स गुरप्रसाद ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 0786 | मैसर्स लुधियाना ग्रेन एक्सचेंज लिमिटेड |
| 30. | 0816 | मैसर्स न्यू जोली गुड्स ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 1106 | मैसर्स सूरज गुड्स कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 32. | 1991 | मैसर्स भुपिन्द्रा फ्लोर मिल्स लिमिटेड |
| 33. | 2021 | मैसर्स चम्बा वैली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड |
| 34. | 0941 | मैसर्स गंगा सहाय सध मल प्राईवेट लिमिटेड |
| 35. | 1203 | मैसर्स शिमला जिमिदारा लिमिटेड |
| 36. | 1003 | मैसर्स जानकीदास इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 37. | 1044 | मैसर्स यूटिलिटी मेटल एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 38. | 1078 | मैसर्स हिन्दोस्तान डवलपमेंट्स लिमिटेड |
| 39. | 1087 | मैसर्स डा. सरमुख सिंह एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 40. | 1110 | मैसर्स सरजिको लिमिटेड |
| 41. | 1118 | मैसर्स स्ट्रीम लाईन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 42. | 1103 | मैसर्स भारत कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 43. | 1119 | मैसर्स स्टार ऑफ इन्डिया लिमिटेड |
| 44. | 1136 | मैसर्स ओंकारा ग्रेन वायर्स सिंडिकेट लिमिटेड |
| 45. | 1137 | मैसर्स श्री कृष्णा अग्रवाल एक्सचेंज लिमिटेड |
| 46. | 1133 | मैसर्स के. चौधरी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 47. | 1145 | मैसर्स आजाद हिन्द केमिकल्स लिमिटेड |
| 48. | 916 | मैसर्स ऑटोमोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 49. | 1151 | मैसर्स जनता इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 50. | 1149 | मैसर्स ऑटोमोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 51. | 1977 | मैसर्स कपूरथला फ्लोर ऑयल एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 52. | 1317 | मैसर्स नकोदर नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड |
| 53. | 2721 | मैसर्स निलही फाईनेंसर्स एण्ड चिट फण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 54. | 2726 | मैसर्स नवजीवन इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 55. | 2227 | मैसर्स दौलत इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 56. | 1340 | मैसर्स ओंकार ट्रेडर्स लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|-----|------|---|------|------|--|
| 57. | 0054 | मैसर्स कसौली इलैक्ट्रिक सप्लाय कं. लिमिटेड | 89. | 2119 | मैसर्स कोटकपूरा चैम्बर ऑफ कामर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 58. | 1435 | मैसर्स दा दुर्गा आईस एण्ड जनरल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 90. | 1877 | मैसर्स दोआबा फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 59. | 2016 | मैसर्स चमन शूज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 91. | 1747 | मैसर्स होट्ज इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 60. | 2017 | मैसर्स गोन्दारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 92. | 1759 | मैसर्स मलोध फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 61. | 0002 | मैसर्स गौदना ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 93. | 1769 | मैसर्स इम्पोर्ट कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 62. | 1373 | मैसर्स इण्डस्ट्रियल एण्ड एग्रीकल्चर्स लिमिटेड | 94. | 1771 | मैसर्स वैज नाथ सूरजदेव प्राईवेट लिमिटेड |
| 63. | 1409 | मैसर्स फ्री इन्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड | 95. | 1750 | मैसर्स अमृतसर हायर परचेज एण्ड फाईनेंस कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 64. | 2504 | मैसर्स द्वारका दास एण्ड कम्पनी पटियाला प्राईवेट लिमिटेड | 96. | 1780 | मैसर्स पंजाब फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स कं. लिमिटेड |
| 65. | 1433 | मैसर्स नेशनल ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड | 97. | 1787 | मैसर्स पंजाब फाईनेंस एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 66. | 1437 | मैसर्स न्यू बैली व्यू ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 98. | 1788 | मैसर्स दा मालवा लैंड एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 67. | 1436 | मैसर्स रमनीक कला मन्दिर प्राईवेट लिमिटेड | 99. | 1792 | मैसर्स सरूप एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 68. | 1460 | मैसर्स जुवली हाईवेज ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड | 100. | 1794 | मैसर्स न्यू जनता बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड |
| 69. | 1475 | मैसर्स भारत प्रिंटिंग प्रैस प्राईवेट लिमिटेड | 101. | 0205 | मैसर्स न्यू हाईथर बस सर्विस लिमिटेड |
| 70. | 1499 | मैसर्स शिवालिक टॉकिज प्राईवेट लिमिटेड | 102. | 2140 | मैसर्स जनता कारपोरेशन लिमिटेड |
| 71. | 2052 | मैसर्स वरनाला ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 103. | 2144 | मैसर्स प्रेम बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड |
| 72. | 0068 | मैसर्स स्वाधीन साहित्य प्राईवेट लिमिटेड | 104. | 1815 | मैसर्स नीलम फाईनेंस एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 73. | 1565 | मैसर्स मुरी हिल ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 105. | 1820 | मैसर्स लुधियाना नेशनल ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 74. | 2310 | मैसर्स मार्टन फाऊण्डरी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड | 106. | 2146 | मैसर्स फतेहगढ़ साहिब बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड |
| 75. | 1720 | मैसर्स मार्टन फाऊण्डरी वर्क प्राईवेट लिमिटेड | 107. | 2161 | मैसर्स बचितर सिंह एण्ड सन्स फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 76. | 2071 | मैसर्स पटियाला बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 108. | 1839 | मैसर्स एच. एस. दुग्गल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 77. | 2073 | मैसर्स मलेरकोटला बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 109. | 1849 | मैसर्स चण्डीगढ़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 78. | 1623 | मैसर्स सैथ एण्ड स्कैलटन प्राईवेट लिमिटेड | 110. | 2160 | मैसर्स भारत डवलपमेंट लिमिटेड |
| 79. | 2074 | मैसर्स पैपसु ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 111. | 2163 | मैसर्स खतरा बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड |
| 80. | 2077 | मैसर्स दा पैपसु ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 112. | 2001 | मैसर्स सेठ चन्द्रा प्रकाश सूरज प्रकाश प्राईवेट लिमिटेड |
| 81. | 1627 | मैसर्स ट्रेडैक्स प्राईवेट लिमिटेड | 113. | 1870 | मैसर्स फिरोजपुर फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 82. | 2083 | मैसर्स भठिण्डा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड | 114. | 2166 | मैसर्स भठिंडा महावीर कम्पनी लिमिटेड |
| 83. | 1645 | मैसर्स न्यू चिनिओत ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड | 115. | 2171 | मैसर्स विश्व सीविंग मशीन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 84. | 1653 | मैसर्स पंजाब स्टील स्टॉक-होल्डर्स सिंडिकेट लिमिटेड | 116. | 0239 | मैसर्स विश्व सीविंग मशीन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 85. | 0023 | मैसर्स बारी दोआब बैंक लिमिटेड | 117. | 2177 | मैसर्स गर्ग ट्रांसपोर्ट सोसाइटी प्राईवेट लिमिटेड |
| 86. | 2105 | मैसर्स मानसा रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड | 118. | 1904 | मैसर्स जोरडोर्ज लिमिटेड |
| 87. | 2108 | मैसर्स अलोवाल बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 119. | 1906 | मैसर्स बीर चक्रा साईकल कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 88. | 1702 | मैसर्स एसजिन इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड | 120. | 1908 | मैसर्स कर्मजीत इलैक्ट्रिकल्स मैनुफैक्चर कं. प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|---|------|------|---|
| 121. | 1909 | मैसर्स लाल टैक्सटाईल फिनिशिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 149. | 2309 | मैसर्स कौरियर फाईनेन्स एण्ड सिनेमा सोसायटी लिमिटेड |
| 122. | 1913 | मैसर्स एयर बाईक इण्डस्ट्रियल एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 150. | 2368 | मैसर्स सहगल कोलोनाईजर एण्ड फाईनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 123. | 1918 | मैसर्स फाईनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड | 151. | 2372 | मैसर्स बराड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 124. | 1921 | मैसर्स न्यू फगवाड़ा ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 152. | 2373 | मैसर्स परल मोटर एण्ड जनरल फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 125. | 1922 | मैसर्स समराला ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 153. | 2378 | मैसर्स नार्दन इण्डिया चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 126. | 2183 | मैसर्स मानव सहयोग प्राईवेट लिमिटेड | 154. | 2382 | मैसर्स आर्दश चिट फंड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 127. | 2207 | मैसर्स रंधावा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 155. | 2386 | मैसर्स बराड़ फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 128. | 2210 | मैसर्स मुसाफिर ट्रांसपोर्टकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 156. | 2388 | मैसर्स मालवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 129. | 2212 | मैसर्स जालन्धर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड लैंड स्टाक होल्डरज एसोशिएशन प्राईवेट लिमिटेड | 157. | 2395 | मैसर्स महालक्ष्मी साईन क्रेडिट्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 130. | 2221 | मैसर्स न्यु खालसा रोडवेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 158. | 2403 | मैसर्स कैलाश फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 131. | 2230 | मैसर्स वाल सिल्क वीविंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 159. | 2415 | मैसर्स बिन्को इलैक्ट्रीकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 132. | 2246 | मैसर्स होशियारपुर नैशनल हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड | 160. | 2416 | मैसर्स दा अनमोल मोटर फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 133. | 2250 | मैसर्स देश फाईनॉन्स प्राईवेट लिमिटेड | 161. | 2418 | मैसर्स सुनील फाईनान्सर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 134. | 2268 | मैसर्स शिवालिक फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 162. | 2425 | मैसर्स ग्रेवाल ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 135. | 2271 | मैसर्स भठिन्डा चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड | 163. | 2428 | मैसर्स पापुलर फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 136. | 2281 | मैसर्स अपर इण्डिया ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड | 164. | 2441 | मैसर्स भरसरी मोटर फाईनेन्स कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 137. | 2301 | मैसर्स पटियाला हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड | 165. | 2442 | मैसर्स अहमदगढ़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 138. | 2312 | मैसर्स किरन फाईनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 166. | 2450 | मैसर्स सहगल सैनेटरी फिटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 139. | 2316 | मैसर्स नार्दन फाईनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 167. | 2455 | मैसर्स जसवीर फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 140. | 2320 | मैसर्स पंजाब टाऊन प्लानर्ज एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड | 168. | 2457 | मैसर्स सतलुज गुड्स कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 141. | 2187 | मैसर्स कसौली इलैक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड | 169. | 2466 | मैसर्स सेवक चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 142. | 2339 | मैसर्स सतनाम फाईनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 170. | 2209 | मैसर्स गुरूनानक स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 143. | 2345 | मैसर्स अमृतसर पठानकोट बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | 171. | 2495 | मैसर्स ग्लोरी फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 144. | 2347 | मैसर्स जालन्धर ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 172. | 2498 | मैसर्स शर्मा चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 145. | 2351 | मैसर्स लुधियाना यार्न सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड | 173. | 1860 | मैसर्स साऊथ पंजाब इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड |
| 146. | 2360 | मैसर्स सन्धु ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 174. | 2503 | मैसर्स न्यु सूरज फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 147. | 2363 | मैसर्स एक्सप्रेस हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड | | | |
| 148. | 2366 | मैसर्स जोशी कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड | | | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|---|------|------|---|
| 175. | 2508 | मैसर्स वालिया चिट फंडप्राइवेट लिमिटेड | 199. | 2597 | मैसर्स अर्नवैल फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 176. | 2514 | मैसर्स महाबीर अश्वनी लक्की चिट फंडकम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 200. | 2599 | मैसर्स शिमला फाईनेन्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 177. | 2521 | मैसर्स डायमंड फेयरडील प्राइवेट लिमिटेड | 201. | 2335 | मैसर्स ओंकार हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 178. | 2522 | मैसर्स जर्नाधन फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड | 202. | 2603 | मैसर्स सूरज बचत योजना प्राइवेट लिमिटेड |
| 179. | 2526 | मैसर्स संडे शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 203. | 2604 | मैसर्स जतेन्द्रा कैमिकल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 180. | 2525 | मैसर्स खोसला फैन्य इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड | 204. | 2607 | मैसर्स शालीमार फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 181. | 2530 | मैसर्स हरी इन्डस्ट्रीयल एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड | 205. | 2609 | मैसर्स डीपीएस फाईनेन्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 182. | 1375 | मैसर्स जेएमए एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 206. | 2611 | मैसर्स भगत सिंह जनरल फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 183. | 2539 | मैसर्स व्हाइटवे फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड | 207. | 2614 | मैसर्स सरदार फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 184. | 2547 | मैसर्स दशमेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 208. | 2617 | मैसर्स हरीजन बस सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड |
| 185. | 2555 | मैसर्स दशमेश फाईनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 209. | 2624 | मैसर्स ग्लोब हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 186. | 2558 | मैसर्स रबीनसन्ज फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड | 210. | 2626 | मैसर्स चण्डीगढ़ म्युचुअल बेनीफिट इन्सटॉलमैट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 187. | 2564 | मैसर्स धरबा चिट फंड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड | 211. | 2627 | मैसर्स दोआबा हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 188. | 2565 | मैसर्स प्रेम ट्रेडिंग एण्ड इन्डस्ट्रियल इन्टर प्राइवेट लिमिटेड | 212. | 2633 | मैसर्स प्रीतम चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 189. | 2566 | मैसर्स गगनदीप फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड | 213. | 2634 | मैसर्स रैडनाजे प्राइवेट लिमिटेड |
| 190. | 2570 | मैसर्स धवन फाईनेन्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 214. | 2635 | मैसर्स रतन चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 191. | 2571 | मैसर्स सोढी चिट फंड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 215. | 2646 | मैसर्स घई रोडवेज एण्ड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 192. | 2572 | मैसर्स चौहान फाईनान्सर्स चिट फंड एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 216. | 2660 | मैसर्स सेठ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 193. | 2575 | मैसर्स पिल्लर मैटल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 217. | 2659 | मैसर्स परल बचत स्कीम्स एण्ड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 194. | 2578 | मैसर्स डीसेन्ट फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड | 218. | 2664 | मैसर्स गाईड फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड |
| 195. | 2580 | मैसर्स खोसला फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड | 219. | 2665 | मैसर्स बी एम फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 196. | 2585 | मैसर्स आर एल बलदेव राज फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 220. | 2670 | मैसर्स बैस चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 197. | 2588 | मैसर्स रमेश इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 221. | 2672 | मैसर्स गर्ग चिट फंड एण्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 198. | 2596 | मैसर्स फ्लाईंग चिट फंडएण्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड | 222. | 2674 | मैसर्स कश्मीर चिट फंड एण्ड हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड |
| | | | 223. | 2678 | मैसर्स नानु चिट फंड फाईनान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|--|------|------|---|
| 224. | 2685 | मैसर्स हंस राज नैयर सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड | 249. | 0261 | मैसर्स देश लक्की फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 225. | 2687 | मैसर्स पाठनकोट फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 250. | 2760 | मैसर्स टिनी फाईनेन्स एण्ड फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 226. | 2688 | मैसर्स क्रांति लैंड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 251. | 2762 | मैसर्स बत्रा चिट फंड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 227. | 2690 | मैसर्स पंजाब कॉटन प्रोवर्स एण्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन लिमिटेड | 252. | 2763 | मैसर्स ग्लोब हाईवेज फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 228. | 2692 | मैसर्स होशियारपुर चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 253. | 2764 | मैसर्स क्लासिक डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड |
| 229. | 2698 | मैसर्स फाईनेन्स एण्ड फंड्स प्राईवेट लिमिटेड | 254. | 2765 | मैसर्स प्लास्टिक वीयर्ज प्राईवेट लिमिटेड |
| 230. | 2709 | मैसर्स पुसिकरना चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 255. | 2766 | मैसर्स आनयोर हाऊस प्राईवेट लिमिटेड |
| 231. | 2711 | मैसर्स बाल गोपाल चिट फंड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 256. | 2767 | मैसर्स एमडी ट्रेडर्स एण्ड चिट फंड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 232. | 2714 | मैसर्स केमिकल्स एण्ड पैस्टीसाईड्स प्राईवेट लिमिटेड | 257. | 2771 | मैसर्स नगरकोट आर्यान ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 233. | 2715 | मैसर्स चानना फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 258. | 2773 | मैसर्स शाह फाईनेन्स एण्ड लक्की स्कीम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 234. | 2716 | मैसर्स लोक लैंड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 259. | 2774 | मैसर्स आर. एम. लक्की स्कीम एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 235. | 2728 | मैसर्स पलैमीनेट्स चण्डीगढ़ प्राईवेट लिमिटेड | 260. | 2775 | मैसर्स फतेहगढ़ साहिब मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 236. | 2732 | मैसर्स लुधियाना ग्रैशर्ज सेल्ज प्राईवेट लिमिटेड | 261. | 2777 | मैसर्स बीको फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 237. | 2733 | मैसर्स फगवाड़ा फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 262. | 2778 | मैसर्स कामयाब चिट फंड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 238. | 2734 | मैसर्स निरंकारी फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 263. | 2779 | मैसर्स इम्पलाईज फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 239. | 2736 | मैसर्स अरूण रशमी फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 264. | 2780 | मैसर्स कलगीधर लक्की चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 240. | 2738 | मैसर्स नंगल फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 265. | 2782 | मैसर्स युमनात फाईनेन्स एण्ड लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 241. | 2739 | मैसर्स मोहन माया चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 266. | 2784 | मैसर्स दीप लक्की स्कीम एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 242. | 2742 | मैसर्स पी. के. चिट फंड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 267. | 2786 | मैसर्स आनंद लक्की चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 243. | 2747 | मैसर्स टिक चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 268. | 2792 | मैसर्स उपकार फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड लुधियाना प्राईवेट लिमिटेड |
| 244. | 2751 | मैसर्स एक जोत चिट फंड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 269. | 2789 | मैसर्स जिमिंदारा फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 245. | 2752 | मैसर्स पटियाला बस सरहिंद प्राईवेट लिमिटेड | 270. | 2796 | मैसर्स हरभजन लक्की चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 246. | 2700 | मैसर्स हाईवे फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | | | |
| 247. | 2756 | मैसर्स जन विकास जनरल फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | | | |
| 248. | 2757 | मैसर्स फौन्सी चिट फंड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | | | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|--|------|------|---|
| 271. | 2797 | मैसर्स नावलटी फाईनेन्स एण्ड लक्की चिट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 293. | 2838 | मैसर्स ट्रिपलैक्स लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 272. | 2799 | मैसर्स बीमसन चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 294. | 2841 | मैसर्स हिमाचल ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 273. | 2803 | मैसर्स अरयान चिट फंड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 295. | 2843 | मैसर्स राईटवेज चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 274. | 2806 | मैसर्स थापर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड | 296. | 2844 | मैसर्स न्यू सुरज ऑटो रिपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 275. | 2813 | मैसर्स फाईनेन्स ऐडज एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 297. | 2849 | मैसर्स एक्टिव फाईनेन्स एण्ड लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 276. | 2814 | मैसर्स हिमालय गुड्स कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड | 298. | 2852 | मैसर्स फ्री फलो फाईनान्सिंग चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 277. | 2816 | मैसर्स जौली इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड | 299. | 2853 | मैसर्स देशलाज फाईनेन्स हायर परचेज एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 278. | 2817 | मैसर्स रूपजीत लक्की स्कीम एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 300. | 2856 | मैसर्स ऐवन चिट फंड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 279. | 2818 | मैसर्स हिमाचल सिक्वोरटी एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड | 301. | 2861 | मैसर्स बी. के. चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 280. | 2819 | मैसर्स सुतलेज कॉमर्शियल कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड | 302. | 2863 | मैसर्स मानसरोवर फाईनेन्स एण्ड लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 281. | 2820 | मैसर्स जैटल फाईनेन्स एण्ड चिट फंडकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 303. | 2865 | मैसर्स हमदर्द लक्की स्कीम्स एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 282. | 2821 | मैसर्स शास्त्री लक्की डरोम्ज एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 304. | 2867 | मैसर्स साईन पायल फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 283. | 2822 | मैसर्स मेहरा खन्ना लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड | 305. | 2868 | मैसर्स सम्राट फाईनेन्स एण्ड लक्की चिट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 284. | 2823 | मैसर्स मार्टन लक्की ड्रॉज एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड | 306. | 2869 | मैसर्स पाल डिंसोज़ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 285. | 2826 | मैसर्स चेतना फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 307. | 2870 | मैसर्स जगमोहन चिट फंड एण्ड लक्की स्कीम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 286. | 2827 | मैसर्स तेलु राम जैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड | 308. | 2871 | मैसर्स सिंह लक्की स्कीम एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 287. | 2829 | मैसर्स चण्डीगढ़ टूरिस्ट सिंडिकेट्स प्राईवेट लिमिटेड | 309. | 2872 | मैसर्स मंजीत चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 288. | 2830 | मैसर्स हिमाचल साज प्राईवेट लिमिटेड | 310. | 2874 | मैसर्स मोहिन्द्रा फाईनान्सर्स एण्ड लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 289. | 2833 | मैसर्स मास्टर चिट फंड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 311. | 2875 | मैसर्स टी. एम. के. फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 290. | 2834 | मैसर्स सिनसियर फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 312. | 2876 | मैसर्स बलकार इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 291. | 2836 | मैसर्स परफैक्ट चिट फंड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 313. | 2877 | मैसर्स दा लौंग लाईफ मनी सरकुलेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 292. | 2837 | मैसर्स रूबिना चिट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 314. | 2878 | मैसर्स शक्तिमान चिट फंड एण्ड लक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| | | | 315. | 2879 | मैसर्स मुक्कदूर लक्की एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|------|------|--|
| 316. | 2883 | मैसर्स नव भारत फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 317. | 2888 | मैसर्स राजीव ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 318. | 2889 | मैसर्स स्वान फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 319. | 2892 | मैसर्स मंजकी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 320. | 2894 | मैसर्स यमुना प्रैस प्राईवेट लिमिटेड |
| 321. | 2897 | मैसर्स दीपावली लक्की स्कीम एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 322. | 2902 | मैसर्स अमर हितकारी फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड |
| 323. | 2903 | मैसर्स गोयल फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 324. | 2906 | मैसर्स ओवरसीज़ फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 325. | 2908 | मैसर्स शाम चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 326. | 2911 | मैसर्स स्टील फ़ैब्रीकेटर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 327. | 2916 | मैसर्स निरभई लैंड एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 328. | 2919 | मैसर्स अनिल ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 329. | 2920 | मैसर्स जगतजीत फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 330. | 2929 | मैसर्स तिजिन्द्र फाईनेन्स एण्ड चिट फंडलक्की स्कीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 331. | 2933 | मैसर्स शोरे पंजाब ट्रेडर्स एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 332. | 2936 | मैसर्स वधेरा मोशन पिक्चर लिमिटेड |
| 333. | 2937 | मैसर्स निशांत लक्की स्कीम फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 334. | 2938 | मैसर्स आज़ाद हिंद फाईनेन्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 335. | 2939 | मैसर्स प्यारा बैंक लिमिटेड |
| 336. | 2940 | मैसर्स क्रिशना सोप मैनयुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 337. | 2944 | मैसर्स कवीर लक्की स्कीम्स एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 338. | 2946 | मैसर्स ओरियंटल कंस्ट्रक्शन देहली प्राईवेट लिमिटेड |
| 339. | 2947 | मैसर्स रया फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|------|------|---|
| 340. | 2949 | मैसर्स अजीत फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 341. | 2951 | मैसर्स आदर्श फाईनान्सर्स एण्ड ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 342. | 2961 | मैसर्स खुराना फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 343. | 2962 | मैसर्स समुन्द्री रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 344. | 2973 | मैसर्स ग़ोवर बिल्ला फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंडकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 345. | 3028 | मैसर्स चोहान हयमकी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 346. | 2986 | मैसर्स जिंदल फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंडकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 347. | 2985 | मैसर्स युनाइटेड मोटर फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 348. | 2988 | मैसर्स बेन बडर्ज शर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 349. | 2989 | मैसर्स मारवल फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 350. | 2990 | मैसर्स कल्पना लोक फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 351. | 2993 | मैसर्स एम एच फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 352. | 2992 | मैसर्स क्विक कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 353. | 2994 | मैसर्स हिमाचल चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 354. | 3001 | मैसर्स सिम्पलैक्स फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 355. | 3002 | मैसर्स ग्रेट सोसायटी फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 356. | 3008 | मैसर्स कांगड़ा वैली फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंडकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 357. | 3019 | मैसर्स फिरदोस फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंडकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 358. | 3021 | मैसर्स फोरैक्स चिट फंडएण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 359. | 3023 | मैसर्स अमृतसर ओरियंटल फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 360. | 3025 | मैसर्स जर्मीदारा इक्युपमैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 361. | 3026 | मैसर्स पालमपुर फाईनेन्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|---|------|------|--|
| 362. | 3030 | मैसर्स नव तरंग फाईनेन्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 386. | 3091 | मैसर्स बी. डी. चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 363. | 3031 | मैसर्स ट्रस्टवरदी फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 387. | 3105 | मैसर्स चम्बा मैटल इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 364. | 3039 | मैसर्स बटाला चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 388. | 3097 | मैसर्स दोआबा एक्ससर्विसमैन एग्री इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 365. | 3043 | मैसर्स किसान फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंडकम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 389. | 3095 | मैसर्स सुभाष फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 366. | 3045 | मैसर्स बेदी वूल्लन एण्ड सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | 390. | 3099 | मैसर्स बी. सी. एस. करतार चिट फंड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 367. | 3049 | मैसर्स एम. जे. एस. फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 391. | 3100 | मैसर्स ईचल मेहरा प्राईवेट लिमिटेड |
| 368. | 3050 | मैसर्स सत करतार हायर परचेज़ एण्ड लैण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 392. | 3102 | मैसर्स श्री विजय आनन्द फाईनान्सर्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 369. | 3010 | मैसर्स भगवानपुरा शुगर मिल लिमिटेड | 393. | 3103 | मैसर्स रंधीर फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 370. | 3052 | मैसर्स पोपली चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 394. | 3104 | मैसर्स पंच नाद ट्रेवल्स इंडिया लिमिटेड |
| 371. | 3055 | मैसर्स माडल लाईन कलोनार्इज़र प्राईवेट लिमिटेड | 395. | 3098 | मैसर्स कुलबिन्द्र फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 372. | 3056 | मैसर्स आर. सी. शन्स फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 396. | 3107 | मैसर्स गम्भीर चिट फंड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 373. | 3057 | मैसर्स जी. बी. फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 397. | 3109 | मैसर्स पिकाड़ली फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 374. | 3059 | मैसर्स प्रभात फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 398. | 3116 | मैसर्स हमारा फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 375. | 3058 | मैसर्स पंजहिम फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 399. | 3118 | मैसर्स मिनार चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 376. | 3061 | मैसर्स इंटर् एक्सपोर्टस् इंडिया प्राईवेट लिमिटेड | 400. | 3119 | मैसर्स बलबीर फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 377. | 3065 | मैसर्स विवेक चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 401. | 3120 | मैसर्स अनमोल फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 378. | 3071 | मैसर्स अमृतसर धनकुवेर फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 402. | 3123 | मैसर्स लुंगीवाला फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 379. | 3072 | मैसर्स युनाईटेड ब्रदर्स फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 403. | 3126 | मैसर्स नगीना फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 380. | 3073 | मैसर्स भट्टी फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 404. | 3127 | मैसर्स चान्दी प्रोडक्शन्ज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 381. | 3079 | मैसर्स सुनाम चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 405. | 3128 | मैसर्स कोचर फाईनेंशियल एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 382. | 3080 | मैसर्स के. सी. इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड | 406. | 3129 | मैसर्स जौनसन्ज होटल एण्ड लैण्ड डिव्लपमेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 383. | 3082 | मैसर्स नाडु शाह कपूर एजेंसीज़ प्राईवेट लिमिटेड | 407. | 3132 | मैसर्स चावला चिट फंड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 384. | 3089 | मैसर्स एम. सी. चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | | | |
| 385. | 3090 | मैसर्स हेम कुंड बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड | | | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|---|------|------|--|
| 408. | 3134 | मैसर्स गुनोपुर फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 431. | 3182 | मैसर्स नवदीप ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 409. | 3435 | मैसर्स पकीजा चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 432. | 3184 | मैसर्स अमर पोलीफैबस प्राईवेट लिमिटेड |
| 410. | 3136 | मैसर्स बासल टूड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 433. | 3185 | मैसर्स गाईड निटवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 411. | 3138 | मैसर्स रेनू चिट फंड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड | 434. | 3188 | मैसर्स हिमाचल ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 412. | 3141 | मैसर्स श्री गणेश पार्वती चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 435. | 3186 | मैसर्स दुख भंजन फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 413. | 3142 | मैसर्स पंजाब बोन एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड | 436. | 3187 | मैसर्स शिराज़ फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 414. | 3144 | मैसर्स सोनिका चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 437. | 3190 | मैसर्स जौली कन्सल्टन्ट्स पंजाब प्राईवेट लिमिटेड |
| 415. | 3145 | मैसर्स बी. कौसमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 438. | 3192 | मैसर्स फेयरफील्ड एजेन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 416. | 3147 | मैसर्स ऐरो चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 439. | 3194 | मैसर्स आर.सी. चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 417. | 3150 | मैसर्स स्टील टैन चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 440. | 3195 | मैसर्स कुराली चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 418. | 3152 | मैसर्स नवल संगम फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 441. | 3199 | मैसर्स डिलाईट टूर ओपरेटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 419. | 3155 | मैसर्स विजलेश्वर महिन्द्रा फाईनान्सर्स एण्ड फंड प्राईवेट लिमिटेड | 442. | 3196 | मैसर्स शार्प फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 420. | 3158 | मैसर्स वीय फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड | 443. | 3200 | मैसर्स रोहित फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 421. | 3157 | मैसर्स बेनजीर फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 444. | 3205 | मैसर्स न्यू मैन फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 422. | 3164 | मैसर्स शिवमोनी फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 445. | 3206 | मैसर्स इमदादी चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 423. | 3165 | मैसर्स सुमन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड | 446. | 3207 | मैसर्स भाग फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 424. | 3167 | मैसर्स कंवर म्युचअल बेनीफिट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 447. | 3208 | मैसर्स साधु फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 425. | 3168 | मैसर्स शहीद ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 448. | 3209 | मैसर्स आदर्श स्टील्ज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 426. | 3166 | मैसर्स चम्पक फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 449. | 3214 | मैसर्स परहार चिट फंड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 427. | 3169 | मैसर्स फारमैक्स चिट फंड फाईनान्सर्स एण्ड कलोनार्इज़र्स प्राईवेट लिमिटेड | 450. | 3216 | मैसर्स हमदर्द चिट फण्ड एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 428. | 3174 | मैसर्स होशियारपुर सिलिकेट एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड | 451. | 3221 | मैसर्स टिका मंजीत सेविंग चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 429. | 3178 | मैसर्स हीरो चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 452. | 3219 | मैसर्स मेहरा फैरो अलाईज प्राईवेट लिमिटेड |
| 430. | 3181 | मैसर्स अहमदगढ़ फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 453. | 3227 | मैसर्स मानव चिट फंड एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| | | | 454. | 3228 | मैसर्स राजीव आक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड |
| | | | 455. | 3231 | मैसर्स आलेश्वर ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------|------|---|------|------|--|
| 456. | 3237 | मैसर्स विटामिन चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 481. | 3314 | मैसर्स न्यू ब्ल्यू स्टार फाईनान्स एण्ड बेनीफिट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 457. | 3240 | मैसर्स सावेरा फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 482. | 3316 | मैसर्स एच.आर. इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 458. | 3243 | मैसर्स फोर फील्डज़ प्राईवेट लिमिटेड | 483. | 3317 | मैसर्स समार्ट एडवाइजर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 459. | 3245 | मैसर्स जे.डी. फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 484. | 3318 | मैसर्स एटलस फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 460. | 3224 | मैसर्स भाखड़ा आक्सीजन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 485. | 3321 | मैसर्स महालक्ष्मी कैलिको प्रिंटिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 461. | 3248 | मैसर्स सिद्ध मोटर फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड | 486. | 3326 | मैसर्स गुरु गोविन्द सिंह फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 462. | 3250 | मैसर्स दा रैलसन चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स लिमिटेड | 487. | 3329 | मैसर्स दोआबा स्पन पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 463. | 3255 | मैसर्स रिनोली फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड | 488. | 3331 | मैसर्स क्रीसैंट रैमडीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 464. | 3256 | मैसर्स एटलस मार्केटिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 489. | 3338 | मैसर्स एडवान्स इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 465. | 3257 | मैसर्स हायरको इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड | 490. | 3341 | मैसर्स अनुराग फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 466. | 3258 | मैसर्स फोस्टर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड | 491. | 3342 | मैसर्स ठाकुर चिट फंड एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 467. | 3259 | मैसर्स होटल हिमाचल प्राईवेट लिमिटेड | 492. | 3343 | मैसर्स विनस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 468. | 3263 | मैसर्स जय जवान फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 493. | 3346 | मैसर्स गुरुनानक मरकन्डायल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 469. | 3267 | मैसर्स दरबार फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 494. | 3350 | मैसर्स प्रिंस इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 470. | 3277 | मैसर्स हरबंस फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 495. | 3361 | मैसर्स कैरीहोम आईसक्रीम प्राईवेट लिमिटेड |
| 471. | 3281 | मैसर्स रविन्द्रा फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 496. | 3366 | मैसर्स पंजाब एक्जूमलेटर्ज प्राईवेट लिमिटेड |
| 472. | 3282 | मैसर्स अलटोन टेलिविज़न प्राईवेट लिमिटेड | 497. | 3370 | मैसर्स मित्तल फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 473. | 3284 | मैसर्स भामरा चिट फंड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड | 498. | 3377 | मैसर्स नील कमल फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 474. | 3290 | मैसर्स पुरेवाल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड | 499. | 3383 | मैसर्स मैजिक म्यूजिक बेनीफिट एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 475. | 3291 | मैसर्स माहित इंडिया प्राईवेट लिमिटेड | 500. | 3390 | मैसर्स तारा फाईनान्स एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 476. | 3295 | मैसर्स हिमाचल कोच बिल्डर्स एण्ड आटो वर्कशाप प्राईवेट लिमिटेड | 501. | 3411 | मैसर्स प्रिज्म प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 477. | 3302 | मैसर्स जी.के. फाईनान्स एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड | 502. | 3427 | मैसर्स देहाती चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 478. | 3305 | मैसर्स कैस्टरेट प्राईवेट लिमिटेड | 503. | 3442 | मैसर्स ओसवाल टैक्सटाईल्स एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड |
| 479. | 3309 | मैसर्स वैलनोन चिट फंड एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड | 504. | 3443 | मैसर्स कल्पत्रु फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 480. | 3310 | मैसर्स अजन्ता सेविंग यूनिट प्राईवेट लिमिटेड | 505. | 3454 | मैसर्स फेमस पब्लीकेशन्ज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| | | | 506. | 3455 | मैसर्स करनाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|------|------|--|
| 507. | 3468 | मैसर्स मन्सा राम बोद्धराज प्राईवेट लिमिटेड |
| 508. | 3481 | मैसर्स भवन फाईनान्सर्स एण्ड चिट फंड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 509. | 3491 | मैसर्स किसान मशीन स्टोरज प्राईवेट लिमिटेड |
| 510. | 3492 | मैसर्स अजन्ता टेलीविजन प्राईवेट लिमिटेड |
| 511. | 3494 | मैसर्स डायमंड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 512. | 3499 | मैसर्स वेदसन्ज प्राईवेट लिमिटेड |
| 513. | 3504 | मैसर्स न्यू ब्यास ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 514. | 3509 | मैसर्स दिनेश कार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 515. | 3507 | मैसर्स कोर्डलैक्स प्राईवेट लिमिटेड |

राज सिंह
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180012, दिनांक 20 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./जे.एम.यू./560(5)/ई.ई.एस./2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र. | कम्पनी | कम्पनी का नाम |
|------|--------|--|
| सं. | सं. | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 001792 | मैसर्स मन्सबल एण्डोमेंट प्लाटेशन्स इंडिया लिमिटेड |
| 2. | 000383 | मैसर्स कश्मीर फ्लोर कवरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 002456 | मैसर्स एस.एन. एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 002224 | मैसर्स एम.के.जी. टेक्नो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 000900 | मैसर्स एच.एस. ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 001839 | मैसर्स चिनाब इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 001544 | मैसर्स भगवती सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 002736 | मैसर्स लाईफ लॉन्ग आर्ट टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 002745 | मैसर्स हॉराईज़न फाईनेंशियल इन्वेस्टमेंट एण्ड एडवाइज़र प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|---|
| 10. | 002342 | मैसर्स प्रोमीजिंग दुनिया इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 002818 | मैसर्स रिशमुख एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 001384 | मैसर्स एच.डी. सर्वेयर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 002481 | मैसर्स कॉमेट सेल्स एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 002548 | मैसर्स ए.पी.एस. प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 002152 | मैसर्स आकर्षण टूरिज्म एण्ड अम्यूजमेंट डिवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 002440 | मैसर्स अरुण गुप्ता रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |

एम. के. बागड़ी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू व काश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180012, दिनांक 22 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./जे.एम.यू./560(5)/ई.ई.एस./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र. | कम्पनी | कम्पनी का नाम |
|------|--------|--|
| सं. | सं. | |
| 1. | 000727 | मैसर्स जे. एण्ड के. कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड |
| 2. | 000879 | मैसर्स बहुफोर्ट फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 000845 | मैसर्स अमन हायर परचेज एण्ड जनरल फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 000339 | मैसर्स मनहास फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 001200 | मैसर्स विकास फाईनेंसर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड |

एम. के. बागड़ी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू व काश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180012, दिनांक 22 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./जे.एम.यू./560(5)/ई.ई.एस./2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|---|
| 1. | 002504 | मैसर्स मुकादस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 000892 | मैसर्स ईलैबॉरेट लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 001741 | मैसर्स वूलर एग्रो प्लांटेशन लिमिटेड |
| 4. | 002181 | मैसर्स न्यू वेव एन्टरटेनमेंट कम्पलैक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 002487 | मैसर्स भार्गव स्माल आर्म्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 002344 | मैसर्स श्रीनाथ एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 001422 | मैसर्स जे.एच. ब्रीडर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 001423 | मैसर्स जे.एच. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 001441 | मैसर्स त्रिकुटा फॉरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 10. | 001076 | मैसर्स जम्मू वुड प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड |

एम. के. बागड़ी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू व काश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 13 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ई.ई.एस./2011/812--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1. | 009804 | मैसर्स क्लासिक भवन प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 005952 | मैसर्स नालंदा इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 007998 | मैसर्स विक्रमसिला एगोटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 006963 | मैसर्स कैमको स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड |

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 13 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/ई.ई.एस./2011/1425--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 30 दिन के उपरान्त यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1. | 003077 | मैसर्स प्रसाद मोटर फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 012764 | मैसर्स होप केयर हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड |

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना, दिनांक 16 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ई.ई.एस./2010/1426--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 21 जून 2011

सं. कं.रं./प.बं./ईईएस-560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 092275 | मैसर्स नौहरिया एण्ड गर्ग स्टील वायर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 033303 | मैसर्स कियात मार्केटिंग लिमिटेड |
| 3. | 076393 | मैसर्स गिनोडिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 057812 | मैसर्स निशांत फिन एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 058382 | मैसर्स ब्लूम मरकनडाइस प्राईवेट लिमिटेड |

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
प. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 17 जून 2011

सं. कं/शिलांग/560(3)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 07602 | मैसर्स एलाइफ फार्मा प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 07432 | मैसर्स एलेक्ट्रो इमफेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 04650 | मैसर्स ऑल वर्थ फायनेन्स एन्ड इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 03468 | मैसर्स अमबारीरीस एग्रो केमिकलस प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 07190 | मैसर्स आप्रोलीसा कंसल्टिंग एन्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 08243 | मैसर्स अंकरोनू इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 08240 | मैसर्स आपंग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 05735 | मैसर्स अराईज (आसाम) प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 07473 | मैसर्स अरपना डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 02202 | मैसर्स आसाम गलवेनाईजिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 00626 | मैसर्स आसाम माइनिंग एन्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 02491 | मैसर्स आसाम ओसजन लिमिटेड |
| 13. | 06101 | मैसर्स एसोसिएट्स मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 08240 | मैसर्स अटूकूआ प्लान्टेशन एन्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 08231 | मैसर्स एटसोलू एग्रो फूड्स एन्ड लाईवस्टॉक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 08231 | मैसर्स एक्सल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 06983 | मैसर्स विष्णु ज्योति हैल्थ इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 08232 | मैसर्स बोधो करो फायनेन्स लिमिटेड |
| 19. | 04746 | मैसर्स बहापुत्र कॉमर्शियल एन्ड फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड |
| 20. | 07134 | मैसर्स ब्रनीहट वायरस प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 08239 | मैसर्स चीरांग हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 07549 | मैसर्स कोरोना प्रोजेक्ट्स एन्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 23. | 08245 | मैसर्स क्रिएटिव फार्म्स एन्ड रिसोर्सिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 06897 | मैसर्स डी लोटसी प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 05955 | मैसर्स डीज केमिकलस प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 00995 | मैसर्स धेलिया ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 04840 | मैसर्स एलाइट मेट्रो रेजीडेंस प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 07709 | मैसर्स इलिस्युमटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 07208 | मैसर्स गोलडमार्क प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 06155 | मैसर्स ग्रासलेन्ड प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 01116 | मैसर्स एच. आर. एन्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 32. | 02995 | मैसर्स हेकटम्ब लेबोरेट्री प्राईवेट लिमिटेड |
| 33. | 07780 | मैसर्स हिल व्यू ओरचाड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 34. | 08245 | मैसर्स हीमालयन पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 35. | 08232 | मैसर्स हेन्यूट्रेप फूड प्रोडक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 36. | 05824 | मैसर्स आई. टी. सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड |
| 37. | 05655 | मैसर्स इतरीक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 38. | 06959 | मैसर्स जुपीटर कन्स्यूकॉम प्राईवेट लिमिटेड |
| 39. | 06919 | मैसर्स काराकल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड |
| 40. | 00561 | मैसर्स करीमगन्ज इलैक्ट्रिक सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड |
| 41. | 07548 | मैसर्स करमावीर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 42. | 08239 | मैसर्स केकेकेके टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 43. | 02644 | मैसर्स लोकर्स केबल्स एन्ड कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 44. | 08232 | मैसर्स मारपपि ऑयल्स एन्ड एलायड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 45. | 07397 | मैसर्स एमडीएम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 46. | 03780 | मैसर्स मेगाटेक हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 47. | 01324 | मैसर्स मेधालय पोटरस प्राईवेट लिमिटेड |
| 48. | 06885 | मैसर्स मेधालय रिफ्रैक्ट्रीज एन्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 49. | 08233 | मैसर्स मेपीग कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 50. | 03914 | मैसर्स निक आसाम प्राईवेट लिमिटेड |
| 51. | 06316 | मैसर्स नीडोमेन मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 52. | 03824 | मैसर्स न्यू ब्राइट फाईनेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 53. | 06138 | मैसर्स नीजोन कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 54. | 01513 | मैसर्स नॉर्थ इस्टर्न तंबाकू कम्पनी लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 55. | 08231 | मैसर्स एनटीवाई कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 56. | 04823 | मैसर्स नूमेन इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 57. | 05927 | मैसर्स ओरियन सुपरमार्केट प्राईवेट लिमिटेड |
| 58. | 07142 | मैसर्स पान (आसाम) इंटरप्रेन्यूर प्राईवेट लिमिटेड |
| 59. | 03253 | मैसर्स फार्मास्युटिकल्स होलसेल एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 60. | 06659 | मैसर्स आर. एन. फ्रैग्नेन्सिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 61. | 06511 | मैसर्स रंगनी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड |
| 62. | 07052 | मैसर्स राईबरब्लु मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 63. | 08235 | मैसर्स रोशन एण्ड रोहीत कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड |
| 64. | 05841 | मैसर्स एस. आर. इनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड |
| 65. | 08233 | मैसर्स संगफ्रोड ट्रेडिंग डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 66. | 08235 | मैसर्स सारस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड |
| 67. | 08238 | मैसर्स शिवा सिक्योरिटीस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 68. | 08243 | मैसर्स सगुन कन्जूमर केयर प्राईवेट लिमिटेड |
| 69. | 04272 | मैसर्स शुभ प्राज्ञा इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 70. | 08238 | मैसर्स सेयाग कंस्ट्रक्शन एण्ड हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड |
| 71. | 00338 | मैसर्स शिल्चर इलैक्ट्रिक सप्लाय लिमिटेड |
| 72. | 06612 | मैसर्स सीमूल डेयरी लिमिटेड |
| 73. | 05855 | मैसर्स टीबीजी प्राईवेट लिमिटेड |
| 74. | 04831 | मैसर्स ट्रेडिशनल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 75. | 03854 | मैसर्स युनाइटेड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 76. | 06960 | मैसर्स उत्तम डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड |
| 77. | 07926 | मैसर्स वानसाका लाईम कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 78. | 07373 | मैसर्स यैल्लो फोरीयर टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 79. | 08233 | मैसर्स जोक्राफ्ट्स बम्बू प्राईवेट लिमिटेड |
| 80. | 07444 | मैसर्स तिरुअल बॉटमान टी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 81. | 02779 | मैसर्स परागज्योतिस फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 82. | 05451 | मैसर्स ए. बी. बोन्डेड वेयरहाऊस प्राईवेट लिमिटेड |
| 83. | 01768 | मैसर्स अदीती सेल्स एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 84. | 01883 | मैसर्स एलमुनियम इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड |

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 21 जून 2011

सं. कं.रं./शि./560(5)/16--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|-------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 07037 | मैसर्स अम्ब्रोसीया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 03994 | मैसर्स अनीरूथ स्टील आसाम प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 05969 | मैसर्स आसाम एप्पल वैली टी लिमिटेड |
| 4. | 07611 | मैसर्स बी. एन्ड जेड. डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 05073 | मैसर्स बरमन फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 09408 | मैसर्स बीशाख मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 05229 | मैसर्स ब्राम्हापुत्र कामर्शियल एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 04945 | मैसर्स ब्राम्हापुत्र रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 05846 | मैसर्स कोल फील्ड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 05845 | मैसर्स जयन्तीया हिल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 07474 | मैसर्स काम्क्षीया एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 05533 | मैसर्स कमेंग टूर्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 05939 | मैसर्स काई ओर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 04188 | मैसर्स कोहीनूर टाईल्स एण्ड ब्रिक्स आसाम प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 09180 | मैसर्स कोनार्क मल्टी ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 06299 | मैसर्स लेकचन्द टी कानोई कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 08654 | मैसर्स लोकनाथ बोन्डेड वेयरहाऊस प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 05160 | मैसर्स लूलू हॉस्पीटल्स लिमिटेड |
| 19. | 08055 | मैसर्स मालसन बम्बू प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 04802 | मैसर्स मान्यू टी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 03341 | मैसर्स नास इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 05606 | मैसर्स न्यू नार्थ-ईस्ट कोल माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 07325 | मैसर्स नीजा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 04326 | मैसर्स ओक्टेव इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 05898 | मैसर्स पदमनी टी एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 26. | 02841 | मैसर्स प्रसूराम सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 04085 | मैसर्स प्रोमदनी ट्रांसपोर्ट एन्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 03273 | मैसर्स पूर्वअंचल सेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 07601 | मैसर्स आर. के. गुप्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 05087 | मैसर्स रायनो ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 06925 | मैसर्स एस के इन्डिया वायर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 32. | 07522 | मैसर्स सीउजी पलान्टेशनस प्राईवेट लिमिटेड |
| 33. | 07777 | मैसर्स सोना मैना डीटरजीन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 34. | 03958 | मैसर्स सूरतान कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 35. | 04918 | मैसर्स तागा बीसकुट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 36. | 02691 | मैसर्स ट्रानस ड्रगपैक प्राईवेट लिमिटेड |
| 37. | 08116 | मैसर्स टीसागंपो कनसल्टेशनस प्राईवेट लिमिटेड |
| 38. | 06581 | मैसर्स अपासा बीसनेस इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 39. | 07145 | मैसर्स हील सॉफ्ट-टेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 40. | 03614 | मैसर्स अली कूरा मेडिकलस प्राईवेट लिमिटेड |
| 41. | 07150 | मैसर्स जे. सी. हेलतकेयर एन्ड रीसरच इनसटीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड |
| 42. | 00901 | मैसर्स कामरूप ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड |
| 43. | 06193 | मैसर्स पाइन रीडज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 44. | 07277 | मैसर्स पीक्सल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 45. | 03465 | मैसर्स वनडर टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 46. | 08146 | मैसर्स हालेक्स पलान्टेशन एन्ड ट्रेडिंग (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 47. | 07473 | मैसर्स अरपना डीसटीबूटरस प्राईवेट लिमिटेड |

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुडुचेरी-605011, दिनांक 10 जून 2011

सं. 3(156)/560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1. | 1650 | मैसर्स महागणपति ग्रांड डिजिटल इमेजिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 995 | मैसर्स पोनसुम फार्म्स बैनिफिट फंड लिमिटेड |

वी. स्वामीदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुचेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुडुचेरी-605011, दिनांक 17 जून 2011

सं. 3(156)/560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1. | 448 | मैसर्स राज ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 1088 | मैसर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड |

वी. स्वामीदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुचेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 2 जून 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2805 | मैसर्स श्री भगवती चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 2890 | मैसर्स बोम्बे ऑटो स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 2996 | मैसर्स जय हिन्द इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|-----|-------|--|
| 4. | 4252 | मैसर्स ग्रीनलैण्ड कुरीस प्राईवेट लिमिटेड | 33. | 13998 | मैसर्स सिरियस कंप्यूटिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 4321 | मैसर्स आर्टिनो वॉचस प्राईवेट लिमिटेड | 34. | 14247 | मैसर्स मैजेस्टिक इक्विपमेन्ट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 4546 | मैसर्स कालीकट डायगनोस्टिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 35. | 14826 | मैसर्स ए. ई. बी. सोफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 4685 | मैसर्स केरला रिफाईनरीज प्राईवेट लिमिटेड | 36. | 15257 | मैसर्स सत्यम डिटेक्टिव एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 6314 | मैसर्स हार्बर फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 37. | 15795 | मैसर्स एम. एस. टेक एण्ड सोल्युशन्स केरला प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 6629 | मैसर्स टच स्टोन पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड | 38. | 15911 | मैसर्स मिस्तिनल रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 6937 | मैसर्स वेदर फोम प्राईवेट लिमिटेड | 39. | 15932 | मैसर्स बीआरएस इलैक्ट्रो इजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 8169 | मैसर्स तेक्कुमकरा कुरीज एण्ड लोनस प्राईवेट लिमिटेड | 40. | 16981 | मैसर्स ओक्टाव्स सिस्टम्स एण्ड डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 8446 | मैसर्स पारगण हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 41. | 17314 | मैसर्स गोल्डन गेट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 8469 | मैसर्स पिक्कोलो पेट्रोलियम्स प्राईवेट लिमिटेड | 42. | 17511 | मैसर्स रूचि कैटरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 8581 | मैसर्स कोस्मो ऑफसैट प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड | 43. | 17527 | मैसर्स वेसकोड ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 8609 | मैसर्स पषयन्नूर कुरीस एण्ड लोनस प्राईवेट लिमिटेड | 44. | 17538 | मैसर्स केरली चेमटेक एण्ड हैण्डिक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 8724 | मैसर्स मैथ्यू एण्ड मैथ्यू डिजाइन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड | 45. | 17769 | मैसर्स पानामा शूज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 9262 | मैसर्स ग्रेस फाऊंडेशन्स प्राईवेट लिमिटेड | 46. | 17804 | मैसर्स डिजिटूएस एनिमेशन स्टूडियोज प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 9854 | मैसर्स साऊदर्न प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड | 47. | 17857 | मैसर्स निम्बियेन्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 9920 | मैसर्स इलैक्ट्रोकोम सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 48. | 17919 | मैसर्स जनात मलबार इंजीनियरिंग एण्ड इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 10568 | मैसर्स हाई रेंज सिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड | 49. | 18158 | मैसर्स अराफा हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 10825 | मैसर्स वंचीनाड ड्रॉप स्टोपिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 50. | 18288 | मैसर्स के. मैराइन कंस्टलेन्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 10925 | मैसर्स सानको रबर्स प्राईवेट लिमिटेड | 51. | 18400 | मैसर्स मुरिजापुषा रिसोर्ट्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 11004 | मैसर्स डेलसर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड | 52. | 18433 | मैसर्स कुरियन्स प्रोपर्टीज एण्ड रियल इस्टेट्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 11316 | मैसर्स जीवनी मार्केटिंग मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड | 53. | 18972 | मैसर्स कणवोय सीलिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 11809 | मैसर्स प्रेमा रवी फण पार्क प्राईवेट लिमिटेड | 54. | 19033 | मैसर्स औरा ओक्वाटिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 11991 | मैसर्स ताच्चेत इन्टरप्राइसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड | 55. | 19187 | मैसर्स अलीम ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 12066 | मैसर्स केलकम चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड | 56. | 19561 | मैसर्स ट्रोपीकाना रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 12884 | मैसर्स अमिल फार्मास्युटिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड | 57. | 19744 | मैसर्स ट्रांसवाल्ली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 13348 | मैसर्स इनफिनिट लार्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड | 58. | 19756 | मैसर्स गेटवे हैल्थ टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 13400 | मैसर्स के. एम. जे. राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड | | | |
| 31. | 13829 | मैसर्स अलुवा फूड पार्क प्राईवेट लिमिटेड | | | |
| 32. | 13909 | मैसर्स टेवीस मैनेजमेन्ट कंस्टलेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | | | |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 59. | 20148 | मैसर्स कोच्चीन सैंड्स एण्ड माईन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 60. | 20665 | मैसर्स इक्को कौड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 61. | 20768 | मैसर्स जेवीएल फाईनेन्शियल एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 62. | 20895 | मैसर्स आशले नूट्रा केयर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 63. | 21051 | मैसर्स अहलान ट्रेवलर्स एण्ड टूरर्स केरला प्राईवेट लिमिटेड |
| 64. | 21624 | मैसर्स माफाज इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 65. | 21742 | मैसर्स टी. सी. जे. रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 66. | 22139 | मैसर्स यूनिलाईफ सेल्स एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 2 जून 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1878 | मैसर्स वागेरी वाल्ली प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 2532 | मैसर्स सैचुरी माईन्स एण्ड सेरामिक्स लिमिटेड |
| 3. | 2714 | मैसर्स प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 4094 | मैसर्स सौहदा ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 5095 | मैसर्स रिचमैन एस. कुरीस इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 5637 | मैसर्स पेकारू रबर एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड |
| 7. | 6071 | मैसर्स यूनाइटेड टूरर्स एण्ड ट्रेवलर्स कालिकट प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 7732 | मैसर्स ब्रह्मा सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 9. | 9222 | मैसर्स पालापी चिट्टीस एण्ड लौन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 9431 | मैसर्स एक्स. एल. रेमेडीस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 10049 | मैसर्स परायन्केन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 10076 | मैसर्स बिल्लूरेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 10649 | मैसर्स सूर्यगायत्री चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 11408 | मैसर्स चेलपार मोडर्न बिजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 11429 | मैसर्स अलंकार टूरर्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 12386 | मैसर्स इन्ोवेटिव मेगाट्रेंड प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 12474 | मैसर्स टेक्नो वेल्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 12545 | मैसर्स यूनिब्रदर्स इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 12585 | मैसर्स वन-टू-वन क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 12824 | मैसर्स काडी इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 13048 | मैसर्स रान्नी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 14082 | मैसर्स डॉक्टर्स पोस्ट कोम पोर्टल लिमिटेड |
| 23. | 14936 | मैसर्स मनोरामम ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 16739 | मैसर्स अडलक्स ऐज होम प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 16935 | मैसर्स लीधर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 17180 | मैसर्स ट्रांस वील्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 17675 | मैसर्स हाजी सी. एम. मौताफा कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 18291 | मैसर्स लामोक विजनेस एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 18540 | मैसर्स पिरवम स्पेयर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 18748 | मैसर्स कण्णन विनेरीस प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 18584 | मैसर्स ई-गाईडेन्स क्लब टेक्नोलोजीस एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 32. | 19620 | मैसर्स सैप्रिया (इण्डिया) रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 2 जून 2011

सं. 560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | रजि. सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 3835 | मैसर्स बद्रा भारतम चिट्स एण्ड लोन प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 10506 | मैसर्स प्रणसवम इन्टरप्राईसज प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 11025 | मैसर्स पैरोलेटर एण्ड पैरोलेटर प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 11090 | मैसर्स दि इन्टल सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 12361 | मैसर्स अश्यावैध्या संस्कृति फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 13949 | मैसर्स यूनीककोटस पोलीकेम प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 16654 | मैसर्स एरनसनेट नेटवर्क्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 18594 | मैसर्स फोरमेन्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 18940 | मैसर्स कालिकास ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 19636 | मैसर्स जीएमटी इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 19787 | मैसर्स तथील प्लाटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 19884 | मैसर्स अनाबल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 19905 | मैसर्स तेलाक्काडन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड |

के. जी जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मिडवेस्ट लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 19 जून 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2009/00013--

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिडवेस्ट लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्यूट प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2011/00804-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्यूट प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स धनिकुला स्पनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 4 जून 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2010/00753-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धनिकुला स्पनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेस्टैल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 6 जुलाई 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2010/00056-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर

मैसर्स रेस्टैल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

के पास प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनी का नाम हटाया जाएगा।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गायत्रि राइस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 4 अगस्त 2010

सं. आरएपी/एसईएस-2005/560(3)/अगस्त-2010/04942--सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के एसईएस-2005 (आसान कलम स्कीमें) दिनांक 28 जनवरी, 2005 के अनुसरण इस कार्यालय में आवेदन किया है। सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गायत्रि राइस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

उक्त दर्शायी कम्पनी को प्रस्ताव के अनुसार हटाने के बारे में किसी व्यक्ति विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्त्रावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनी का नाम हटाया जाएगा।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जूड कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 29 सितम्बर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2010/00091--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जूड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जीवीके पावर (कृष्णपट्टनम) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 1 फरवरी 2011

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2011/00295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जीवीके पावर (कृष्णपट्टनम) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऐक्टिवकार्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 4 अगस्त 2010

सं. आरएपी/एसईएस-2005/560(3)/अगस्त-2010/039756--सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के एसईएस-2005 (आसान कलम स्कीमें) दिनांक 28 जनवरी, 2005 के अनुसरण इस कार्यालय में आवेदन किया है। सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऐक्टिवकार्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

उक्त दर्शायी कम्पनी को प्रस्ताव के अनुसार हटाने के बारे में किसी व्यक्ति विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्त्रावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जीवीके सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 1 फरवरी 2011

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2011/00290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जीवीके सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओकफेड टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 30 मार्च 2011

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2011/00317--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स ओकफेड टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशि राज दारा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेफरटेक सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 29 नवम्बर 2008

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2008/00007--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स सेफरटेक सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टीजीवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 22 मई 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2009/00041--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स टीजीवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टीजीवी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 22 मई 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2009/00041--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स टीजीवी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बोनिवा सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 10 सितम्बर 2008

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2008/00903--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स बोनिवा सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया भास्कर
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एसएमएस ऐयन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 21 जून 2011

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2011/00470--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
मैसर्स एसएमएस ऐयन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपपुंज

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 27th June 2011

No. DP/PERS. I/2011/1964/11/18/2009—The President is pleased to appoint the following Supdt. of Police, CBI to the post of Sr. Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation with effect from the dates mentioned against each and until further orders.

| Sl. No. | Name of the Officer | Place of posting on promotion as SSP | Date of Joining |
|---------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | S/Shri | | |
| 1. | R.C. Choudhary | AHD/Patna | 28.05.2011 |
| 2. | E. Narayanan | BS&FC, Mumbai | 28.05.2011 |
| 3. | R.P. Kaushal | CBI Academy | 28.05.2011 |
| 4. | Vijay Kumar | AC.I, New Delhi | 28.05.2011 |
| 5. | Surinder Paul | SC.I, New Delhi | 28.05.2011 |
| 6. | R. Raju | SU, Chennai | 28.05.2011 |
| 7. | V. P. Arya | ACB, Imphal | 31.05.2011 |
| 8. | M.C. Sahni | AC.II, New Delhi | 28.05.2011 |
| 9. | Keshav Mishra | EO.I, New Delhi | 28.05.2011 |
| 10. | Ganesh Verma | ACB, New Delhi | 28.05.2011 |
| 11. | T. Punithamani | MDMA, New Delhi | 30.05.2011 |
| 12. | Ashwani Kumar | Head Quarters, New Delhi | 28.05.2011 |

S.J.M. GILANI
Dy. Dir. (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 16th June, 2011

No. 2/2/07-Admn./132797—The Secretary, Central Vigilance Commission hereby appoints Shri Rajiv Verma, Section Officer in the Commission as Under Secretary on ad-hoc basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/-, with Grade Pay of Rs. 6,600/-, w.e.f. 17.06.2011 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. His appointment to the post of Under Secretary is purely on ad-hoc basis under Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

R.N. NAYAK
Officer on Special Duty (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 23 June 2011

No. E-16013(1)/4/2009/Pers-I/175—The President is pleased to appoint Shri Arun Chaudhary, IPS (BH : 1977) Special Director in Intelligence Bureau, against the post of Additional Director General, in Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the forenoon of 07.06.2011 in the Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- as personal to him, till

his superannuation or until further orders whichever event takes place earlier.

INDERJEET KAUR
Dir. (Police)

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 22nd June 2011

No. 3/26/2011—Admn.—The President is pleased to appoint Shri Kuldip N. Sharma, IPS (Gujarat : 76) as Additional Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- with effect from the forenoon of 20th April, 2011 for a period upto 31.12.2012 i.e. his date of superannuation, or until further orders, whichever event occurs the earliest.

DHANI RAM
Asstt. Dir. (Admn.)

No. 3/44/2011—Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Nirmal A. Choudhary, IPS (JH : 83) as Inspector General/Director, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi in the Pay Band-4 : Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the afternoon of 17th June, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHANI RAM
Asstt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 16th June 2011

No. O.II-3639/2011-Pers.—The Govt. of India have appointed Shri D. K. Pandey, IPS (JH : 84) as Inspector General (IG) in CRPF on deputation in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the forenoon of 18.05.2011.

R. N. MISRA
DIG (Pers.)

New Delhi-110003, the 17th June 2011

No. P.III-2/2011-Min.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation, Shri K. Sasidharan, Joint Assistant Director (IRLA-6359) of Pay and Accounts Office, Directorate General, CRPF, New Delhi has relinquished charge of the post of Joint Assistant Director in the afternoon of 31.01.2011.

G.V.H. GIRI PRASAD
DIGP (Organisation)

MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD

Kolkata, the 2nd March 2011

No. 0173/Gazette Notification/HQ/GB—The DGOF/Chairman, Ordnance Factory Board, Kolkata has approved the following promotion with effect from the date as specified against the name of the individuals :—

| Sl. No. | Name | Per. No. | From | To | Date of Promotion to ASO |
|---------|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| | S/Shri/Smt. | | | | |
| 1. | Sibabrata Saha | 100502 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.03.2006 |
| 2. | Sova Rani Sinha | 970113 | Assistant | Assistant Staff Officer | 17.03.2006 |
| 3. | Samir Kr. Majumder | 101083 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.07.2006 |
| 4. | Arun Kr. Mazumdar | 100503 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.09.2006 |
| 5. | Madhusudan Dasgupta | 101252 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.02.2006 |
| 6. | Lekhani Chakraborty | 100472 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.03.2006 |
| 7. | Alok Kumar Hajra | 100458 | Assistant | Assistant Staff Officer | 24.12.2008 |
| 8. | Pampa Majumder | 101058 | Assistant | Assistant Staff Officer | 24.12.2008 |
| 9. | Sujit Kumar Mitra | 100467 | Assistant | Assistant Staff Officer | 24.12.2008 |
| 10. | Joydeb Sinha | 100478 | Assistant | Assistant Staff Officer | 24.12.2008 |
| 11. | Kasturi Sen | 100463 | Assistant | Assistant Staff Officer | 24.12.2008 |
| 12. | Kallol Debnath | 100525 | Assistant | Assistant Staff Officer | 24.12.2008 |
| 13. | V. C. Srivastava | 908010 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 14. | J. C. Joshi | 908011 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 15. | Ram Naresh | 908012 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 16. | Asis Basu | 100384 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 17. | Malobika Guin | 100404 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 18. | Swapan Kr. Halder | 10045 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 19. | R. K. Jadav | 908013 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 20. | Md. Nasim Khan | 908014 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 21. | Rabindra Nath Ghosh | 100401 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |
| 22. | Sanjay Bandyopadhyay | 101052 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.07.2010 |
| 23. | Suresh Kumar | 908016 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.08.2010 |
| 24. | S. K. Nigam | 908017 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.08.2010 |
| 25. | Santi Chakraborty | 100526 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.08.2010 |
| 26. | Sudhir Roy Chowdhury | 100487 | Assistant | Assistant Staff Officer | 05.08.2010 |
| 27. | Bibhu Sankar Majumder | 100471 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.11.2010 |
| 28. | Kabita Deb | 100431 | Assistant | Assistant Staff Officer | 02.12.2010 |
| 29. | Ranjit Neogi | 100488 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.02.2006 |
| 30. | Deb Prasad Roy | 101252 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.01.2008 |
| 31. | Swapan Kr. Barman | 101091 | Assistant | Assistant Staff Officer | 01.02.2008 |
| 32. | Ashutosh Naskar | 100951 | Assistant | Assistant Staff Officer | 14.05.2010 |

2. The above promotions have been effected from the date mentioned against each.
3. The above promotions are subject to such amendment(s) as warranted due to changed circumstances if any, under any judgement or Order passed by the Courts/Tribunals.
4. The above promotion are ordered without effect on seniority and against the existing vacancy.

T. P. NARAYAN MOORTHY
Staff Officer/HQrs
for Dir. Gen., Ordnance Factories

No. 0173/Gazette Notification/HQ/GB—The DGOF/Chairman, Ordnance Factory Board, Kolkata has sanctioned the following promotion with effect from the date as specified against the name of the individuals :—

| Sl. No. | Name | Per. No. | From | To | Date of Promotion to PS |
|---------|------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | S/Shri/Smt. | | | | |
| 1. | Monimay Sinha | 100473 | Personal Assistant | Private Secretary | 22.06.2007 |
| 2. | Jharna Chowdhury | 100515 | Personal Assistant | Private Secretary | 31.03.2008 |
| 3. | Ranjan Ghosh | 101645 | Personal Assistant | Private Secretary | 31.03.2008 |
| 4. | Tapas Bhattacharya | 100442 | Personal Assistant | Private Secretary | 07.04.2010 |
| 5. | Mrinal Kanti Paul | 100469 | Personal Assistant | Private Secretary | 28.05.2010 |
| 6. | Anup Kr. Bandyopadhyay | 100472 | Personal Assistant | Private Secretary | 01.02.2011 |

2. The above promotions have already been effected from the date mentioned against each.

3. The above promotions are subject to such amendment(s) as warranted due to changed circumstances if any, under any judgement or Order passed by the Courts/Tribunals.

4. The above promotion are ordered without effect on seniority and against the existing vacancy.

T. P. NARAYAN MOORTHY
Staff Officer/HQrs
for Director General, Ordnance Factories

The 7th March 2011

Sub :—6th CPC implementation—Merger of the posts of Asstt. Foreman/Foreman Store Holder in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- and Junior Works Manager in the Pay Scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in Ordnance Factory Board under Ministry of Defence.

Ref :—OFB Letter No. 3265/6th CPC/IMPL/2011/A/NG dated 04.02.2011.

No. 0160/AF/JWM (Merged)-HQ-GB—In terms of instruction contained in OFB letter dated 04.02.2011 quoted above, the post of Assistant Foreman/Foreman (NT), Store Holder in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- (Pre-Revised) and Post of Junior Works Manager is merged in a single grade of Junior Works Manager in the corresponding Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 01.01.2006. Accordingly, below indicated individuals posted in OFB HQrs. formation holding the post of Assistant Foreman/Foreman (NT)/Store Holder in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- as on 01.01.2006 stands merged with the post of JWM Group-B (Gazetted) in the Pay Scale of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- w.e.f. 01.01.2006. In respect of those individuals posted in OFB Hqrs units and holding the post of Assistant Foreman/Foreman (NT)/ Store Holder from the subsequent date to 01.01.2006, the Merger, to JWM (Group-B Gazetted) post will be effective from the date indicated at column 06 of table :—

| Sl. No. | Name | Per. No. | From | To | Date of re-designations |
|---------|------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | S/Shri/Smt. | | | | |
| 1. | Das P. K. | 896245 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 2. | Sil T. K. | 819166 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 3. | Sen Jayanta | 845625 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 4. | Das Chowdhury A. | 853867 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 5. | Chakraborty S. | 857159 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 6. | Chatterjee G. K. | 845655 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 7. | Das Bijan | 857185 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------|--------|-------------------|----------------------|------------|
| 8. | S. K. Chakraborty | 800251 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 9. | Rudra T. K. | 857192 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 10. | Banerjee S. | 923161 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 11. | Acharya C. K. | 859891 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 12. | Biswas S. K. | 857355 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 13. | Banerjee M. K. | 845709 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 14. | Dhara T. K. | 824839 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 15. | Das A. K. | 824848 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 16. | Dutta Pulak Kr. | 800282 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 17. | Sarkar B. K. | 904623 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 18. | Madhavan T (AV Hqrs) | 103021 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 19. | Dash K. C. | 922041 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 20. | Sarangi K. P. | 922058 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 21. | Patra R. | 922097 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 22. | Chatterjee Himadri | 932181 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 23. | Bandopadhyay M (Smt.) | 822499 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 24. | Dhar B. K. | 859851 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 25. | Roy B. R. | 913046 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 26. | Saha S. K. | 871702 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 27. | John C. V. (of Cell) | 853983 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 28. | Sharma Diwakar (of Cell) | 932215 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 29. | Girija B (AV Hqrs) | 800284 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 30. | Naik Satya Narayan | 922031 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 31. | Mathivan T. p. (AV) | 821555 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 32. | Ghosh R. R. | 901423 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 33. | Ghosh M. | 809538 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 34. | Ganguli S. K. | 901003 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 35. | Deb Rupak Kumar | 816792 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 36. | U. N. Mondal | 860044 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 37. | Nag. S. K. | 901407 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 38. | Mukherjee T. K. | 930009 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 39. | Sarkar Suklal | 816833 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 40. | Pal M. R. | 857411 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 41. | Chakraborty S. | 849262 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 42. | Sarkar R. C. | 901091 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 43. | Mitra A. K. | 857395 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 44. | Bhowmik M. S. | 835229 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---------|-------------------|----------------------|------------|
| 45. | Mukherjee S. | 901335 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 46. | Dutta Prasanta Kr. | 817240 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 47. | Nath Kali Das | 817484 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 48. | Mukherjee D. | 824869 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 49. | Bhattacharya S. | 904716 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 50. | Ghosh S. R. | 901404 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 51. | Bose P. K. | 901405 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 52. | Bhandyopadhyay M. K. | 901412 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 20.04.2006 |
| 53. | Sarkar S. | 901416 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 54. | K. Vijaya Kumar (AV Hqrs). | 9380636 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 16.04.2008 |
| 55. | Bhattacharjee S. K. | 814214 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 30.06.2009 |
| 56. | Dutta Mohitosh | 858807 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 03.04.2006 |
| 57. | Chudhury Sujoy | 896733 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 30.06.2009 |
| 58. | Mazumder Subir Kr. | 932211 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 59. | Natarajan K. (AV) | 913024 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 60. | Samanta S. K. | 896323 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 61. | De Gautam | 913195 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 62. | Das D. K. | 809605 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 03.04.2006 |
| 63. | Paul A. K. | 809733 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 64. | Saha Uttam | 842367 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 65. | Srivastava V. K. (OEF Hqrs). | 829855 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 66. | Indra Chandra Babu (Smt.) (AV Hqrs) | 880691 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 67. | Basu D. | 816496 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 68. | Biswas R. D. | 800320 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 69. | Das R. N. | 268121 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 70. | Baidyanathan V. (AV Hqrs). | 926098 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 71. | Biswas R. K. | 809723 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 72. | Bandyopadhyay S. | 817713 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 02.04.2007 |
| 73. | Singha P. K. | 824947 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 30.06.2009 |
| 74. | Bandyopadhyay B. | 809711 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 75. | Bandyopadhyay Bijan Kumar | 901635 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 16.04.2008 |
| 76. | Acharya P. | 901626 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 16.04.2008 |
| 77. | Basak Ranjit | 860284 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 09.06.2010 |
| 78. | Saha Prakash Chandra | 860280 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 09.06.2010 |
| 79. | Chatterjee Gautam | 904766 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 09.06.2010 |
| 80. | Das Madhumita (Smt.) | 800318 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 28.07.2010 |
| 81. | Jana L. M. | 922029 | Foreman (NT) | Junior Works Manager | 01.01.2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---------------------------|--------|-------------------|----------------------|------------|
| 82. | Karmakar Ratna (Smt.) | 809732 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 31.05.2010 |
| 83. | Kabi Chandra Bairagi | 922115 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 28.07.2010 |
| 84. | Nag S. K. | 901407 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 85. | Panda P. K. | 92215 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 16.04.2010 |
| 86. | Sarkar Shekharesh | 896803 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 28.07.2010 |
| 87. | Sanyal Prabir Kr. | 800317 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 28.07.2010 |
| 88. | Saha Rabindra Nath | 904711 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 89. | Bhowmik Tapan | 860281 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 31.05.2010 |
| 90. | Das B. N. | 816691 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 91. | Banerjee P. K. | 901419 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 92. | Paul Subrata | 809752 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 28.07.2010 |
| 93. | Day S. K. | 901654 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 01.01.2006 |
| 94. | Mollik Sachin (OEF Hqrs). | 829888 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 31.05.2010 |
| 95. | Mukhopadhyay Phalguni | 814200 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 28.07.2010 |
| 96. | Singha R. P. | 800314 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 97. | Khan S. C. | 901327 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |
| 98. | Chatterjee P. K. | 824896 | Assistant Foreman | Junior Works Manager | 13.04.2007 |

2. This issues with the approval of the competent authority.

(Authority : OFB Letter No. 3265/6th CPC/IMPL/2011/A/NG dated 04.02.2011)

T. P. NARAYANMOORTHY

Staff Officer/Hqrs.

For Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 16th June 2011

No. 12025/1/2011-DCH/Estt.I—The President is pleased to appoint Shri N. Purushothaman as Assistant Director Grade-I (Group 'A' Gazetted) on promotion basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay of Rs. 5,400/- in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Hd. Qtrs.), Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 10.06.2011 until further orders.

S. K. JHA

Addl. Development Commissioner for Handlooms

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

New Delhi, the 10th June 2011

No. A-38011(15)/2011-Admn. (HE)—On attaining the age of superannuation, Smt. Asha Kak, Asstt. Director (Gr. II) (EI), Headquarters Office of the Development Commissioner (MSME) retired from Government Service on the afternoon of 31st May, 2011.

R. N. AGGARWAL
Dy. Director (Admn.)

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 22nd June 2011

No. C-81/707—The undermentioned Group 'C' Division-I (Surveyors/Survey Assistants) are promoted as Officer Surveyor, Group 'B' (Gazetted) Post in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from the date (s) as shown against each :—

| Sl. No. | Name | Date of Promotion |
|---------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Sh. S. K. Sen | 08.02.2011 |
| 2. | Sh. H. K. Harish | 01.03.2011 |
| 3. | Mohd. Aliuddin | 09.02.2011 |
| 4. | Sh. Ravi Kant Sharma | 08.02.2011 |
| 5. | Sh. Kuldeep Singh | 08.02.2011 |
| 6. | Sh. J. D. Choudhury | 17.02.2011 |
| 7. | Sh. Virendra Prasad (SC) | 09.02.2011 |
| 8. | Sh. P. S. Pal (ST) | 11.02.2011 |
| 9. | Sh. P. K. Pradhan | 14.02.2011 |
| 10. | Sh. R. S. Bisht | 08.02.2011 |
| 11. | Sh. Nathi Ram (SC) | 09.02.2011 |
| 12. | Sh. Gyan Chand (SC) | 09.02.2011 |
| 13. | Sh. Khushi Ram (SC) | 14.02.2011 |
| 14. | Sh. R. K. Dey | 17.02.2011 |
| 15. | Sh. Mohan Lal (SC) | 08.02.2011 |
| 16. | Sh. Clement Lakra (ST) | 10.02.2011 |
| 17. | Sh. H. L. Das (SC) | 08.02.2011 |
| 18. | Sh. S. P. Gaikwad (SC) | 21.02.2011 |
| 19. | Sh. Abinas Lakra (ST) | 08.02.2011 |
| 20. | Sh. Abraham Lakra (ST) | 14.02.2011 |
| 21. | Sh. K. S. Meena (ST) | 08.02.2011 |
| 22. | Sh. K. Chatru (ST) | 14.02.2011 (A/N) |
| 23. | Sh. A. K. Chaudhury | 08.02.2011 |
| 24. | Sh. A. A. Patel | 21.02.2011 |
| 25. | Sh. N. K. Das | 08.02.2011 |
| 26. | Sh. A. M. Paul | 14.02.2011 |
| 27. | Sh. Rajinder Kumar (SC) | 09.02.2011 (A/N) |

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)

New Delhi, the 31st May 2011

No. 11013/3/2010-MI—On the recommendations of UPSC and with the approval of the Competent Authority, the following Marketing Officers (Group-I) are appointed to the post of Sr. Marketing Officer (Group-I) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in Directorate of Marketing and Inspection with effect from the dates indicated against their names :—

| S. No. | Name | Date of Joining |
|--------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Sh. James Antony | 5.4.2011 |
| 2. | Sh. M. N. Ramachandran | 1.4.2011 |
| 3. | Sh. V. Seetharaman | 1.4.2011 |
| 4. | Sh. M. S. Sriram | 4.4.2011 |
| 5. | Sh. K. C. Rout | 1.4.2011 |
| 6. | Sh. Mahender Pal Prashar | 1.4.2011 |
| 7. | Sh. S. C. Gupta | 1.4.2011 |
| 8. | Sh. Jay Prakash | 1.4.2011 (AN) |
| 9. | Sh. Kishore Chand | 1.4.2011 (AN) |
| 10. | Sh. Dev Kumar | 1.4.2011 |
| 11. | Smt. Shakuntala Juneja | 1.4.2011 |
| 12. | Sh. S. Shiva Kumar | 1.4.2011 (AN) |
| 13. | Sh. Dinesh Kumar | 4.4.2011 |

SUKUMAR
Dy. Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 22nd June 2011

CORRIGENDUM

No. PD/7(24)/2009-R-IV/SO(E)/ETG/11/4164—Reference Notification No. PD/7(24)/2009-R-IV/SO(E)/ETG/6260 dated July 14, 2010. The effective date of promotion of Dr. Kuttay Ramachary Subramanian Chandrakumar shown at Sr. No. 103 of the abovementioned Gazette Notification may be corrected to read as "11.05.2011" instead of "01.07.2009".

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 23rd June 2011

No. GF/38/Estt.I/578—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers belonging

to Group 'A' of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity with effect from the dates mentioned against each:—

| Sl. No. | Name of the Officer | Grade/Post of initial apptt. | Date of confirmation |
|---------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. | Sh. Suvadip Pal | Scientific Officer/C | 01.10.2009 |
| 2. | Dr. Vinod J. Dhole | Scientific Officer/D | 01.04.2010 |
| 3. | Sh. Gouri Shankar Sahoo | Scientific Officer/C | 01.10.2010 |
| 4. | Sh. Bathula Sreekanth | Scientific Officer/C | 01.10.2010 |
| 5. | Sh. Abinash Sahu | Scientific Officer/C | 01.10.2010 |
| 6. | Sh. Saikat Sen | Scientific Officer/C | 01.10.2010 |
| 7. | Kum. Papiya Ghosh | Scientific Officer/C | 01.10.2010 |
| 8. | Dr. Amit B. Abhyankar | Scientific Officer/D | 01.10.2010 |

C. GOPALAKRISHNAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 17th June 2011

No. 6(2224)97-Adm/Vol.II/6509—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri N. B. Samal, Assistant (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/-) DAE Secretariat, Mumbai on promotion as Section Officer in the Pay Band Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/-, in the Department of Atomic Energy Secretariat with effect from the forenoon of 8th June, 2011.

2. Shri N. B. Samal will be on probation for a period of one year with effect from 08.06.2011.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

No. 6(2570)/2011-Admn./6526—The President is pleased to appoint Shri Niranjana Kumar (IDAS : 1999) as Deputy Secretary in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 7,600/- in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of 14th June, 2011 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

V. GONINDANKUTTY
Under Secy. (Admn.)

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 22nd June 2011

No. NFC/Par.-II/Prom.-10/1121—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades and with effect from the dates shown against each in the same unit, in an officiating capacity, until further orders:—

| Sl. No. | Name | Promotion From Grade | Date of To Grade Promotion |
|--|------------------------|----------------------|--|
| (S/Shri/Smt.) | | | |
| Pay Band/Grade Pay of SO/E : Rs. 15,600—39,100/-/7,600/- | | | |
| 1. | A. K. Nayak | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 2. | K. Kastruri Bai | SO/D | SO/E 01.07.2010 (Retired on 31.01.2011) |
| 3. | D. Mallikarjun Reddy | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 4. | N. Manikyala Rao | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 5. | Y. Pratap | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 6. | N. Kranthisagar | SO/D | SO/E 03.07.2010 |
| 7. | T. K. Ghosh | SO/D | SO/E 05.07.2010 |
| 8. | A. Nageswara Rao | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 9. | T. Jaganmohan Rao | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 10. | O. Narayana | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 11. | Sujata Roy | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 12. | Dr. B. Ravi Raj | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 13. | Md. Asadullah Sharief | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 14. | P. K. Maity | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 15. | Utpal Singha | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 16. | V. B. Deshmukh | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 17. | D. Nagaraju | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 18. | N. K. S. Dubey | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 19. | S. Murugan | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 20. | K. Bhoomanna | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 21. | Nirmal Santra | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 22. | K. V. V. Satyanarayana | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 23. | S. Narasimman | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 24. | S. Arulsamy | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 25. | G. V. Prasad | SO/D | SO/E 01.07.2010 |
| 26. | T. Suresh | SO/D | SO/E 01.07.2010 |

| Sl. No. | Name | Promotion From Grade | To Grade | Date of Promotion |
|---------|------|----------------------|----------|-------------------|
|---------|------|----------------------|----------|-------------------|

The 25th June 2011

(S/Shri/Smt.)

Pay Band/Grade Pay of SO/D : Rs. 15,600—39,100/-/6,600/-

| | | | | |
|---|---------------------------|-------|------|------------|
| 1. | Dr. Shalabh Saxena | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 2. | Dr. Suresh Kumar | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 3. | G. Satyanarayana | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 4. | B. Suresh | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 5. | Rahul Upreti | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 6. | A. Yesu Dass | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 7. | R. S. Chouhan | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 8. | U. S. Bhadoria | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 9. | K. Chandrakar | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 10. | D. Hema Sunder | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 11. | K. Prabhakara Rao | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 12. | Deenanath Singh | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 13. | K. Purushothama Rao | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 14. | K. Narasimha Rao | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 15. | D. V. R. Prasad | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 16. | T. S. V. R. Nageswara Rao | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 17. | A. Hari Babu | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 18. | P. B. Vara Prasad | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 19. | N. Bheema | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 20. | Praveen Mohan | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 21. | R. Hanumantha Rao | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 22. | Shaik Raheem | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| (Expired on 21.02.2011) | | | | |
| 23. | Satyasiba Das | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 24. | B. Muniratnam | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 25. | Dr. M. Kavi Chakravarthy | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 26. | R. P. Selvam | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 27. | Suman Kumar | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| 28. | A. Bheemasankara Rao | SO/C | SO/D | 01.07.2010 |
| Pay Band/Grade Pay of SO/C : Rs. 15,600—39,100/- /5,400/- | | | | |
| 1. | S. R. Lodha | SO/SB | SO/C | 01.07.2010 |
| 2. | K. Ramesh Babu | SO/SB | SO/C | 01.07.2010 |
| 3. | M. Shiva Kumar | SO/SB | SO/C | 01.07.2010 |
| 4. | Md. Shabbir Ahmed | SO/SB | SO/C | 01.07.2010 |

No. NFC/Par-I/04/06/484—In continuation of Notification No. NFC/Par-I/04/06/167 dated 08.03.2011, the adhoc appointment of Smt. P. Janaki, Assistant Accounts Officer of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 5,400/- has been extended upto 30.06.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer

No. NFC/Par-I/04/06/485—In continuation of Notification No. NFC/Par-I/04/06/288 dated 13.04.2011, the adhoc appointment of Smt. J. Swaroopa Rani, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 24.05.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer

No. NFC/Par-I/04/06/486—In continuation of Notification No. NFC/Par-I/04/06/287 dated 13.04.2011, the adhoc appointment of Shri V. Bharat Bhushan, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 31.05.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 23rd June 2011

No. 3-1707/2011-Sci.Estt./4769—On the recommendations of the DPC (Group-B Gazetted), Shri T. Srimannarayan Murthy, STA (Geophysics) has been promoted to the post of Assistant Geophysicist in the PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- per month plus usual allowance applicable thereon in the temporary capacity from the date 28.04.2011 (FN) and posted at CGWB, SECR, Chennai.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer-III

S. R. CHAUHAN
Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P A M Capital Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st July 2010

No. 560(5)/57589—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P A M Capital Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. School of Interior Designing Private Limited

New Delhi-110019, the 7th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00218—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. School of Interior Designing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kingsgate Resources Management Private Limited

New Delhi-110019, the 10th February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00254—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kingsgate Resources Management Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Moni Tech Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 15th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00163—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. Moni Tech Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Apache Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00179—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apache Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Devraj Rangwala Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00205—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Devraj Rangwala Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orion Exim (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00170—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Orion Exim (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udan Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 24th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00033—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Udan Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Premier Jewellery Export Private Limited

New Delhi-110019, the 29th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00019—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premier Jewellery Export Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nischay Exports and Trading Company Private Limited

New Delhi-110019, the 31st March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00010—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nischay Exports and Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. South Eastern Transport Company Private Limited

New Delhi-110019, the 1st April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00073—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. South Eastern Transport Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arry Fiscal Services Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00013—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arry Fiscal Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hans Raj Leasing and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00009—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hans Raj Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tension Mukht Finance Limited

New Delhi-110019, the 5th April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00224—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tension Mukht Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Grandley Multilevel Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 13th April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00084—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Grandley Multilevel Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radin Financial Services Limited

New Delhi-110019, the 18th April 2011

No. 560(5)/58663—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radin Financial Services Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dilkushh Finance Company Private Limited

New Delhi-110019, the 25th April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00063—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dilkushh Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kunrun India Finance Limited

New Delhi-110019, the 25th April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00096—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kunrun India Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Excel Inservices Private Limited

New Delhi-110019, the 26th April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00046—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Excel Inservices Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunlight Builders Limited

New Delhi-110019, the 9th May 2011

No. 560(5)/18611—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunlight Builders Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Birap Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 12th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00059—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Birap Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shaharsh Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 12th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00209—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shaharsh Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dolphin Constructions Limited

New Delhi-110019, the 12th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00016—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dolphin Constructions Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lakshmi Chemists Private Limited

New Delhi-110019, the 12th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00052—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. Lakshmi Chemists Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madan Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 12th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00176—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madan Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Devi Sagar Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 13th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00445—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Devi Sagar Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bupa India Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 13th May 2011

No. 560(5)/184608—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bupa India Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aurous Oil and Gas Exploration Limited

New Delhi-110019, the 13th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00408—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aurous Oil and Gas Exploration Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. e Touch IT Advanced Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 13th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00437—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. e Touch IT Advanced Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Technique Agro Vision Private Limited

New Delhi-110019, the 18th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00100—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Technique Agro Vision Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Options Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00014—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New

Options Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Radha Krishna Agro Products Private Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00022—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Radha Krishna Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Times Infotech Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00154—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Times Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goenka Visions Global Bytes Private Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00163—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goenka Visions Global Bytes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Intron Appliances Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00148—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Intron Appliances Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Flora Perfumes Private Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00027—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Flora Perfumes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. PJ Hospitality Private Limited

New Delhi-110019, the 9th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00133—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. PJ Hospitality Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramindra Farms & Buildings Private Limited

New Delhi-110019, the 9th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00182—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramindra

Farms & Buildings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramindra Colonisers & Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 9th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00195—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramindra Colonisers & Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Odisha Iron and Steel Limited

New Delhi-110019, the 13th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00307—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Odisha Iron and Steel Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Earth Forgings Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00300—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Earth Forgings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Best Machineries Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00255—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Best Machineries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orchid Alloys and Casting Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00325—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Orchid Alloys and Casting Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwakarma Heavy Equipments Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00282—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vishwakarma Heavy Equipments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wintech Machinery Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00359—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wintech

Machinery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Catermart India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00267—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Catermart India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Carex Communications Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00006—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Carex Communications Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Synapse Learning Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00091—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Synapse Learning Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
New Delhi-110019, the 23rd June 2011

No. RoC/Delhi/560(5)/EES-2011/PART-III-I/3202—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| S. NO. | CIN | COMPANY NAME |
|--------|-----------------------|--|
| 1 | U70101DL1992PTC124575 | RADHAKRISHNA ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 2 | U55204DL2005PTC140498 | CINNABAR CUISINE PRIVATE LIMITED |
| 3 | U74140DL1998PTC094226 | AVR CONSULTING PRIVATE LIMITED |
| 4 | U74999HR1987PTC028989 | ENTROPY EQUIPMENTS PVT LTD |
| 5 | U67120DL1996PTC081830 | JEET FINVEST PRIVATE LIMITED |
| 6 | U67120DL1993PTC053664 | DAIFY SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 7 | U80211DL2001PLC111957 | SPECTRUM EDUCATION LTD |
| 8 | U55101DL1998PTC092902 | CALANGUTE RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 9 | U51909DL2004PTC124618 | AUBERGINE CONSULTING PRIVATE LIMITED |
| 10 | U36939DL1998PTC096711 | CHOUDHARY SPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 11 | U72900DL2007PTC166250 | SHIVIK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 12 | U74899DL1995PTC068853 | AKSHIT PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 13 | U24232DL2007PTC162362 | LINEX PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED |
| 14 | U74899DL1998PTC096439 | BUSINESS EVENTS AND LEISURE TRAVEL (INDIA) PVT LTD |
| 15 | U70109DL2006PTC149958 | DS REAL ESTATE DEVELOPER PRIVATE LIMITED |
| 16 | U63040DL2006PTC146237 | PACE AIR SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 17 | U26941HR1993PTC031954 | HOMELAND PHARMACEUTICALS AND SURGICALS PVT. LTD. |
| 18 | U65992DL1999PTC100164 | PRAKARTI CHITS PRIVATE LIMITED |
| 19 | U65992DL2003PTC118301 | K Y CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 20 | U51109DL2000PTC105788 | CIRCUIT CITY TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 21 | U72900DL2006PTC149022 | VANI BROADCASTING NET-WORK PRIVATE LIMITED. |
| 22 | U64100DL1995PTC069011 | RITE CHOICE COURIER PRIVATE LIMITED |
| 23 | U27100DL2007PTC170495 | R. B. JODHAMAL STEEL PRIVATE LIMITED |
| 24 | U01119DL1999PTC101514 | KATHERIA AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 25 | U74899DL1988PTC033470 | JEET CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 26 | U72900DL2000PTC106352 | LOGIC-E-TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 27 | U74899DL1994PTC062765 | PRASTUTI ADVERTISERS PRIVATE LIMITED |
| 28 | U65992DL1991PTC045478 | ROLICK CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 29 | U24230DL1998PTC094266 | CURATIVE PHARMA PRIVATE LIMITED |
| 30 | U85100DL1996PTC080234 | U&S HEALTHCARE CONSULTANTS & HOSPITAL PLANNERS PRIVATE LIMITED |
| 31 | U67120DL1996PTC078852 | DHARAM FINVEST PRIVATE LIMITED |
| 32 | U74899DL1989PTC036137 | PREMIER MEDIAFORCE PRIVATE LIMITED |
| 33 | U66010DL1981PTC012763 | SAKS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 34 | U55101DL2004PTC131711 | BELL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED |
| 35 | U74899DL1991PTC044476 | VHP SECURITY PAPERS MILLS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 36 | U24246DL2003PTC123766 | VAMA BEAUTY HABITAT PRIVATE LIMITED |
| 37 | U74899DL1986PTC023809 | RELIANT MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 38 | U29199DL2005PTC136065 | Q T DIES AND TOOLING PRIVATE LIMITED |
| 39 | U93090DL2006FTC152264 | BLOM (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 40 | U70109DL2006PTC154969 | IVORY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 41 | U51395DL1996PTC076312 | K.T. TELETRONICS PRIVATE LIMITED |
| 42 | U45201DL2004PTC130235 | BIDHURI BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 43 | U74899DL1995PTC066217 | GROUND FINANCE PRIVATE LIMITED |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 44 | U72900DL2003PTC118451 | CLINICIQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 45 | U15419DL2003PTC119898 | MASALA RAM FOODS PRIVATE LIMITED |
| 46 | U74899DL1983PTC015051 | INTEGRATED INFORMATICS PRIVATE LIMITED |
| 47 | U00284DL2005PTC138823 | PRAKAT MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 48 | U65992DL1990PTC040117 | DREAMLAND CHITS PRIVATE LIMITED |
| 49 | U15209DL2000PTC108184 | SHREEJI DAIRY PRIVATE LIMITED |
| 50 | U65992HR1999PTC034305 | DUSHAD CHITS PRIVATE LIMITED |
| 51 | U65992DL1992PTC048166 | FOURSON CHITS PRIVATE LIMITED |
| 52 | U70101DL2006PTC145960 | SAROHA ESTATE AGENCY PRIVATE LIMITED |
| 53 | U74899DL1995PTC064355 | JHANJI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 54 | U51109DL2000PTC106882 | ANADI EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 55 | U72300DL2000PTC104867 | EBIZ TECHNO PARK PRIVATE LIMITED |
| 56 | U72400DL2008PTC172836 | EVAYAA IT CONSULTING PRIVATE LIMITED |
| 57 | U63013DL2006PTC149756 | MHLC COURIER PRIVATE LIMITED. |
| 58 | U74899DL1978PTC009277 | EXPORTOS CREATIONS PRIVATE LIMITED |
| 59 | U74140DL2001PTC111556 | AXIS CONSULTING PVT. LTD |
| 60 | U74899DL1988PTC031527 | J J APARTMENTS PRIVATE LIMITED |
| 61 | U85110DL1997PTC090915 | HANDA NURSING HOME PRIVATE LIMITED |
| 62 | U74140DL2005PTC134665 | MANJU GUPTA LEGAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 63 | U15492DL2006PTC149397 | KRB FOODS PRIVATE LIMITED |
| 64 | U80301DL2006PTC154148 | GOPALA EDU CARE PRIVATE LIMITED |
| 65 | U51909DL2002PTC116864 | ATN IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 66 | U51395DL2003PTC121912 | VIRASAT ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 67 | U27310DL2005PTC132643 | SHRIRAM METALLURGY INDIA PRIVATE LIMITED |
| 68 | U24231DL2003PTC118796 | TARA MEDIWAYS PRIVATE LIMITED |
| 69 | U67120DL1994PTC057340 | GET TIPS INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICE PRIVATE LIMITED |
| 70 | U74899DL1994PTC059338 | SONIC TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 71 | U63040DL1997PTC087740 | ELITE TOURIST SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 72 | U72200DL2000PTC108958 | BUSINESS LOGICIELS PRIVATE LIMITED |
| 73 | U29150DL2006PTC146342 | SAISA INDIA AVIATION EQUIPMENT PRIVATE LIMITED |
| 74 | U34101DL1997PTC085431 | MALHOTRA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED |
| 75 | U72200DL1998PTC091532 | PRITAM COMPUTERS PRIVATE LIMITED |
| 76 | U45200DL2007PTC158823 | CITYWIDE PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 77 | U45200DL2007PTC158827 | VANTAGE PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 78 | U67120DL1998PTC096114 | SINGLE POINT RESOURCES PRIVATE LIMITED |
| 79 | U28932DL1996PTC081233 | PRUTHI TECHNOCRATES PRIVATE LIMITED |
| 80 | U71290DL1990PTC041709 | CARD LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 81 | U74899DL2000PTC104169 | SRS INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 82 | U74999DL2006PTC155187 | VINAYAK TRANSCRIPTION BILLING & DEBT RECOVERY PRIVATE LIMITED |
| 83 | U27109DL1989PTC034656 | VS METAL PROFILES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 84 | U24239DL2003PTC120050 | SEPTA MEDITECH PRIVATE LIMITED |
| 85 | U24114DL1995PTC066914 | KESHO RAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 86 | U65992DL2005PTC139477 | JASMEET CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 87 | U74899DL1976PTC008442 | ZENON ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 88 | U72200DL2006PTC150271 | MKS INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 89 | U70109DL2006PTC152846 | ROYAL ASCENT BUILDCON PRIVATE LIMITED |
| 90 | U63090DL2003PTC119485 | MOTHER SUPPORT TRANSPORT PRIVATE LIMITED |
| 91 | U24233DL2007PTC167115 | MEDICORONET PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
| 92 | U40108DL2002PTC114654 | STONE AND WEBSTER ENGINEERING PROJECTS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 94 | U18101DL2003PTC122762 | AUTOGRAPH DESIGNS PRIVATE LIMITED |
| 95 | U15511DL2007PTC167676 | DIVINO FINE WINE & SPIRITS PRIVATE LIMITED |
| 96 | U74899DL2001PTC109684 | CSI SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 97 | U45200DL2006PTC156388 | HIMACHAL INFRATECH PRIVATE LIMITED |
| 98 | U70109DL1994PTC058294 | HARIT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 99 | U74899DL1990PTC039493 | HELIO GRAPHIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 100 | U72300DL2007PTC169066 | MIDWARE SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
| 101 | U29248DL1999PTC098279 | MANCONEX PRIVATE LIMITED |
| 102 | U72100DL2000PTC106855 | VINSSAR INTERNET BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 103 | U72300DL2005PTC142906 | TECHSURE ON-LINE SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 104 | U74999DL1996PTC079529 | GIST AUTO PRIVATE LIMITED |
| 105 | U67120DL1993PTC052659 | SINGLA SONS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
| 106 | U15312HR1999PTC034354 | AL-GYAS RICE MILLS PRIVATE LIMITED |
| 107 | U26941DL2000PTC108806 | ANKIT CEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 108 | U93090DL2006PTC151889 | ASA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 109 | U70109DL2006PTC154838 | MUD AND MORTAAR REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 110 | U74140DL2005PTC141021 | BRANDROOTS PRODUCT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
| 111 | U74999DL2007PTC162704 | SRI GOVINDA IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 112 | U63040DL1996PTC081429 | AMENITY HOLIDAYS PRIVATE LIMITED |
| 113 | U51909DL2005PTC142351 | AKZ TRADING PRIVATE LIMITED |
| 114 | U51909DL2005PTC137492 | PROFESSIONAL TELECOM PRIVATE LIMITED |
| 115 | U93020DL1996PTC077420 | CLINIC TWO THOUSAND PRIVATE LIMITED |
| 116 | U55101DL2006PTC152122 | TATHAGAT RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 117 | U64200DL1999PTC099803 | MAKSAT COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 118 | U65992DL1995PTC074186 | GSP CHITS PRIVATE LIMITED |
| 119 | U31311DL2003PTC120842 | AARNAV CRAFT PRIVATE LIMITED |
| 120 | U74899DL1986PTC024066 | AGGARWAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 121 | U74899DL1995PLC072914 | R P INDIA FINVEST LIMITED |
| 122 | U45201DL2001PTC110818 | UMANGSUN BUILDWELL PVT. LTD. |
| 123 | U65992DL1993PTC052069 | SANT SINGH SABHA CHITS PRIVATE LIMITED |
| 124 | U18101DL2004PTC129173 | ZURICH FASHION PRIVATE LIMITED |
| 125 | U00899DL2005PTC140454 | AXIOM CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 126 | U85110DL1996PTC077659 | SAKSHAM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED |
| 127 | U70109DL1998PTC096980 | ALAARA HIRE & LEASING PRIVATE LIMITED |
| 128 | U24100DL1992PLC048991 | PUSHP CHEM PLAST LIMITED |
| 129 | U51909DL2003PTC123511 | SWABHIMAN IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 130 | U72900DL2005PTC142267 | GURVEEN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED |
| 131 | U19201DL2002PTC117008 | RAVINDRA SHOES PRIVATE LIMITED |
| 132 | U80301DL2005PTC137914 | EDUFUN TOYS PRIVATE LIMITED |
| 133 | U74899DL1982PTC014869 | VVK CHEMTECH PVT LTD |
| 134 | U74140DL2004PTC126167 | ELITE MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 135 | U45400DL2008PTC172608 | AKME WESTOVER PROJECTS PRIVATE LIMITED |
| 136 | U24239DL2000PTC106062 | QUINCON HYGIENE PRIVATE LIMITED |
| 137 | U15316DL2006PTC155238 | FROCAN FOODS PRIVATE LIMITED |
| 138 | U10102DL2000PTC108789 | MADHAV MINES PRIVATE LIMITED |
| 139 | U10102DL2000PTC108788 | PRAYAG MINES PRIVATE LIMITED |
| 140 | U29130DL1999PTC100148 | ALLIED BRAKE CO. PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 141 | U99999DL1999PLC101830 | LOIL IMPEX LIMITED |
| 142 | U15139DL1982PTC014302 | SNO SHACK FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED |
| 143 | U64203DL2000PTC108961 | CROWN CAB AND DEVICES PRIVATE LIMITED |
| 144 | U01132HR2002PTC034967 | MEHAK TEA PRIVATE LIMITED |
| 145 | U74899DL2006PTC144527 | ANAND CREATION PRIVATE LIMITED |
| 146 | U74999DL2001PTC113428 | SAFE HAND NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 147 | U18101DL1987PTC030154 | R AND R OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 148 | U63040DL1996PTC080147 | INTIME TOURS AND TRAVEL PRIVATE LIMITED |
| 149 | U65923DL1991PTC046826 | RACHIT CREDITS PRIVATE LIMITED |
| 150 | U74899DL1985PTC067873 | J V FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 151 | U27310HR1989PTC030708 | TEESONS METALS INDIA PVT LTD |
| 152 | U27109DL1984PTC018030 | FALCON INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| 153 | U51909DL1986PTC025573 | WORTH CREATION PRIVATE LIMITED |
| 154 | U05004DL1994PTC061487 | OCEANIC AQUACULTURE PRIVATE LIMITED |
| 155 | U19201HR2007PTC036643 | KK SHOES PRIVATE LIMITED |
| 156 | U15491DL2000PTC108406 | ANILJI FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED |
| 157 | U01132DL1997PLC090636 | HITESH GREENGOLD AND PLANTATIONS LIMITED |
| 158 | U52110DL1987PLC029393 | SUPERCOM INDIA LIMITED |
| 159 | U67110DL2003PTC119606 | GREEN FOREX AND F FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 160 | U70101DL1981PTC011719 | KHOSLA PROPERTIES PVT LTD |
| 161 | U74899DL1995PTC066575 | EUTTICON PHARMA PRIVATE LIMITED |
| 162 | U24239DL2002PTC116254 | OUZEL PHARMA PRIVATE LIMITED |
| 163 | U33112DL2000PTC103913 | VAISHALI HEALTH CARE PRIVATE LIMITED |
| 164 | U60231DL2002PTC115536 | SRI SOBNAM LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
| 165 | U74899DL2004PTC048380 | SURAJ RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 166 | U45201DL2005PTC137690 | A.N. DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 167 | U74999DL1992PTC048791 | DAINTY DRESSES PRIVATE LIMITED |
| 168 | U74899DL1995PTC071753 | RUBICS FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
| 169 | U74920DL2005PTC143989 | MUSKAN DISCOVER DETECTIVE AND SECURITY AGENCY PRIVATE LIMITED |
| 170 | U51410DL1996PTC080270 | SHANDURG (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 171 | U80301DL2005PTC140349 | A B EXCERPTS AND EXCEPTIONS PRIVATE LIMITED |
| 172 | U72900DL2003PTC122258 | TEJAS DIGITECH PRIVATE LIMITED |
| 173 | U74899DL1983PTC015656 | BADSHAH INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
| 174 | U74899DL1972PTC006136 | CHETNA EXPORTERS PRIVATE LIMITED |
| 175 | U51909DL2005PTC140909 | CAMEO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 176 | U74899DL2000PTC105750 | KCS VISION PRIVATE LIMITED. |
| 177 | U45400DL2007PTC163960 | IXIA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 178 | U65992HR1988PTC030207 | PICK N MOVE CHITS PRIVATE LIMITED |
| 179 | U34300DL2006PTC147384 | TRIKUTA AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED |
| 180 | U64200DL1993PLC053773 | SIDHI TECH SERVICES LIMITED |
| 181 | U51410DL1998PTC096594 | PBG PETROLIUM PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 182 | U74899DL1995PTC072709 | SHIVA MERCHANTS PRIVATE LIMITED |
| 183 | U72900DL2003PTC120939 | DACE INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 184 | U18101DL2000PTC107370 | PECKERS EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 185 | U74140DL2004PTC125592 | SEGES CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 186 | U45201DL2005PTC133244 | S S ENGGCON PRIVATE LIMITED |
| 187 | U67120DL1993PTC054045 | DEV- KARAN PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 188 | U74899DL1998PTC093364 | LAJWANTI TRAVEL AND CARGO PRIVATE LIMITED |
| 189 | U51909DL2004PTC130886 | TIBASKI MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED |
| 190 | U45201DL2005PTC142773 | LBBC DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 191 | U72100DL2000PTC105947 | INFOTECH INITIATIVES PRIVATE LIMITED |
| 192 | U00309DL2005PLC140827 | PANIPAT V.K. RECYCLING AND TRASPORT COMPANY LIMITED |
| 193 | U74899DL1986PTC024939 | WELGROW FEEDS PRIVATE LIMITED |
| 194 | U65992DL1995PTC069806 | JOSIMA CHITS PRIVATE LIMITED |
| 195 | U18101DL2005PTC139004 | VIVA CREATIONS PRIVATE LIMITED |
| 196 | U45101DL2005PTC142268 | GURVEEN DEVELOPER AND BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 197 | U64203DL2003PTC122033 | HDM URMET TELESYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 198 | U67120DL1995PTC064116 | MOTIVATIONAL SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 199 | U22110DL1996PTC083327 | AAS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 200 | U74999DL1991PTC044198 | PASHUPATHI TAPES PRIVATE LIMITED |
| 201 | U55202DL2004PTC126050 | OM CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 202 | U19129DL1999PTC101602 | EMBAR MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 203 | U51909DL1996PTC082144 | WALAITI RAM KEWAL KISHAN (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 204 | U92412DL2007PTC162880 | QUEST HOSPITALITY PRIVATE LIMITED |
| 205 | U74899DL1995PTC068072 | ATCOR FINEX PRIVATE LIMITED |
| 206 | U72100DL2001PTC109807 | AKHOURI INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 207 | U26101DL1986PTC023791 | S.K.GLASS AGENCIES PVT.LTD. |
| 208 | U63090HR1993PTC032187 | DHARIWAL ROADLINES PVT LTD |
| 209 | U72900HR2007PTC037278 | EROS DATA TECH PRIVATE LIMITED |
| 210 | U74999DL2001PTC112046 | PEAKERS MARKETING PVT LTD |
| 211 | U51909DL2004PTC126939 | ALLIANCE COMSYS MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 212 | U26101DL1981PTC012407 | S K GLASS INDUSTRIES PRIVATE LTD |
| 213 | U51109DL1989PLC038209 | CAMA ENTERPRISES LIMITED |
| 214 | U74899DL1981PTC012184 | LALS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 215 | U45400DL2007PTC171199 | DUROTECH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 216 | U72900DL2000PTC104939 | NETXITE INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 217 | U74899DL1992PTC048829 | CONNAUGHT TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 218 | U51909DL1998PTC097068 | MOURVI IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 219 | U51909DL1992PTC051348 | ANTIQUE EXPORT IMPORT PRIVATE LIMITED |
| 220 | U74140DL1997PTC088192 | TEMPUL AND BANF ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 221 | U74140DL2004PTC128554 | RAC INDIA PRIVATE LIMITED |
| 222 | U74140DL2003PTC119171 | STRATEGIC VALUE CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 223 | U18101DL1984PTC017633 | MONGA TEXTILES PRIVATE LIMITED |
| 224 | U72900DL2007PTC158574 | SUMOR ETECH PRIVATE LIMITED |
| 225 | U45201DL1989PLC037804 | GARDEN FARMS AND RESORTS LIMITED |
| 226 | U27203HR1993PLC032059 | LAXMI ALUMINIUM LIMITED |
| 227 | U72900DL2000PTC106649 | E-INFRASTRUCTURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED. |
| 228 | U45201DL2003PTC122632 | SANGAM BUILDCON PRIVATE LIMITED |
| 229 | U67120DL1993PTC052299 | BMT PORTFOLIO MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
| 230 | U74899DL2005PTC140625 | EMBEDDED INFO DEVICES PRIVATE LIMITED |
| 231 | U72200DL2001PTC111162 | HARNESS OVERSEAS E-TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 232 | U55101DL2002PTC117620 | V.S. RESTAURANTS PRIVATE LIMITED |
| 233 | U51909DL1996PTC075904 | RAJKUMAR (GANGA RAM & SONS) PRIVATE LIMITED |
| 234 | U51909DL2005PTC139772 | MUTUAL MERCHANDISING PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 235 | U65992DL1987PTC027427 | BOBAL CHITS PRIVATE LIMITED |
| 236 | U74899DL1991PTC043719 | G M SUPPLIERS PRIVATE LIMITED |
| 237 | U22110DL2004PTC131568 | PANDECT PUBLICATION PRIVATE LIMITED |
| 238 | U51397DL2002PTC116510 | SAMDRISHTI TRADING PRIVATE LIMITED |
| 239 | U18101DL2004PTC128933 | SARITA GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 240 | U18101DL2002PTC116579 | GAY TEX STYLES PRIVATE LIMITED |
| 241 | U24239DL2004PTC124296 | NEO BIOCELL PRIVATE LIMITED |
| 242 | U74899DL1973PTC006606 | CENTURY EXPORTERS AND ENGINEERING CO PVT LTD |
| 243 | U72900DL1999PTC100613 | AAKANSHA GRAPHICS PRIVATE LIMITED |
| 244 | U63040DL2003PTC123204 | SAPPHIRE TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 245 | U67190DL1995PTC071435 | JABBI INVESTMENT AND PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 246 | U74140DL2004PTC125087 | ASA CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 247 | U51909DL2002PTC116888 | PJP MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 248 | U74140DL1997PTC087822 | POSSIBILITIES CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 249 | U74999DL2003PTC119111 | PERFECT BODY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 250 | U19202HR2007PTC036604 | ARMAAN FOOTWEAR PRIVATE LIMITED |
| 251 | U51909DL2003PTC123524 | TRUEBELL DUTY FREE OPERATORS PRIVATE LIMITED |
| 252 | U74300DL2003PTC120580 | BENIX MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 253 | U72900DL2000PTC104138 | WEBCITY INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 254 | U72100DL1998PTC096442 | ROBOT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 255 | U45201DL2005PTC140553 | GUGGAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED |
| 256 | U74210DL1998PTC097586 | FUTURE TECH SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 257 | U65992DL1991PTC042823 | FILMISTAN CHITS PVT. LTD. |
| 258 | U55101DL2005PTC132150 | TODAY HOTELS (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED |
| 259 | U70701HR1995PLC032556 | U GROW FARM FORESTRY LIMITED |
| 260 | U74899DL1994PTC057065 | OLD GOLD OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 261 | U74899DL1986PTC023382 | AGRISH TRADING AND HOLDING PRIVATE LTD |
| 262 | U45201DL2002PTC113847 | INDER SINGH DHARAMVIR SINGH ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 263 | U25202DL2005PTC133754 | ANGAD PACKAGING PRIVATE LIMITED |
| 264 | U22110DL1987PTC029273 | TARUN OFFSET PRIVATE LIMITED |
| 265 | U85110DL1996PLC075779 | AL-FALAH ENERGIES LIMITED |
| 266 | U45201DL1998PTC096313 | HAWK CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 267 | U72900DL2004PTC130116 | ELYSIAN E-COM PRIVATE LIMITED |
| 268 | U22219DL2003PTC118406 | ICP PUBLISHERS PRIVATE LIMITED |
| 269 | U45201DL2005PTC138949 | PERFECTIONS REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 270 | U45200DL2007PTC171649 | GOLD TOUCH DEVELOPERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 271 | U65910DL1995PTC067937 | ESTEEM FINEX PRIVATE LIMITED |
| 272 | U18101DL2003PTC119352 | MONARCH CRAFTS EXPO PRIVATE LIMITED |
| 273 | U72200DL2002PTC113709 | CONTEL INFOMATICS PRIVATE LIMITED |
| 274 | U74899DL1995PLC074094 | VARUN FINCAP LIMITED |
| 275 | U36101DL2001PTC110899 | MUKHRAM TEWATIA ASSOCIATES PVT LTD |
| 276 | U15139HR1986PTC024510 | PACHRANGA FOODS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 277 | U74899DL2001PLC109169 | GLOCOM INFOTECH LIMITED |
| 278 | U24111DL1999PTC100280 | OXYGENCIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 279 | U74140DL2004PTC129506 | RANGE HR SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 280 | U45400DL2007PTC169115 | SUNFLOWER INFRACON PRIVATE LIMITED |
| 281 | U74140DL2002PTC118200 | SOPA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 282 | U27109DL1988PTC030764 | TEXO STEEL PRIVATE LIMITED |
| 283 | U64200DL1997PTC087181 | CENTURY NETWORK PRIVATE LIMITED |
| 284 | U55101HR1990PTC030871 | SHIVA STAY INN PVT.LTD. |
| 285 | U18101DL2006PTC150835 | DO BHAI GARMENTS PRIVATE LIMITED. |
| 286 | U21014DL2005PTC139230 | SHRI ONKARESHWAR PACKAGING PRIVATE LIMITED |
| 287 | U72300DL2006PTC145659 | S.S. INFOVISION PRIVATE LIMITED |
| 288 | U65992DL1989PTC035292 | GOOD FORTUNE CHITS PRIVATE LIMITED |
| 289 | U85100DL2007PTC170774 | KK HEALTHTECH PRIVATE LIMITED |
| 290 | U31109DL2000PTC106214 | SHARCO MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 291 | U51311DL2005PTC138355 | LEHAK KIDS FASHIONS PRIVATE LIMITED |
| 292 | U74899DL1988PTC032236 | ANJALI EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 293 | U11102DL2001PTC111579 | GEO-SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 294 | U72900DL2000PTC104115 | MB TRAVELINDIA COM PRIVATE LIMITED |
| 295 | U72200DL2002PTC115362 | C I INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 296 | U74899DL1984PTC018896 | SANJAY AGENCY PRIVATE LIMITED |
| 297 | U74899DL1947PLC001281 | SARVDESHIK PRAKASHAN LIMITED |
| 298 | U72900DL2000PTC105938 | KOHLEES CYBER PRIVATE LIMITED |
| 299 | U65992HR1993PTC032005 | GOLDEN FORTUNE CHITS PVT LTD |
| 300 | U74140DL2008PTC173421 | PLANET LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 301 | U74899DL1994PTC061508 | FILTECH INDIA PRIVATE LIMITED |
| 302 | U55101DL1997PTC089860 | BELGRAVE HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 303 | U18101DL2004PTC124488 | SHAMA TEXTILES PRIVATE LIMITED |
| 304 | U74900DL1998PTC092057 | L.N. MATTA AND SONS PRIVATE LIMITED |
| 305 | U45200DL2007PTC157479 | KARMA SANITARYWARE PRIVATE LIMITED |
| 306 | U65992DL1987PTC029539 | SPEEDAGE CHITS PRIVATE LIMITED |
| 307 | U02005DL1997PTC091413 | PROMIT IRRIGATION PRIVATE LIMITED |
| 308 | U74899DL1999PTC102433 | ARUNA SOFT INTERNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 309 | U72200DL1999PTC098683 | SUVANI MEDICAL TRANSCRIPTION PRIVATE LIMITED |
| 310 | U99999DL1991PTC045514 | PEARL CEMENTS PRIVATE LIMITED |
| 311 | U35923DL1989PTC036152 | B. A. AUTO INDUSTRY PRIVATE LIMITED |
| 312 | U34101DL1999PTC102394 | CHADHA EARTH MOVERRS PRIVATE LIMITED |
| 313 | U74899DL1994PTC058662 | SILVERCOIN FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED |
| 314 | U74899DL1989PTC037467 | VRINDA OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 315 | U74300DL2003PTC120329 | ULTIMATE DISPLAY SIGNS PRIVATE LIMITED |
| 316 | U55101DL2006PTC155193 | SKYLARK HOTELIERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 317 | U31909DL1999PTC101741 | VINAYAK LIGHTING PRIVATE LIMITED |
| 318 | U72900DL2000PTC105093 | Y R SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 319 | U15116DL1989PTC035516 | EATWELL PROCESSED FOODS PRIVATE LIMITED |
| 320 | U74210DL1989PTC035070 | N. ARCHITECTS COLLEGIUM PRIVATE LTD |
| 321 | U74899DL1994PTC063725 | SWAGAT CONSULTANTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 322 | U15209DL2000PTC104300 | DAILY AGRO MILK FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED. |
| 323 | U74899DL1988PTC030230 | TAYAL INVESTMENT AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 324 | U72200DL2000PTC108259 | RADHA KRISHANS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED. |
| 325 | U29197DL1986PTC025830 | MICRON FILTRATION AND SEPARATION PRIVATE LIMITED |
| 326 | U72200DL2008PTC175617 | OPHIR INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 327 | U29199DL2004PTC125329 | ONYX GRAVURE PRIVATE LIMITED |
| 328 | U18101DL2004PTC124053 | TOTAL CLOTHING PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 329 | U74899DL2000PLC107341 | COMBINED COURCARGO EXPRESS LIMITED COMB |
| 330 | U18109DL2006PTC154508 | ASTRAL COLLECTIONS PVT. LTD. |
| 331 | U61100DL1980PLC010699 | WORLDWIDE HEAVY LIFT SHIPPING LTD |
| 332 | U70109DL2006PTC150180 | A.K.M. BUILDTECH PRIVATE LIMITED. |
| 333 | U65910DL1997PTC084865 | S R RESTURANT PRIVATE LIMITED |
| 334 | U45201DL2006PTC146071 | ARNAV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 335 | U45201DL2001PLC111912 | LIVING ENVIRONS LTD. |
| 336 | U51909DL1998PTC096591 | WATPUREK SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 337 | U74899DL1995PTC073875 | RUSAGRO FERTILIZERS PRIVATE LIMITED |
| 338 | U74899DL1989PTC037475 | INDRAPRASTHA FABRICS PRIVATE LIMITED |
| 339 | U45201DL2006PTC146072 | AVYAY BUILDCON PRIVATE LIMITED |
| 340 | U24223DL2000PTC108276 | FILTEK SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 341 | U24231DL2002PTC117369 | VRITISH PROSTHESIA AND IMPLANTS PRIVATE LIMITED |
| 342 | U45201DL2000PTC103519 | KALU RAM CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 343 | U74899DL1995PLC065547 | SINHA BULK SHIPPING LIMITED |
| 344 | U45201DL2000PTC108932 | ROAD BUILDER (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 345 | U63023DL2005PTC138554 | BHATIA LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
| 346 | U74899DL2000PTC108791 | APEX POWERTRONIC PRIVATE LIMITED |
| 347 | U74899DL1982PTC013095 | BHOOMIKA TRAVELS AND AIR FREIFHT PRIVATE LIMITED |
| 348 | U74899DL1995PTC072056 | DHILLON AGENCY AND SALES PRIVATE LIMITED |
| 349 | U72900DL2000PTC104581 | ZENAX TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 350 | U40105DL2006PTC154630 | SOLARMAN ENERGY PRIVATE LIMITED |
| 351 | U62100DL2001PTC110860 | PEARL AVIATIONS PRIVATE LIMITED |
| 352 | U51103DL1997PTC084902 | MCC TRADING PRIVATE LIMITED |
| 353 | U10200DL2005PTC136249 | COAL WASTE UTILISATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 354 | U74140DL2004PTC127474 | FRIN ECOTECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
| 355 | U18101DL2005PTC138768 | SASA FASHION ACCESSORIES PRIVATE LIMITED |
| 356 | U72300DL2007PTC162693 | JINI DATA SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 357 | U70101DL2005ULT139541 | MAAJI PROPERTIES AND DEVELOPMENT COMPANY(PVT.CO.WITH ULT LIAB) |
| 358 | U72200DL2005PTC131828 | STANDARD INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 359 | U85121DL2006PTC152353 | NV HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 360 | U74899DL1988PTC032533 | TVK MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 361 | U63013DL1999PTC101044 | PIONEER MOVERS (PVT.) LTD. |
| 362 | U74994DL2005PTC135574 | CHRISTOPHER HOME INTERIORS PRIVATE LIMITED |
| 363 | U24100DL1993PTC053205 | HARYANA COLOURS PRIVATE LIMITED |
| 364 | U51909DL2004PTC125304 | NEELAM IMPORT PRIVATE LIMITED |
| 365 | U80302DL2003PTC121477 | SHASWAT HI-TECH EDUCATION AND PUBLICATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 366 | U34300DL2004PTC129564 | SANE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED |
| 367 | U74899DL1990PTC041525 | AMBALIKA CHITS PRIVATE LIMITED |
| 368 | U23202DL1995PLC073471 | SYNTHEL PARAFFINS (INDIA) LIMITED |
| 369 | U74999DL1996PLC081816 | F M INDIA LIMITED |
| 370 | U74899DL1993PTC056267 | UNIQUE STICKERS PRIVATE LIMITED |
| 371 | U31101DL2006PTC145176 | COBELL POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 372 | U65910DL1996PTC080452 | SUKRIT FINLEASE PRIVATE LIMITED |
| 373 | U45200DL2006PTC155042 | SHAGOON COLONIZERS PRIVATE LIMITED |
| 374 | U19209DL2000PTC104928 | GSR FASHIONS PRIVATE LIMITED |
| 375 | U45201DL2003PTC123648 | MILLENNIUM BUILTWEI PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 376 | U11103DL2006PTC152256 | DAMODARJEE PETRO-CHEM PRIVATE LIMITED |
| 377 | U74899DL1994PTC060546 | MOHINDRA FABRICS PRIVATE LIMITED |
| 378 | U00000DL2001PTC109959 | NAJI AEROTECHNICS PRIVATE LIMITED |
| 379 | U15543DL1997PTC085567 | ALWAR BOTTLERS PRIVATE LIMITED |
| 380 | U74899DL1993PTC056622 | OMNITECH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 381 | U25202HR2006PTC036072 | TOKASH PACKERS AND MOVERS PRIVATE LIMITED |
| 382 | U18109DL2006PTC152176 | ADVANCE FASHIONS PRIVATE LIMITED. |
| 383 | U18101DL1992PTC050413 | MOHINDRA THREADS PRIVATE LIMITED |
| 384 | U00000DL2000PTC108948 | S T TOURS PRIVATE LIMITED |
| 385 | U45200DL2005PTC143012 | PATRIOT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 386 | U31200DL2005PTC139130 | HNR ELECTRICALS PRIVATE LIMITED |
| 387 | U51398DL2004PTC127426 | HINDI STONE INDIA PRIVATE LIMITED |
| 388 | U74140DL2003PTC120994 | SYROX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 389 | U70102DL2006PTC153923 | UNI TECHNOGRID CONTRACTS PRIVATE LIMITED |
| 390 | U17200DL2008PTC172294 | CAPITAL CREATIONS PRIVATE LIMITED |
| 391 | U72200DL1997PTC088695 | OP/PEN IMAGE LABS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 392 | U45400DL2007PTC170044 | ALKHNANDA AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
| 393 | U74899DL1991PTC045686 | SUNRAY FINANCE AND MERCANTILE SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 394 | U31109DL1994PTC058857 | M.K. BATTERY PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 395 | U93091DL2006PTC152301 | INFAR SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 396 | U63090DL2007PTC165435 | TB TOURISM PRIVATE LIMITED |
| 397 | U00304HR2005PTC035850 | RUBIC HERBOTECH PRIVATE LIMITED |
| 398 | U17118DL2004PTC130440 | H M SPINNERS PRIVATE LIMITED |
| 399 | U15122DL2007PTC167652 | BLUE ANGEL INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 400 | U63090DL2001PTC113193 | SARVAHANA ROAD LINES PRIVATE LIMITED |
| 401 | U74300DL2006PTC154023 | BLACK ROCK MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 402 | U99999DL1985PTC022343 | OCHANNEY INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED |
| 403 | U72900DL2006PTC153986 | BLUE PHOENIX ADVISORS SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 404 | U74899DL1989PTC035650 | MIRACLE CHIT PRIVATE LIMITED |
| 405 | U55101DL2006PTC154931 | WHITE KNIGHT TOURISM PRIVATE LIMITED |
| 406 | U18101DL1997PTC086945 | MUKTA APPARELS PRIVATE LIMITED |
| 407 | U74140DL2002PTC117904 | TOTAL CLARITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 408 | U72300DL2006PTC153288 | TECHTRIBENETWORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED. |
| 409 | U63040DL2004PTC131583 | B.R. ADVERTISING PRIVATE LIMITED |
| 410 | U51909DL1995PTC068219 | VATAYAN OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 411 | U74899DL1989PTC035191 | NEERAJ PAINTS AND ORGANIC PRIVATE LIMITED |
| 412 | U15419DL2004PTC124625 | RSVP FOODS PRIVATE LIMITED |
| 413 | U72200DL2004PTC126475 | TOUCHSTONE INNOVATIVE LEARNING PRIVATE LIMITED |
| 414 | U32101DL2006PTC144926 | PANKAJ ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 415 | U45201DL1997PTC084532 | SHREE MATA WIG BROTHERS (C&E) PRIVATE LIMITED |
| 416 | U45200DL2006PTC156098 | UDDISH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 417 | U63040DL2007PTC164803 | U FLY TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 418 | U18101DL2003PTC119347 | NAMAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 419 | U63033DL2003PTC119542 | VINNE AIR SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 420 | U72900DL2008PTC172951 | COMPILER INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 421 | U51103DL2007PTC163435 | PEETAMBRA POWERGEN PRIVATE LIMITED |
| 422 | U65992DL2003PTC118347 | BALYAN CHIT FUND PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 423 | U65922HR1994PLC032480 | STHANESWAR MAHADEV FINANCE AND INVESTMENTS LTD. |
| 424 | U74899DL2001PTC109482 | SURAV EXIM PRIVATE LIMITED |
| 425 | U72900DL1991PTC045037 | SABHARWAL SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 426 | U63040DL2001PTC111335 | VAGRANT ADVENTURES PRIVATE LIMITED |
| 427 | U51109DL2000PTC107808 | DLK MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 428 | U52322DL2006PTC156187 | LOOM N CRAFTS EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 429 | U72900DL2003PTC123113 | DEUS INFOCOM PRIVATE LIMITED |
| 430 | U65992HR1992PTC031776 | A.H.D. CHITS PRIVATE LIMITED |
| 431 | U01112HR1988PTC030211 | SUMITRA FEEDS PRIVATE LIMITED |
| 432 | U65929DL1995PTC065122 | SAI PRIYA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 433 | U65921DL1985PTC019908 | BONY FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 434 | U65919DL1994PLC059157 | A.D.D.S. GENERAL FINANCE AND INVESTMENT LIMITED |
| 435 | U80301DL2007PTC164560 | FORTIORA SCHOOL OF XCELLENCE PRIVATE LIMITED |
| 436 | U74899DL2006PTC146405 | R V V IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 437 | U31909DL1995PTC069464 | A.P.S. ELECTRICALS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED |
| 438 | U64202DL2002PTC116084 | WANTECH BROADBAND PRIVATE LIMITED |
| 439 | U74899DL1995PTC073594 | SAPRA FINLEASE AND SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 440 | U74899DL1992PTC050109 | MONEYTECH FINANCIAL OBSERVER PRIVATE LIMITED |
| 441 | U27104DL2005PTC138548 | SANTRAM STEEL FABRICATORS PRIVATE LIMITED |
| 442 | U74140DL2005PTC142790 | NEW FIELDS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 443 | U19201DL2004PTC124554 | S R L T SHOETECH PRIVATE LIMITED |
| 444 | U67190DL2006PTC154553 | EXCELLENCE MANAGEMENT CONSULTANT PRIVATE LIMITED |
| 445 | U45201DL2001PTC109247 | ML GARMENT EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 446 | U15499DL2003PTC121782 | ZING FOODS PRIVATE LIMITED |
| 447 | U31101DL2006PTC148575 | PIONEER SEMI CONDUCTORS PRIVATE LIMITED. |
| 448 | U74900DL2007PTC165013 | TNP REALCON ADVIZAREE PRIVATE LIMITED |
| 449 | U74899DL1989PTC036866 | HARIT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 450 | U51909DL2005PTC136977 | MANIBHADRA EXIM PRIVATE LIMITED |
| 451 | U74999DL2003PTC119276 | TSI AVIATION PRIVATE LIMITED |
| 452 | U45400DL2007PTC171285 | QUEST COMPUSOFT PRIVATE LIMITED |
| 453 | U74140DL1972PTC006150 | FINANCE & MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 454 | U99999DL1979PTC010101 | ACUMEN DIAMOND TOOLS PRIVATE LTD |
| 455 | U24232DL1992PLC049129 | ROSTEM PHARMACEUTICALS LIMITED |
| 456 | U00099DL2005PTC135239 | CLINTUS FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 457 | U24211DL1989PTC036149 | PESTOKEM MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 458 | U72300DL2007PTC164424 | UVACA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 459 | U24119DL2004PTC126882 | KATYAL CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 460 | U74899DL2002PTC114570 | MULTI OPEX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 461 | U74899DL2001PTC110755 | FIRST BITE FOODS PVT LTD |
| 462 | U74140DL2008PTC175712 | COSMIC CREATIVE TECHNOLOGY & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 463 | U51101DL1996PTC077815 | MADAN EXIM PRIVATE LIMITED |
| 464 | U72300DL2006PTC155272 | ERP SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 465 | U99999DL1973PTC006588 | RAWLA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 466 | U12000DL2007PTC170497 | HIDDEN TREASURES MINING PRIVATE LIMITED |
| 467 | U67190DL1997PTC086322 | HARITASH CHITS PRIVATE LIMITED |
| 468 | U24239DL1999PTC102354 | ALBATROSS PHARMACETICALS PVT LTD |
| 469 | U25209DL1997PTC088387 | JAGSAN POLYMERS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 470 | U65910DL1997PLC089022 | SARA LEASING AND FINANCE LIMITED |
| 471 | U24247DL2004PTC131318 | MONIKA HERBS PRIVATE LIMITED |
| 472 | U93092DL2006PTC152483 | TREE PIE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 473 | U63040DL2000PTC107002 | SHASTRI TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED. |
| 474 | U65992DL1985PTC021592 | CONSULATE CHIT FUND PRIVATE LTD. |
| 475 | U51909DL2007PTC158099 | AUTOMATED PRECISION INDIA PRIVATE LIMITED |
| 476 | U30007DL1998PTC091837 | CRA OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 477 | U51909DL2003PTC121554 | VIGI IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 478 | U74899DL2003PTC122692 | K B SPUNTEX PRIVATE LIMITED |
| 479 | U74899DL1995PTC066853 | SURTANI FARMS AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 480 | U74899DL1991PTC043154 | SWIZZER APPLIANCES PRIVATE LIMITED |
| 481 | U11200DL2007PTC161390 | UPSTREAM ALLIANCE PRIVATE LIMITED |
| 482 | U70101DL1989PLC034886 | DURLABH HOUSING AND LEASING LIMITED |
| 483 | U23109DL2005PTC133162 | RAEKOT COAL COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 484 | U92199DL2004PTC131594 | CHAWLA BAND PRIVATE LIMITED |
| 485 | U74899DL1995PTC066008 | PRAKASH PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED |
| 486 | U74210DL1990PTC040018 | SITAC SERVICES ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
| 487 | U74140DL2004PTC124375 | AMBALIKA CONSULTANT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED. |
| 488 | U72900DL2006PTC149969 | INTELICORE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED. |
| 489 | U74899DL1990PTC042350 | MAGO FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED |
| 490 | U74140DL1997PTC085353 | R.K.P. MANAGEMENTS SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 491 | U45201DL2005PTC135026 | RAJHANS BUILD WELL PRIVATE LIMITED |
| 492 | U14101DL2007PTC171993 | VIGAYATA TRADING PRIVATE LIMITED |
| 493 | U36101DL2005PTC136610 | MARS FURNITURES PRIVATE LIMITED |
| 494 | U55101DL1987PTC028961 | PROFESSIONAL HOTELS PRIVATE LIMITED |
| 495 | U24116DL1996PTC081352 | GUJRAT KASMOCHEM PRIVATE LIMITED |
| 496 | U74899DL1999PTC100630 | DIVINE RUBBER PRIVATE LIMITED |
| 497 | U73100DL2007PTC169135 | SUN STAR REALTECH PRIVATE LIMITED |
| 498 | U28939DL2004PTC127148 | ANKUR TECHNOFAB PRIVATE LIMITED |
| 499 | U74899DL2005PTC141072 | ARROW DISTRIBUTION (CHANDIGARH) PRIVATE LIMITED |
| 500 | U74920DL2000PTC108968 | HORIZON SECURICOR (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 501 | U19201HR2006PTC036260 | LAKHANI FOOTWEAR AND ACCESORIES PRIVATE LIMITED. |
| 502 | U92120DL2007PTC159883 | RAS MOVIEZ & STORIEZ PRIVATE LIMITED |
| 503 | U72900DL2007PTC166778 | WEBNET COMPUSOFT PRIVATE LIMITED |
| 504 | U18101DL2003PTC123462 | SHREE BANKEY BIHARI FASHIONS PRIVATE LIMITED |
| 505 | U18109DL2007PTC164737 | G.K. WESTERN LIFESTYLE CLOTHIERS PRIVATE LIMITED |
| 506 | U74899DL1965PTC004333 | EACOM'S (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 507 | U18109DL2006PTC152564 | TRUE LIFE GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 508 | U51909DL2005PTC133068 | D&S FERROCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| 509 | U63040DL1997PTC089208 | NORTH-WEST EXPRESS PRIVATE LIMITED |
| 510 | U74899DL2005PTC137522 | B PANTENNAS PRIVATE LIMITED |
| 511 | U18204DL2007PTC162444 | NIDHI GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 512 | U51109HR2007PTC037331 | OCS MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 513 | U24233DL2006PLC150400 | INFY PHARMACEUTICALS LIMITED |
| 514 | U51909DL1999PTC100159 | KAISER OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 515 | U74140DL2004PTC126040 | ORRERY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 516 | U74140HR2007PTC037471 | AJOUR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 517 | U31909DL1999PTC102492 | SUN INDIA AIRCON PRIVATE LIMITED. |
| 518 | U74899DL1987PTC028468 | CONCEPTS DATA MANAGEMENT PRIVATE LTD |
| 519 | U45400DL2007PTC168963 | BRIGHTFATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 520 | U72200DL2000PTC105929 | ZINGINGDOT COM PRIVATE LIMITED |
| 521 | U72300HR2008PTC037739 | SWIFT CYBER TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 522 | U85110DL1996PTC082927 | MAMTA MEDICARE PRIVATE LIMITED |
| 523 | U72900DL2007PTC170262 | SHARP SOFTTECH PRIVATE LIMITED |
| 524 | U74140DL2006PTC154787 | G M CORPORATE INFO.COM PRIVATE LIMITED |
| 525 | U15500DL1997PTC090749 | BHOM FOODS PRIVATE LIMITED |
| 526 | U72300DL2008PTC173341 | EXPLORE COMPUTECH PRIVATE LIMITED |
| 527 | U22219DL2005PTC137016 | SS PRINTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 528 | U55101DL1989PTC037074 | FRIENDS HOLY RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 529 | U74899DL1983PTC017089 | JAYGUPT POLYMERS PRIVATE LIMITED |
| 530 | U74110HR2006PTC036424 | EOC MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 531 | U72900DL2000PTC106416 | FASHION ZEN.COM PRIVATE LIMITED |
| 532 | U70101DL1988PTC032886 | UNITED CI-CON INDIA PRIVATE LIMITED |
| 533 | U22110DL1997PTC090114 | ALPINE BOOKS PRIVATE LIMITED |
| 534 | U65191DL1991PLC043511 | BHAVRAJ FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| 535 | U74899DL1994PTC057171 | SHREE SATYAN SHAKTI FOODS PRIVATE LIMITED |
| 536 | U72200DL2001PTC113216 | DEV GENIE SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 537 | U65920DL1995PTC072031 | RCS HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
| 538 | U17111DL2005PTC137001 | CATECHITS BUILDMART PRIVATE LIMITED. |
| 539 | U51909DL2004PTC126089 | HV MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 540 | U20296DL2007PTC168993 | GALAXY BRASS ART PRIVATE LIMITED |
| 541 | U74899DL1995PTC072357 | OMSON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 542 | U51397DL2002PTC115669 | BIMAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED |
| 543 | U74996DL2006PTC150285 | URMI DENT TRADING PRIVATE LIMITED. |
| 544 | U72300DL2004PTC127976 | BANDA DATA PROCESSORS PRIVATE LIMITED |
| 545 | U72900DL2000PTC106160 | SWARASHTRA INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 546 | U17115DL1998PTC095128 | ASHNEET EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 547 | U55101DL2006PTC154946 | SIGMA HOTELIERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 548 | U74999DL2000PTC103496 | JAIKALI MAA CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 549 | U74899DL1982PTC014424 | NIKAS COMMERCIAL BUSINESS PRIVATE LIMITED |
| 550 | U45400DL2008PTC172466 | ICE E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 551 | U74210DL2006PTC150086 | GOPAL KRISHAN ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED. |
| 552 | U74999DL2007PTC162701 | DURG BAMBOARD PRIVATE LIMITED |
| 553 | U22110DL1993PTC051591 | SUCCESS BOOKS AND IMAGES PRIVATE LIMITED |
| 554 | U99999DL1979PTC009959 | RAKSHAK CHITS PRIVATE LIMITED |
| 555 | U02001DL1999PLC098058 | VASUNDHRA AGFO (INDIA) LIMITED |
| 556 | U74300DL2004PTC126940 | DYNAMIT COMMUNICATION PRIVATE LIMITED |
| 557 | U32106DL2007PTC159784 | MITTAL ELECTROCON PRIVATE LIMITED |
| 558 | U27209DL1986PTC026039 | SHREE MAHAVIR CHEM PRIVATE LIMITED |
| 559 | U72300DL2006PTC154976 | CIPHAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED |
| 560 | U74899DL1996PTC077308 | JAI AMBEY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 561 | U74999DL2003PTC118728 | PERFECT ROAD SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 562 | U18101DL2004PTC128940 | SAKSHI GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 563 | U60231DL2000PTC103320 | ROOPAM FREIGHTWAYS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 564 | U64202HR2006PTC036426 | BLUESTAR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 565 | U74900DL1996PTC080818 | DRG SECURITIES & FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 566 | U45400HR2007PTC037037 | GOLDCREST TOWERS PRIVATE LIMITED |
| 567 | U92111DL2003PTC123756 | MASS MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED |
| 568 | U28112DL2007PTC160715 | KANHA PRECISION TOOLS PRIVATE LIMITED |
| 569 | U74899DL1993PTC054718 | WHITE HAWK TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 570 | U55101DL1997PLC090149 | VAISHALI SPRING MEADOWS LIMITED |
| 571 | U72200DL2004PTC130544 | IRV COMPUSOFT PRIVATE LIMITED |
| 572 | U65992HR2000PTC034404 | RIGHT CHOICE CHITS PRIVATE LIMITED |
| 573 | U85110DL2005PTC137865 | SUSRUTA HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 574 | U65992DL1982PTC013106 | BINDRA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 575 | U65929DL1994PLC063250 | BHAVRAJ FINLEASE LIMITED |
| 576 | U74899DL1987PTC027487 | NIVRITTI ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 577 | U65921DL1995PTC074156 | TOFHA FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 578 | U45201DL2005PTC138300 | LION BUILDWELL PRIVATE LIMITED |
| 579 | U34103DL2006PTC150246 | BHASIN VEHICLES PRIVATE LIMITED |
| 580 | U67120DL1995PTC069066 | SHIVANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 581 | U74899DL1992PTC047006 | SHREE SHITAL CHITS PRIVATE LIMITED |
| 582 | U25190HR2007PTC036759 | ARMAAN RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 583 | U25517HR2006PTC036308 | ARMAAN SHOES PRIVATE LIMITED. |
| 584 | U74899DL2001PTC109117 | DUTT AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 585 | U70101DL2005PTC139444 | HIGHTIME BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 586 | U72200DL2006PTC156849 | ND INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 587 | U18101DL2007PTC169998 | NAVYUG FASHIONS PRIVATE LIMITED |
| 588 | U51909DL2003PTC118724 | HEENA TELE COMMUNICATION PRIVATE LIMITED |
| 589 | U51109DL2000PTC104868 | PRECIOUS EXIM PRIVATE LIMITED |
| 590 | U29191DL1998PTC097710 | SEASONMAKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 591 | U74899DL1980PTC010187 | AKAR PRIVATE LIMITED |
| 592 | U74899DL1988PTC031187 | SHUCHI BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 593 | U70101DL1995PTC073982 | GAJA HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
| 594 | U19200HR2007PTC036767 | LAKHANI ARMAAN FOOTWEAR PRIVATE LIMITED |
| 595 | U72200DL1998PTC096309 | SURYAMA NET SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 596 | U55101DL1998PTC093217 | BIST HOTELS PRIVATE LIMITED |
| 597 | U30007DL1998PTC092079 | BRAVO COMPAQ SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 598 | U72900DL1997PTC086674 | SYSTEMATICS TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED |
| 599 | U22110DL1998PTC094481 | HIMALAYAN INSTITUTE BOOKS AND PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 600 | U74899DL2001PTC112314 | ELABS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 601 | U55101DL2002PTC117554 | FIRST QUALITY HOSPITALITY PVT. LTD. |
| 602 | U18101DL1996PTC078196 | GRASS APPARELS PRIVATE LIMITED |
| 603 | U32109DL1993PTC055162 | ADVANCED TECHNO PRODUCT PRIVATE LIMITED |
| 604 | U85120DL2005PTC142647 | EURO DENTAL LAB PRIVATE LIMITED |
| 605 | U40106DL2006PTC155891 | VITAL SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED. |
| 606 | U74900DL1998PTC094147 | LOTUS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 607 | U63013DL2003PTC122990 | SKYSHIP CONTAINERS PRIVATE LIMITED |
| 608 | U34300DL2003PTC119473 | PARAK AUTO-ON PRIVATE LIMITED |
| 609 | U45202DL1997PTC085486 | CHHAVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 610 | U72200DL2005PTC133881 | SAGA INFOTECH PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 611 | U70109DL2006PTC152055 | KAMAL LAKSMI BUILDWELL PRIVATE LIMITED |
| 612 | U65992HR1989PTC030564 | DUOTONE CHITS PVT. LTD. |
| 613 | U85193DL2006PTC152409 | AVIKA HOMEOPHARMA PRIVATE LIMITED |
| 614 | U74999DL2003PTC119903 | B R AQUA SHIPPING PRIVATE LIMITED |
| 615 | U65992DL1990PTC038777 | SAJJAN CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 616 | U18204DL2006PTC156717 | VAIBHAVI MANUFACTURING PRIVATE LIMITED |
| 617 | U67190DL1996PTC080630 | PREETI PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED |
| 618 | U32109DL1998PTC094952 | NETWORK INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 619 | U00092DL2005PTC138712 | BUDHA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 620 | U72900DL2006PTC152379 | RADIANT TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED |
| 621 | U72900DL2002PTC115304 | BRAHMA COMPUTERS PRIVATE LIMITED |
| 622 | U74899DL1993PTC054723 | METALITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
| 623 | U72900DL2002PTC116528 | S.K. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 624 | U14219DL2001PTC113612 | MINING AND ENGINEERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO. PVT LTD |
| 625 | U45400DL2007PTC168308 | DAFFODIL INFRACON PRIVATE LIMITED |
| 626 | U74899DL2000PTC105930 | BRANDTELLER DOT COM PRIVATE LIMITED |
| 627 | U45200DL2007PTC158223 | SMS INNOVATIVE ARCHITECTURE PRIVATE LIMITED |
| 628 | U45201DL1997PTC090658 | D.I. DESIGNERS & BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 629 | U51909HR2004PTC035373 | CROSS-JUNCTION EXHIBITORS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 630 | U36999DL2007PTC158331 | SZL SAFEGUARDS PRIVATE LIMITED |
| 631 | U26100DL2007PTC170411 | T.A. GLASS PROCESSING & PLYWOOD PRIVATE LIMITED. |
| 632 | U55201DL2004PTC125046 | PARANTHAWALA RESTAURANT PRIVATE LIMITED |
| 633 | U74300DL1988PTC034327 | WAVES COMMUNICATION PRIVATE LIMITED |
| 634 | U29299DL2007PTC169255 | SEVEN SEAS AUTO PRIVATE LIMITED |
| 635 | U36911DL1999PTC098595 | LA PEERS JEWELS PRIVATE LIMITED |
| 636 | U72200DL1998PTC096752 | RAVVIN SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
| 637 | U72200DL2005PTC136293 | PLAZA INFOSYSTEM PRIVATE LIMITED |
| 638 | U22110DL2005PTC138673 | OPTIMA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 639 | U67120DL2006PTC144615 | STRATEGIC RISK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 640 | U72900DL2003PTC122066 | NASCENT INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 641 | U72300DL2007PTC166586 | OLABZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 642 | U72900DL2004PTC124606 | AGRATAA INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 643 | U18101DL1997PTC086252 | CHITRA SAREES PRIVATE LIMITED |
| 644 | U64203DL2007PTC159892 | THURAYA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 645 | U72200DL2005PTC133536 | NETZONE INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 646 | U27101DL1994PTC057953 | BIRENDRA SINGH AND CO. PRIVATE LIMITED |
| 647 | U74899DL1995PTC073928 | AMBA INTERIORS PRIVATE LIMITED |
| 648 | U51109DL1996PTC082214 | VG AGENCIES PRIVATE LIMITED |
| 649 | U99999DL1991PTC042774 | TOPLINE POWER EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
| 650 | U65992HR1998PTC033981 | FAST GROWTH CHITS PRIVATE LIMITED |
| 651 | U74899DL2000PTC106700 | PYRAMID PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 652 | U51909DL2007PTC170131 | NEEL GAGAN EXIM PRIVATE LIMITED |
| 653 | U52190DL2001PTC110494 | EXHILARON OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 654 | U18101DL2005PTC136130 | SHIV RAMA DESIGNS PRIVATE LIMITED |
| 655 | U92199DL2002PTC117578 | FUN FAIR AMUSEMENTS PRIVATE LIMITED |
| 656 | U36996DL2007PTC158940 | D.K.K. JEWELLERS PRIVATE LIMITED |
| 657 | U01135DL1992PTC047286 | VIPUL CREATIONS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 658 | U27209DL2007PTC169224 | MUSKAN BRASS ART PRIVATE LIMITED |
| 659 | U45201DL1993PTC055929 | CORE ESTATES & RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 660 | U74899DL1986PTC025404 | ANUBHAV ADVERTISING CONSULTANTS PVT LTD |
| 661 | U45201DL2003PTC119844 | CHOPRA REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 662 | U18109DL2006PTC154064 | NEW ERA TEXTFAB PRIVATE LIMITED |
| 663 | U55204DL2006PTC149790 | AVM CATERERS PRIVATED LIMITED |
| 664 | U29191DL2004PTC124742 | RSB AIR SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 665 | U74899DL1994PTC063770 | MUTUAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 666 | U55101DL2005PTC142049 | KUMAR MOTELS PRIVATE LIMITED |
| 667 | U18101DL2005PTC136425 | DURGA WEAR PRIVATE LIMITED |
| 668 | U65923DL1996PTC076141 | NEWAGE FINSEC PRIVATE LIMITED |
| 669 | U51909DL2005PTC133423 | PYRAMID EXIM PRIVATE LIMITED |
| 670 | U74899DL2000PTC107550 | AAKASH PLANNERS PRIVATE LIMITED |
| 671 | U72300DL2008PTC174505 | M.J. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 672 | U93090DL2006PTC151769 | AARWIND ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED |
| 673 | U01111DL1996PLC080764 | KRISHAK AUDHODDIK VIKAS LIMITED |
| 674 | U72900HR2002PTC034919 | SIXFOLD SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 675 | U18109DL2006PTC151936 | NEW LIGHT GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 676 | U85110DL1988PTC031931 | ADVANCED INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED |
| 677 | U52100DL2007PTC163592 | QBE MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 678 | U51909DL2005PTC140136 | METACARE EXIM PRIVATE LIMITED |
| 679 | U51909DL2002PTC116243 | ROYAL LIFE MULTI MARKETING AND CONSULTANT PRIVATE LIMITED |
| 680 | U45201DL2006PTC147373 | SANGRAH BUILD TECH PRIVATE LIMITED |
| 681 | U16002DL2004PTC126724 | NAGPAL TOBACCO PRIVATE LIMITED. |
| 682 | U70200DL1986PTC023227 | V.K. PLANTATIONS PRIVATE LIMITED |
| 683 | U67190DL1995PLC066745 | BHAVRAJ INFOSYS LIMITED |
| 684 | U55109DL2004PLC126132 | CONVENTION INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED |
| 685 | U51909DL2003PTC123054 | VEXIL IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 686 | U45202DL1999PTC102536 | PANESAR CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED. |
| 687 | U33205DL1993PTC055267 | SHITIJ FILMS PRIVATE LIMITED |
| 688 | U17200DL1998PTC092872 | SHREE RAM VANUJA POLYTEX PRIVATE LIMITED |
| 689 | U85110DL2003PTC119567 | WIN-TECHNOW NETWORK PRIVATE LIMITED |
| 690 | U45201DL1997PTC090717 | AMM CONSTRUCTIONAND ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
| 691 | U51432DL2001PTC111145 | AURA SALES PVT LTD |
| 692 | U74900DL1996PTC078135 | RIGHT SERVICES AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 693 | U45203DL1996PTC082767 | CORONATION PROJECTS PRIVATE LIMITED |
| 694 | U65910DL2007PTC164104 | FINMARC FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED |
| 695 | U45201DL1989PTC034609 | DHAWAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 696 | U74120DL2008PTC173377 | M & D SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 697 | U74300DL2008PTC175666 | KONCLAVE MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 698 | U30007DL1997PTC084646 | ALGORITHM INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 699 | U51224DL2003PTC118933 | PADMAVATI EXIM PRIVATE LIMITED |
| 700 | U74999DL1998PTC096676 | EDEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 701 | U72900DL2006PTC156103 | ADI COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 702 | U72300DL2008PTC175325 | BYTES AND BRAINS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 703 | U24248DL2007PTC170843 | STRONG SMELL AGARBATTI WORKS PRIVATE LIMITED. |
| 704 | U99999DL1997PTC084671 | DM ESTATES PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 705 | U32109DL2005PTC139649 | CANARY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 706 | U60231DL2007PTC169430 | JCM LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
| 707 | U72501DL1996PTC083568 | AFFINITY COMPUTERS PRIVATE LIMITED |
| 708 | U51909DL2005PTC135703 | SURMOUNT IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 709 | U72900DL2007PTC164568 | DKP INFO SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 710 | U51909DL2005PTC144034 | LAVISH MERCHANDISE PRIVATE LIMITED |
| 711 | U63040DL2002PTC117292 | WILD INDIA TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 712 | U74140DL2005PTC134621 | TROJAN ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 713 | U45200DL1984PTC018201 | SUPREME TECHNO CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED |
| 714 | U72300DL1990PLC042492 | DATASOFT INDIA LIMITED |
| 715 | U45400DL2007PTC170235 | HANUMANJI INFRABUILT PRIVATE LIMITED |
| 716 | U74120HR2007PTC037312 | TRUE CALIBRE SEARCH PRIVATE LIMITED |
| 717 | U72900DL2000PTC103424 | HANSA CYBER TECH PRIVATE LIMITED |
| 718 | U74140DL2002PTC117213 | FRONTRUNNER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 719 | U74899DL1995PTC068530 | RAO AND SONS PRIVATE LIMITED |
| 720 | U32109DL2004PTC128652 | K M ELECTRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 721 | U51397DL2002PTC116966 | ELIXIR MEDICARE PRIVATE LIMITED |
| 722 | U74899DL1988PTC030297 | BRIZOL OILCHEM (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 723 | U27202DL2007PTC170067 | CLAASSIC BRASS PRIVATE LIMITED |
| 724 | U45400DL2007PTC162951 | RACHNA INFRACON PRIVATE LIMITED |
| 725 | U70200DL2006PTC157052 | KANHA REALTECH PRIVATE LIMITED |
| 726 | U27109DL1985PLC021627 | AGARWAL CASTINGS UDYOG LTD |
| 727 | U45201DL2004PTC131283 | S C SINGLA BUILDWEL PRIVATE LIMITED |
| 728 | U24211DL1995PLC068393 | CENTURY FERTILIZERS LIMITED |
| 729 | U74300DL2000PTC105043 | LPM BRAND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 730 | U74899DL1985PTC022288 | BLUE HORIZON CHITS PRIVATE LIMITED |
| 731 | U74899DL1991PTC044826 | HORIZON BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 732 | U93000DL1999PTC099478 | IMPEX INDIA MARKETING AND MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
| 733 | U72200DL2006PTC155288 | BANDEL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 734 | U65992HR1992PTC031778 | PARI THOSIK CHITS PVT LTD |
| 735 | U72300DL2004PTC127821 | PRABHU COMMUNICATION PRIVATE LIMITED |
| 736 | U25199DL1986PTC026487 | SAWAN POLYMERS PRIVATE LTD. |
| 737 | U65992DL1998PTC097076 | GURLEEN CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 738 | U74910DL2000PTC106524 | ONTRAX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 739 | U91909DL2004PTC130855 | DUSK IMPORT AND EXPORT PRIVATE LIMITED |
| 740 | U72900DL2000PTC105384 | APOLLO INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 741 | U24233DL2006PTC151083 | BEST MEDFOOD REMEDIES PRIVATE LIMITED. |
| 742 | U31300DL1998PTC093916 | S.B. WIRES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 743 | U22110DL1985PTC020563 | SURAJ KANT MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 744 | U74999DL1996PTC078656 | INTERNATIONAL FACTORIES (INDIA) CO. PRIVATE LIMITED |
| 745 | U51909DL2007PTC163853 | ALWAYS IN STYLE MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 746 | U65921DL1997PLC089003 | SECURA FINANCE & LEASING LIMITED |
| 747 | U00313HR2005PTC035766 | ADITYA MOULDINGS PRIVATE LIMITED |
| 748 | U00389HR2005PTC035780 | SHIVANK TOYS PRIVATE LIMITED |
| 749 | U70101DL1989PTC034879 | GURGAON PROPERTIES PRIVATE LTD |
| 750 | U74210DL2002PTC115414 | SUGAR EXTRACT CONSULTING AND PROJECT PRIVATE LIMITED |
| 751 | U15316DL2003PTC122467 | GOURMET PIZZAS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 752 | U72300DL2005PTC136292 | DAFFODIL IT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 753 | U24239DL2003PTC121430 | TEKNOBIT FABRICS PRIVATE LIMITED |
| 754 | U72200DL1999PTC099769 | KRISHNET ACCESS PRIVATE LIMITED |
| 755 | U72900DL2006PTC147028 | ALBATROSS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 756 | U65999HR2004PTC035322 | DISHA INSURANCE AND RISK MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 757 | U74920DL2003PTC123249 | SHARP EYE SECURITY CONSULTANTS AND PROBE SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 758 | U80302DL2002PLC115445 | INSTITUTE OF PROFESSIONAL SERVICES EDUCATION AND TRAINING LIMITED |
| 759 | U29303DL1996PTC076731 | ASHU ELECTRICALS PRIVATE LIMITED |
| 760 | U80903DL2004PTC125983 | U S C P A EXAM PREP INDIA PRIVATE LIMITED |
| 761 | U74899DL1982PTC014840 | BLAGGANA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED |
| 762 | U18101DL1999PTC102072 | KALAKRITI EXPORTS PVT. LTD. |
| 763 | U74899DL2001PTC109631 | RAISE INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 764 | U45201DL2004PTC130402 | AMEYA CONTRACTORS PRIVATE LIMITED |
| 765 | U45309DL1996PTC075088 | KALINDEE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED |
| 766 | U51397DL2002PTC115718 | MANAV MEDICINES SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 767 | U70109DL2006PTC151024 | SURPRISE BUILD TECH PRIVATE LIMITED |
| 768 | U74899DL2000PTC105519 | BRANDTREE MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 769 | U27106DL2000PTC108360 | COMMUNIQUE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 770 | U70101DL2006PTC148981 | CHINTPURNI PROPBUILD PRIVATE LIMITED. |
| 771 | U74140DL1996PTC083777 | MANU COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 772 | U45201DL2004PTC127413 | S K S PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 773 | U45201DL2004PTC126877 | SINGH BUILT TECH PRIVATE LIMITED |
| 774 | U74899DL1984PTC017557 | INTERPRESS MAGAZINES PRIVATE LIMITED |
| 775 | U00356DL2005PTC139896 | SGM LIFTS AND ESCALATORS PRIVATE LIMITED |
| 776 | U30007DL1997PTC085805 | NIKETA BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 777 | U63040DL2000PTC108459 | DIVINE ADVENTURE TOURISM PRIVATE LIMITED. |
| 778 | U74899DL1995PTC071745 | FRORIS FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
| 779 | U74140DL2005PTC141582 | PASUMARTI ULTIMO CONSULTING PRIVATE LIMITED |
| 780 | U74899DL1995PTC073490 | ZO-FE FINLEASE PRIVATE LIMITED |
| 781 | U99999DL1995PTC073769 | JATIN SECURITIES PVT. LTD. |
| 782 | U25209DL2003PTC119436 | JA GANG PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 783 | U74899DL2001PTC109222 | QUEEN MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 784 | U51420DL2005PTC132112 | V M CONCAST OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 785 | U74920DL2002PTC117231 | BLACK FOX SECURITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
| 786 | U45201DL2004PTC129624 | NAINA BUILDWELL PRIVATE LIMITED |
| 787 | U45201DL2002PTC115748 | SVDL PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 788 | U18109DL2006PTC152833 | G. K. GARTEX PRIVATE LIMITED |
| 789 | U74899DL2004PTC130019 | MAHAVADI MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
| 790 | U33110DL1997PTC084657 | LASERMED INDIA PRIVATE LIMITED |
| 791 | U18101DL2005PTC136426 | ANJUMAN CREATIONS PRIVATE LIMITED |
| 792 | U74899DL1987PTC027430 | AEROTECHNICA SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 793 | U52100DL2007PTC167451 | FUTURE OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 794 | U72900DL2003PTC121827 | TRAIL RIDGE SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED |
| 795 | U74900DL1999PTC099708 | SABA REVERSIBLES EXIM PRIVATE LIMITED |
| 796 | U24239DL2007PTC170665 | GENESIS CLINICAL RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 797 | U51229DL2001PLC112846 | AIM RENAISSANCE LIMITED |
| 798 | U29299HR1985PTC021258 | HARYANA IRRIGATION EQUIPMENTS COMPANY PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 799 | U70101DL2004PTC129702 | AMBIKA BUILDCON PRIVATE LIMITED |
| 800 | U51109DL1999PTC101570 | RAJESHWARI TECHNICAL (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 801 | U45400DL2007PTC167911 | SUKHDHAM RESIDENCY PRIVATE LIMITED |
| 802 | U74899DL1994PTC058887 | RNA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 803 | U72200DL2005PTC139860 | SEQUIR INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 804 | U36101DL2005PTC135221 | NAZ FURNITURE PRIVATE LIMITED |
| 805 | U34200DL2007PTC169475 | ANSHICA AUTO PRIVATE LIMITED |
| 806 | U18101DL2005PTC136419 | BHAVNA WEARS PRIVATE LIMITED |
| 807 | U63013DL2003PTC121632 | IDM CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 808 | U45400DL2008PTC172322 | HIMSAR BUILDER AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 809 | U74899DL1979PTC009665 | CHAHAL AGRICULTURAL FARM PRIVATE LIMITED |
| 810 | U51909DL2007PTC163375 | CARBON TRADING PRIVATE LIMITED |
| 811 | U74899DL1988PTC034329 | KNAUP TOURISM PRIVATE LIMITED |
| 812 | U52100DL2007PTC167386 | MINDPRO MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 813 | U51101DL2002PTC114360 | I.R. GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 814 | U74899DL1994PTC060659 | EX SERVICEMEN EVEREST CARRIERS PRIVATE LIMITED |
| 815 | U70101DL1998PTC094210 | AMAR GURU BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 816 | U72200DL1999PTC102373 | ZI-TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 817 | U74999DL2005PTC140725 | DIVINE CERTIFICATION SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 818 | U72400DL2006PTC153791 | MIDAS SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
| 819 | U01409DL1997PLC086953 | GANGOTRI GREEN-VALLEY LIMITED |
| 820 | U74899DL1977PTC008547 | ALHASEEN TRADERS PRIVATE LIMITED |
| 821 | U74899DL1985PTC022483 | K K POLYMERS PRIVATE LIMITED |
| 822 | U51223DL2005PTC140146 | AL-BARKAT FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED |
| 823 | U51397DL2003PTC118878 | DR. DIDWANIA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
| 824 | U74899DL1994PTC058632 | SOOD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 825 | U45402DL1996PTC077712 | HIMALAYA DECORATOR COMBINES PRIVATE LIMITED |
| 826 | U55101DL2002PTC114404 | THAKURDAS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 827 | U45201DL2005PTC135760 | AKS MEADOWS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 828 | U45201DL2004PTC129785 | VAM CEMAX BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 829 | U65990DL1998PTC091524 | SUDESH HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
| 830 | U72900DL2001PTC109884 | WEB MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 831 | U11200HR2007PTC036867 | ACEONE GASES PRIVATE LIMITED |
| 832 | U74899DL1986PTC023945 | URJA ASSOCIATES PRIVATE LTD. |
| 833 | U17291DL1997PTC087730 | BHAGWATI PROCESSORS PRIVATE LIMITED |
| 834 | U45400DL2007PTC168072 | RIGHT BUILD LANDMARK PRIVATE LIMITED |
| 835 | U17223DL1985PTC020024 | VANDANA CARPETS PRIVATE LIMITED |
| 836 | U27310DL2007PTC163562 | BILLU SHREE STEELS PRIVATE LIMITED |
| 837 | U74899DL1984PTC017895 | H K CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 838 | U67120DL1995PTC064756 | LORDS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 839 | U72200DL2001PTC113548 | NEUROSOFT LABS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 840 | U18101DL2002PTC114011 | U R GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 841 | U74140DL2000PTC106936 | MADHUR MILAN SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 842 | U92100DL2007PTC162683 | REAL CLAY MOTION PICTURES PRIVATE LIMITED |
| 843 | U85310DL2007PTC170572 | TAJ MOTOR SPORTS PRIVATE LIMITED |
| 844 | U51909DL2005PTC138634 | AADHAR DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED |
| 845 | U52335DL1999PTC099449 | RADON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 846 | U74920DL2004PTC125692 | DRAGNET DETECTIVES PRIVATE LIMITED |
| 847 | U51209DL1999PTC099529 | VBROS AUTO MOULDINGS PRIVATE LIMITED |
| 848 | U51311DL2005PTC144164 | ANJUMAN AA CREATIONS PRIVATE LIMITED |
| 849 | U40109DL2006PTC154585 | SOL ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED |
| 850 | U72200DL1997PTC084973 | SHREEMA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 851 | U74899DL1995PTC069099 | INDUCHEM HOMOEOPATHIC PHARMACEUTICALS LABS PRIVATE LIMITED |
| 852 | U45201DL2006PTC145374 | TIMES BUILDTECH PRIVATE LIMITED |
| 853 | U01111DL2004PTC125491 | J N FARMS PRIVATE LIMITED |
| 854 | U18109DL1998PTC093156 | FIGURE CLOTHING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 855 | U17122HR2007PTC036865 | PRIYA SILKS PRIVATE LIMITED |
| 856 | U74899DL1995PLC065410 | CORNERSTONE FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| 857 | U85110DL2006PTC147446 | SUKHDA MEDICARE PRIVATE LIMITED |
| 858 | U63090DL2002PTC114762 | AERO -CRUISE TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 859 | U72200DL2002PTC114066 | JAISH INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 860 | U45201DL1992PTC048572 | INTERCON DEVELOPERS AND FINVEST PRIVATE LIMITED |
| 861 | U51909DL2002PTC113802 | KASTORS EXIM PRIVATE LIMITED |
| 862 | U74220DL2006PTC154483 | H.R. INVENT PRIVATE LIMITED |
| 863 | U33111DL2005PTC136356 | RADIANT REAGENTS AND INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED |
| 864 | U74140DL2001PLC111461 | HERO ASSOCIATES LIMITED |
| 865 | U72100DL1999PTC098779 | VIA INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 866 | U45200DL2003PTC122320 | ASP CONSTRUCTION AND BUILDERS PRIVATE LIMITED. |
| 867 | U74999DL2000PTC103358 | CYBERQ TRANSFORMATION PRIVATE LIMITED |
| 868 | U51101DL2007PTC169476 | SBRX EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 869 | U63090DL2003PTC120444 | KARAM TRANSPORT PRIVATE LIMITED |
| 870 | U74120DL2008PTC173716 | KAUSHIK INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 871 | U20299DL2007PTC158671 | KAATH KARMA HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED |
| 872 | U62100DL2002PTC117656 | ACCUDATA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 873 | U51909DL2004PTC123843 | MAA JAGAD JANANI TRADING PRIVATE LIMITED |
| 874 | U74899DL1981PTC012243 | SHIVDARSHAN CHITS PRIVATE LIMITED |
| 875 | U24133DL2002PTC115186 | ASHIMA POLY CHEM PRIVATE LIMITED |
| 876 | U51909DL2003PTC122561 | PROLON MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 877 | U45200DL1989PTC034602 | EVERST PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 878 | U74300DL1993PTC054907 | QED MIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 879 | U17111DL2000PTC108335 | MAISON DECOR PRIVATE LIMITED |
| 880 | U74899DL1965PTC004337 | INSPI AUTO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
| 881 | U45400DL2007PTC170826 | ORPS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 882 | U51909DL1998PTC097521 | EUROSTAR INNOVATIONS PRIVATE LIMITED |
| 883 | U74899DL1990PTC042362 | D D INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
| 884 | U74899DL1989PTC036240 | GERA IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 885 | U51311DL2003PTC119832 | SUSHAR EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 886 | U74899DL1978PTC009003 | VENKATESHWARA ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
| 887 | U45400DL2007PTC171473 | NEW LIFE STYLE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 888 | U80302DL2006PTC147488 | GREATER NOIDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES PRIVATE LIMITED |
| 889 | U01403DL2007PTC167564 | DEVPRIYA NATURAL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 890 | U26959HR1992PTC031646 | ADVANCE CEMENT COMPANY PVT.LTD. |
| 891 | U74140DL1999PTC097816 | AMIGO SYSTEMS AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED |
| 892 | U24232DL2005PTC144100 | GLISTER PHARMA PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 893 | U18101DL2005PTC134398 | UCHIT FASHIONS PRIVATE LIMITED |
| 894 | U74899DL1990PTC040934 | STELLAR INSTRUMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 895 | U51909DL1984PLC019477 | PRIYATAMA EXPORTS LIMITED |
| 896 | U52190HR1998PTC033977 | GREAT EASTERN EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 897 | U72900DL2000PTC107977 | KULGURU COM PRIVATE LIMITED |
| 898 | U24231DL2003PTC120931 | VIKAS CHEMIST PRIVATE LIMITED |
| 899 | U72200DL2005PTC137169 | SC INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 900 | U72900DL2000PTC104020 | ACROSSWORLD INDIA (PRIVATE) LIMITED |
| 901 | U15209DL2000PTC106377 | JNG FOODS PRIVATE LIMITED |
| 902 | U51909DL2002PTC116506 | BLOOSOM WELL REAL LINKS PRIVATE LIMITED |
| 903 | U72900DL2002PTC114804 | O.S.D. COLLIERS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 904 | U45400DL2007PTC163458 | AADHARSHILA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 905 | U74950DL2001PTC110638 | MULTIVAC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| 906 | U51909DL2003PTC118841 | SATYA SAI TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 907 | U99999DL1996PTC078812 | \UPER AIR AND SEA CARGO PVT. LTD. |
| 908 | U64120DL1993PTC055958 | VAYU SEVA COURIERS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 909 | U74899DL1993PTC055785 | SHEEL SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 910 | U24248DL2007PTC170351 | STAR AGARBATTI WORKS PRIVATE LIMITED. |
| 911 | U51909DL2002PTC117461 | ELEMENTS DESIGN COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 912 | U65992HR1991PTC031202 | RESCUEMAN CHITS PVT LTD |
| 913 | U51909DL1996PLC075533 | J K INDIA LIMITED |
| 914 | U24222DL2004PTC126256 | REFLEX PAINTS PRIVATE LIMITED |
| 915 | U74899DL1992PTC050577 | MEENAKSHI FUEL INJECTORS PRIVATE LIMITED |
| 916 | U74899DL1990PTC042072 | G AND A SYNERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 917 | U74899DL2005PTC143660 | K.B. SECURITY AND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 918 | U65992DL1985PTC022058 | GREH SANCHYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 919 | U51215DL2004PTC131735 | NARAIN HERBAL EXIM PRIVATE LIMITED |
| 920 | U29299DL1989PTC034787 | ADONIS HOME APPLINCES PRIVATE LIMITED |
| 921 | U63040DL2001PTC112713 | EURO CAR RENTALS PRIVATE LIMITED |
| 922 | U45102DL1990PTC041984 | KANWAR O.P. VERMA AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 923 | U63040DL2008PTC172988 | PARINEETA TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 924 | U74899DL1989PTC037211 | KRISARS ELECTROPLAST PRIVATE LIMITED |
| 925 | U74900DL1996PTC079740 | RUSTAM FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 926 | U51103DL2005PTC134754 | PIXEL DIGITAL MACHINES PRIVATE LIMITED |
| 927 | U72300DL2006PTC149442 | AAR CEE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 928 | U52341DL1993PTC055116 | RICHA ADHESIVES PRIVATE LIMITED |
| 929 | U28910DL2007PTC163603 | NAVNEET AUTOTECH PRIVATE LIMITED |
| 930 | U65992HR1992PTC031862 | NEW VINTAGE CHITS PVT LTD |
| 931 | U01111DL2004PTC123933 | SARASWATI AGRICULTURE FARM PRIVATE LIMITED |
| 932 | U74899DL1995PTC070351 | A P S (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 933 | U74999DL2007PTC160712 | SONAVED DIGITAL PRIVATE LIMITED |
| 934 | U65921DL1987PTC028390 | INTERTEL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 935 | U74920DL2004PTC130257 | INFRA SQUARE HEALTHCARE PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 936 | U74899DL1995PTC074145 | ALTUS MERCHANDISING PRIVATE LIMITED |
| 937 | U05005DL1978PLC009001 | PEEJAY INDO BULGARIAN FISHERIES LTD |
| 938 | U00000DL1993PTC054235 | ROHINI PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 939 | U51909DL2003PTC121465 | ASTERIX INDIA IMPEX PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 940 | U72900DL2003PTC123028 | BHAKTI TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED |
| 941 | U25199DL1991PTC045215 | REGENCY RUBBER PRIVATE LIMITED |
| 942 | U23201DL2004PTC126487 | MMAG LUBRICANTS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 943 | U74899DL1989PTC038444 | GOD BLESSING LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 944 | U74140DL2004PTC126417 | AKS VICHAL CONSULTANCY COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 945 | U18101DL2005PTC136789 | ASHAJYOTI APPARELS PRIVATE LIMITED |
| 946 | U34300DL2001PTC111465 | D K S AUTO PVT LTD |
| 947 | U70109DL2006PTC155548 | UNITED LAND CRAFT PRIVATE LIMITED |
| 948 | U70102DL2007PTC160071 | GPA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 949 | U74899DL1995PTC066395 | SHIVRAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 950 | U74899DL2000PTC108743 | MOKUL SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 951 | U70102DL2006PTC156327 | KGA BUILDWELL PRIVATE LIMITED |
| 952 | U74190DL2001PTC111586 | BALAJI MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 953 | U74899DL1991PTC042783 | GIANWATI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 954 | U74899DL1986PTC023765 | KUSH CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 955 | U31909DL2007PTC159548 | ORBIT TELEVENTURES PRIVATE LIMITED |
| 956 | U74899DL2001PTC109279 | INNOVATION FORMULATIONS PRIVATE LIMITED |
| 957 | U65921DL1995PTC065217 | RAJNI FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 958 | U74140DL2000PTC107976 | JABO INTERNATIONAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED. |
| 959 | U24233DL2007PTC170149 | R R D CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 960 | U72900HR1999PTC034264 | SPIDEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 961 | U51909DL2003PTC120105 | SPARKLETS AQUA SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 962 | U25209DL2006PTC150228 | KRISHAN KANHAIYA PLASTICS PRIVATE LIMITED. |
| 963 | U74899DL1970PTC005488 | PAULCO TRADE ENTERPRISES PRIVATE LTD |
| 964 | U72900DL2002PTC116867 | GEIS INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 965 | U74899HR2006PTC036005 | RAY AVIATION PRIVATE LIMITED |
| 966 | U62100DL1998PTC093110 | AAUTER BOUND TOURS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 967 | U70109DL1996PTC081581 | EARTH FARMS AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 968 | U51410DL1991PTC043699 | SOLVO PAINTS AND PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 969 | U17121DL2007PTC162936 | VERNAL VOYAGES PRIVATE LIMITED |
| 970 | U65910HR1994PTC032383 | OSM FINLEASE PRIVATE LIMITED |
| 971 | U24232DL1998PTC092130 | LEYKON PHARMA PRIVATE LIMITED |
| 972 | U92312DL2002PTC113740 | CITY AUDIO VISION PRIVATE LIMITED |
| 973 | U70109DL2006PTC149875 | TUSSOCK PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 974 | U74999DL2005PTC136216 | SILVER GAMES PRIVATE LIMITED |
| 975 | U72200DL1980PTC010281 | REALTIME COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 976 | U74899DL1989PTC036279 | SPELL RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 977 | U63040DL2000PTC107473 | VOYAGEUR WORLD TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 978 | U74899DL1992PTC049937 | EAGLE E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 979 | U52190DL2001PTC110105 | RAMA KRISHNA DEPARTMENTAL STORE PRIVATE LIMITED |
| 980 | U74899DL1989PTC034844 | HINTEK SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 981 | U45203DL1995PTC069034 | PARAMOUNT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 982 | U51393DL2001PTC111256 | KASHYAP OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 983 | U51311DL2001PTC111411 | VRINDAVAN INFINE TRADE PRIVATE LIMITED |
| 984 | U72200DL2000PTC104082 | CD DESIGN SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 985 | U99999DL1989PTC038636 | BOSE BABBAR ARCHITECTS PRIVATE LIMITED |
| 986 | U74899DL1999PTC100312 | SHRUTI GRAPHICS PVT LTD |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 987 | U74899DL1994PLC061027 | TRANSIEL INDIA LIMITED. |
| 988 | U23201DL2001PLC110801 | MEGA LUBE INDIA LTD. |
| 989 | U26921DL1997PTC085344 | INTERNATIONAL REFRACTORIES CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
| 990 | U51909DL2004PTC125578 | ORANGE EXPORT PRIVATE LIMITED |
| 991 | U80902DL2007PTC158013 | NOBLE MANHATTAN COACHING PRIVATE LIMITED |
| 992 | U51109DL1997PTC088135 | ARYAN INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 993 | U72200DL2007PTC171568 | WAVESIGHT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 994 | U63040DL2005PTC141676 | BELA TOURIST SERVICE PRIVATE LIMITED |
| 995 | U32103DL1994PTC060487 | RENU HIRING AND LEASING PRIVATE LIMITED |
| 996 | U17299DL2004PTC128200 | SANJHIDHANI KALAKRITI PRIVATE LIMITED |
| 997 | U65910DL1988PTC031122 | VISHNU CREDITS PRIVATE LIMITED |
| 998 | U67120DL1997PTC086144 | WELFARE FINCAP PRIVATE LIMITED |
| 999 | U74899DL1993PLC052393 | N B A FINANCE LIMITED |
| 1000 | U55101DL2006PTC154992 | M. G. HOSPITALITY PRIVATE LIMITED |
| 1001 | U72900DL2004PTC124726 | LEXADIGM SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1002 | U72900DL2000PTC105596 | MITI SYSTEMS PRIVATE LIMITED. |
| 1003 | U33112DL2006PTC145485 | SIMPLEX MEDICAL PRIVATE LIMITED |
| 1004 | U18101DL2005PTC136015 | MADHUR CLOTHING PRIVATE LIMITED |
| 1005 | U74999DL2001PLC113472 | SAFETY AND SECURITY SYSTEMS INDIA LIMITED |
| 1006 | U18101DL2005PTC136016 | RBA CLOTHING PRIVATE LIMITED |
| 1007 | U74899DL1989PTC036487 | CHINAB LAND AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED |
| 1008 | U20296DL2007PTC157739 | SAIGAL INWOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 1009 | U05001DL1980PLC010200 | GOLDEN AHAR LIMITED |
| 1010 | U74899DL1995PTC066145 | TONIK FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 1011 | U72900DL2000PTC105686 | DIMENSION.COM PRIVATE LIMITED |
| 1012 | U51909DL2006PTC145322 | MOKSHA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 1013 | U29246DL1995PLC070955 | SUVIDHA SAFE DEPOSIT VAULTS LIMITED |
| 1014 | U52335DL1995PTC065576 | AMWAY INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1015 | U74899DL2005PTC141577 | ALFA BRAKES COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 1016 | U80302DL2005PTC133978 | GULMOHAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PRIVATE LIMITED |
| 1017 | U65999DL1995PTC069340 | INDER CREDIT ARRANGERS AND REPRESENTATIVES ESTABLISHMENT PRIVATE LIMITED |
| 1018 | U74999DL2000PTC104732 | MAKE A DIFFERENCE MARKETING ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 1019 | U24231DL1987PTC028194 | EUDORA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
| 1020 | U80302DL2005PTC143953 | AAKASH INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDY PRIVATE LIMITED |
| 1021 | U65992DL1997PTC085845 | AGAM CHITS PRIVATE LIMITED |
| 1022 | U72200DL1997PTC086789 | LOGICTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 1023 | U74130DL1998PTC093613 | CHAI NETWORK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
| 1024 | U45200DL2007PTC158524 | BERYL BUILDERS & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 1025 | U45200DL2007PTC158240 | DINKY BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1026 | U74899DL1994PTC059536 | PRIYA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 1027 | U45201DL2003PTC121448 | LEMONTREE ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 1028 | U45200DL2006PTC155606 | ELANOR BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1029 | U51909DL2004PTC129047 | NIRANJAN IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 1030 | U74899DL1983PTC016576 | SAMRIDHI STEELS PVT LTD |
| 1031 | U72900DL2005PTC139734 | ITPRENEURS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1032 | U74899DL1995PTC067389 | SATYA SECURITIES PVT LTD |
| 1033 | U51109DL2007PTC158947 | AVIRAL DISTRIBUTIONS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 1034 | U74899DL1984PTC017818 | TOSHEE FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 1035 | U34300DL1981PTC012492 | KAYELL GEARS PRIVATE LIMITED |
| 1036 | U74899DL1995PTC067939 | GOSWAMI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 1037 | U74899DL1994PLC060363 | GOLDLINE SPINNERS LIMITED |
| 1038 | U45400DL2007PTC166434 | KRC-PEARL REALTECH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 1039 | U24246HR2003PTC035239 | LAMOUR COSMETICS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 1040 | U31909DL2003PTC120537 | FOREMOST APPLIANCE PRIVATE LIMITED |
| 1041 | U74899DL1991PTC044366 | H S CREDIT PRIVATE LIMITED |
| 1042 | U45200DL2007PTC158511 | DILLY BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1043 | U65992DL1997PTC087302 | AGL CHITS PRIVATE LIMITED |
| 1044 | U51909DL2003PTC120217 | SUPER LIFE MULTILINK NETWORK PRIVATE LIMITED |
| 1045 | U18101DL2005PTC139028 | VEEJAYA KNITCRAFT PRIVATE LIMITED |
| 1046 | U72900DL2007ULT161444 | SUPERIOR TECH IT SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 1047 | U80903DL2004PTC123859 | GREATER NOIDA INSTITUTIONAL RESIDENCY PRIVATE LIMITED |
| 1048 | U74300DL2001PTC110763 | ENHANCE PUBLIC-RELATIONS PVT. LTD. |
| 1049 | U85191DL2006PTC151524 | MRS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED |
| 1050 | U74300DL1996PTC079906 | AKANKSHA ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 1051 | U65992DL2000PTC105708 | B N K CHITS PRIVATE LIMITED |
| 1052 | U29244DL1996PTC075811 | AGRICO EQUIPMENTS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1053 | U00892DL2005PTC138788 | FPO INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 1054 | U63040DL1984PTC017287 | ZEPHYR TRAVEL AND CARGO PRIVATE LIMITED |
| 1055 | U74899DL1994PTC061627 | EL -TECH SWITCH GEARS PRIVATE LIMITED |
| 1056 | U67120DL1994PTC057008 | SURYA MUKHI SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 1057 | U63013DL2002PTC114744 | SEACONE AIR AND SEA LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
| 1058 | U29309DL1984PLC018483 | POLO TOYS LIMITED |
| 1059 | U74899DL1995PTC068505 | DELHI PRIME COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED |
| 1060 | U36911DL1999PTC100089 | IVO SPINA JEWELLARY PRIVATE LIMITED |
| 1061 | U29120DL1998PTC093522 | NRG SYSTEMZ PRIVATE LIMITED |
| 1062 | U74899DL1995PTC069380 | BLUEBIRD SALES PRIVATE LIMITED |
| 1063 | U72900DL2003PTC121158 | RA SYSTEMS PRIVATE LIMITED. |
| 1064 | U00000DL2002PTC118006 | SDP TRADING PRIVATE LIMITED |
| 1065 | U17291DL2000PTC108708 | NEELKANTH COMPUTER EMBROIDERY WORKS PRIVATE LIMITED |
| 1066 | U72200DL2002PTC115879 | INVENTES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 1067 | U74140DL2001PTC110309 | ROY AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 1068 | U74210DL1998PTC096241 | NIIR PROJECT EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1069 | U29192DL2004PTC128647 | TECHNO COOL REFRIGERATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 1070 | U74899DL1993PTC055181 | EM ESS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1071 | U67120DL2000PTC103763 | SNG ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 1072 | U64200HR2007PTC037347 | GORDIAN TELECONNECT PRIVATE LIMITED |
| 1073 | U74899DL1995PTC071521 | LIFESTYLE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 1074 | U65921HR1986PTC026386 | SAPNA TOURS TRAVALS AND LEASING PVT. LIMITED |
| 1075 | U65923DL2007PTC160030 | A. N. C. HOLDINGS & INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
| 1076 | U74899DL1992PTC051261 | BUOY-DAE (INDIA) FISHERIES PRIVATE LIMITED |
| 1077 | U36912DL2006PTC155431 | BSM FURNITURE PRIVATE LIMITED. |
| 1078 | U74899DL1995PTC067880 | GILT FACILITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1079 | U19201DL2003PTC122218 | NILE FOOTWEARS PRIVATE LIMITED |
| 1080 | U85110DL1997PTC090339 | SPA MEDICARE PRIVATE LIMITED |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 1081 | U74899DL1993PLC052186 | ONIDA INTERNATIONAL LIMITED |
| 1082 | U72900DL2003PTC118521 | HYACINTH INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 1083 | U74999DL1963PTC003985 | REKHA INVESTMENT AND CHIT FUND PVT LTD |
| 1084 | U65910DL1988PTC031188 | SPACE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1085 | U29299DL1980PTC010691 | PAN CONTINENTAL PRIVATE LIMITED |
| 1086 | U74992DL1996PTC075977 | TOP-ONE SECURITIES AND FINLEASE PRIVATE LIMITED |
| 1087 | U27310DL2007PTC158620 | B & J METALS PRIVATE LIMITED |
| 1088 | U74899DL1974PTC007092 | PARASNATH PICTURES PRIVATE LIMITED |
| 1089 | U72900DL2003PTC123315 | R S INFO SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 1090 | U52110DL1986PLC025755 | DEWAN MERCANTILES LIMITED |
| 1091 | U45201DL1998PTC092639 | VIDYA TOWERS & RESORTS PRIVATE LIMITED |
| 1092 | U65992HR1999PTC034384 | V.S.V. CHITS PRIVATE LIMITED |
| 1093 | U65910DL1996PTC081261 | ASKA LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 1094 | U74899DL1986PTC025782 | VIGIL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 1095 | U40107DL2005PTC134503 | HARBINSONS ENERGY PRIVATE LIMITED |
| 1096 | U65992DL1998PTC096438 | SPEARHEAD CHITS PRIVATE LIMITED |
| 1097 | U24233DL1996PTC077662 | PANSOM HERBALS PRIVATE LIMITED |
| 1098 | U74899DL2001PTC109494 | NET CONNECT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 1099 | U28991DL2001PTC112285 | SHIVA PRECISION COMPONENTS PRIVATE LIMITED |
| 1100 | U45201DL2004PTC131606 | AMKIR PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1101 | U51909DL2004PTC128411 | KARMATECH IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 1102 | U74910DL2005PTC136630 | OM HR VISIONS PRIVATE LIMITED |
| 1103 | U15142HR1983PTC015136 | PANNALAL OIL AND GENERAL MILLS PRIVATE LIMITED |
| 1104 | U29223DL2008PTC175843 | INCO-PP ROLLING & PROCESS EQUIPMENT PRIVATE LIMITED |
| 1105 | U72200DL1999PTC099866 | ASEAN TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 1106 | U51909DL1999PTC099942 | N K B INDIA IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 1107 | U74140DL1998PTC094016 | GM PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 1108 | U72900DL2002PTC117642 | DISHA DIAMONDMINE NETWORKS PRIVATE LIMITED |
| 1109 | U74899DL1993PTC056336 | MAYUR INTER LINKS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 1110 | U70102DL1997PTC084458 | DEEP AGGARWAL ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 1111 | U51909DL2005PTC139812 | PSS TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 1112 | U74899DL1974PTC007422 | BHARAT DYES AND PIGMENTS PVT LTD |
| 1113 | U65992DL1998PTC096813 | AAYAN CHITS PRIVATE LIMITED |
| 1114 | U55101DL2000PTC103392 | CAPTAIN RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED. |
| 1115 | U72900DL2000PTC104455 | RICOSSA MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 1116 | U24239DL2003PTC118366 | HUMAN CARE REMEDY PRIVATE LIMITED |
| 1117 | U51909DL2005PTC143858 | RAVE IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 1118 | U74899DL2000PTC107124 | JCR MARKETING AND CONSULTANCY PVT LTD |
| 1119 | U24119HR2001PTC034767 | ARJUN ORGANICS PRIVATE LIMITED |
| 1120 | U99999DL1981PTC011572 | WINAL FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 1121 | U65992DL1986PTC023373 | SHRILEKHA CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 1122 | U74899DL1989PTC036842 | ACTION COLOUR LAB PVT. LTD. |
| 1123 | U15139DL2007PTC157664 | PARAO-A FOODS COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 1124 | U72900DL2007PTC171787 | UDAAN INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 1125 | U29303DL1999PTC099231 | SEASON ELECTRIC PRIVATE LIMITED |
| 1126 | U63040DL1999PTC099640 | HARPAL TOUR AND TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 1127 | U51311DL1996PTC081443 | JAAP TRADE LINKS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 1128 | U70109DL2006PTC150160 | DS PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1129 | U74899DL1995PTC064883 | NITIKA FINCAP PRIVATE LIMITED |
| 1130 | U72200DL1998PLC096348 | EUROSOFT INTERNATIONAL LIMITED |
| 1131 | U24299DL1960PTC003342 | PORCELAIN & CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 1132 | U74900DL1998PTC092600 | CRESCENT APPLIANCES PRIVATE LIMITED |
| 1133 | U31909DL2005PTC134392 | CONTROLS AND SWITCHGEAR (UTTARANCHAL) PRIVATE LIMITED |
| 1134 | U93091DL2006PTC148750 | MAKJ CONSULTING PRIVATE LIMITED. |
| 1135 | U51311DL2005PTC136666 | KALPNA SYNTEX PRIVATE LIMITED |
| 1136 | U24111DL2000PTC108316 | VINYL ADHESIVES PRIVATE LIMITED |
| 1137 | U74300DL2002PTC117431 | ANGKOR MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 1138 | U50101DL2004PTC123802 | SHEETAL MOTORS PRIVATE LIMITED |
| 1139 | U45201DL2006PTC147111 | BLBS ESTATES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 1140 | U74899DL1995PTC069945 | K K INTEC PRIVATE LIMITED |
| 1141 | U27209DL1997PTC085787 | SAPPHIRE METALS PRIVATE LIMITED |
| 1142 | U74899DL2000PTC103696 | VERTEX PULLOVERS PRIVATE LIMITED |
| 1143 | U74999DL2005PTC135112 | MANTRA MOBIGAIN (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 1144 | U74899DL1988PTC030934 | AMBER ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 1145 | U13100DL2001PTC113291 | HARYANA MINING PRIVATE LIMITED |
| 1146 | U34103DL2004PTC129724 | ADVANCED MOBILITY VEHICLES PRIVATE LIMITED |
| 1147 | U74999DL2003PTC122443 | CEC COUNSELLING PRIVATE LIMITED |
| 1148 | U55101DL2005PTC131959 | ABS HOTELS PRIVATE LIMITED |
| 1149 | U74899DL2001PTC109414 | BHARTI HERBALS PRIVATE LIMITED |
| 1150 | U65992HR1993PTC032164 | CRESECENT CHITS PVT LTD |
| 1151 | U32308DL2006PTC146735 | SUN VIEW MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 1152 | U65992DL2000PTC107746 | NEWAY CHIT FUND PRIVATE LIMITED |

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
New Delhi-110019, the 23rd June 2011

No. RoC/Delhi/560(5)/EES-2011/PART-III-I/3203—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| S. No. | CIN | COMPANY NAME |
|--------|-----------------------|--|
| 1 | U22211DL1998PTC095561 | COLORFIELD PRESS PRIVATE LIMITED |
| 2 | U74899DL1995PTC067290 | NORTHBRIDGE PERICOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 3 | U74910DL2005PTC133646 | SEVEN STAR HOUSEKEEPERS PRIVATE LIMITED |
| 4 | U72200DL2004PTC129271 | CITY FAME SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
| 5 | U70101DL2006PTC148387 | WEST INFRACON PRIVATE LIMITED |
| 6 | U23209DL1999PTC101899 | AS PETROLEUM PRIVATE LIMITED |
| 7 | U74899DL1990PTC039140 | RAK SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
| 8 | U74899DL1982PTC013879 | VAISHALI UDYOG PRIVATE LIMITED |
| 9 | U74899DL1980PTC010701 | JHALANI BROTHERS PRIVATE LIMITED |
| 10 | U27310DL1995PTC066076 | VINEET STEEL AND ALLOYS PRIVATE LIMITED |
| 11 | U00000DL2000PLC103379 | ELABH TECHNOLOGIES LIMITED |
| 12 | U74140DL1996PTC083401 | ANZAC STUDIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| 13 | U51909DL1996PTC081474 | UNI WORTH OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
| 14 | U72200DL2000PTC103229 | SHAHANA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 15 | U67120DL1995PTC064281 | NATRON FINANCE & INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
| 16 | U45201DL2004PTC129927 | PINE WOOD REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 17 | U65993DL1996PTC081685 | MEHRA FINVEST PRIVATE LIMITED |
| 18 | U17299DL2007PTC159626 | AANCHAL KNITFAB PRIVATE LIMITED |
| 19 | U32109DL2004PTC125249 | TOP-TECH ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 20 | U51909DL1999PLC100701 | DEWAN CHAND DHOLAN DAS AND CO. LTD. |
| 21 | U65992DL1990PTC042265 | VIKAS MARG CHITS PRIVATE LIMITED |
| 22 | U74899DL1983PTC015576 | PANDEY AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
| 23 | U65992HR1990PTC030820 | U.G. CHITS PVT. LTD. |
| 24 | U25209DL1989PTC035267 | DELHI SYNTHETICS PRIVATE LIMITED |
| 25 | U74899DL1987PTC028777 | A B PHARMA PRIVATE LIMITED |
| 26 | U25199DL1988PLC032335 | MAXON RUBBERS LIMITED |
| 27 | U74900DL1998PTC097485 | SECURA PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED |
| 28 | U67190DL1988PTC032439 | RISING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 29 | U72900DL2002PTC115698 | C-TEL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 30 | U74910DL2003PTC123603 | IRIS CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 31 | U74899DL1993PTC053911 | GUPTA AGENCIES PRIVATE LIMITED |
| 32 | U51310HR1953PTC001812 | NOVEL TRENDS PRIVATE LIMITED |
| 33 | U32204DL2004PTC124455 | IRIS TELE COM PRIVATE LIMITED |
| 34 | U74110DL2005PTC141095 | ADIVA SUPEREXORS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 35 | U72200DL1994PTC059335 | MIRRA SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
| 36 | U51109DL2007PTC162923 | DFE EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 37 | U67120DL1996PTC075567 | JYC FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 38 | U45203DL1984PTC018769 | SAVITRI ESTATES AND TOWERS PRIVATE LIMITED |
| 39 | U24233DL2001PTC110974 | AHSAS AYUR PRIVATE LIMITED |
| 40 | U27200HR1989PTC030460 | MAHALAXMI GALVANISERS PRIVATE LIMITED |
| 41 | U74920DL2003PTC119821 | DEEP SECURITY AND PLACEMENT PRIVATE LIMITED |
| 42 | U74900DL1996PTC080583 | KITTY FINLEASE PRIVATE LIMITED |
| 43 | U31103DL2006PTC150199 | MADHUREENA PROCESSORS PRIVATE LIMITED. |
| 44 | U65910HR1974PTC007165 | SHALOO FINANCIAL AND LOAN CO PVT LTD |
| 45 | U74899DL1991PTC043144 | DYNAMIC LEASING PRIVATE LIMITED |
| 46 | U45201DL1995PTC072440 | VRD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED |
| 47 | U74899DL1995PTC032840 | LAHORI RAM AND SONS PRIVATE LIMITED |
| 48 | U74899DL1995PTC073833 | VASAVI FISCAL PRIVATE LIMITED |
| 49 | U74899DL2000PLC107767 | MTIIL-MEDICAL TRANSCRIPTION INSTITUTE INDIA LIMITED |
| 50 | U74899DL1994PTC057091 | VARINDAVAN MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 51 | U51909DL1994PTC060100 | KETIKA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
| 52 | U74899DL1995PTC071279 | ARG ORGANICS PRIVATE LIMITED |
| 53 | U45200DL2007PTC158993 | DREAMQUEST PROJECTS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
| 54 | U64201HR1995PTC032622 | KARNAL COMMUNICATIONS NETWORK PVT. LTD. |
| 55 | U33119DL2000PTC103249 | LEE WATTANA PRIVATE LIMITED. |
| 56 | U67110DL1996PTC080823 | SVELTE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
| 57 | U24246DL2005PTC135854 | NU SKIN PRIVATE LIMITED |
| 58 | U65921DL1992PTC050011 | CHINMAYA LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 59 | U67120DL1996PTC080812 | BLISS SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 60 | U65922DL1988PTC030438 | FAST LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 61 | U22219DL1996PTC079340 | GETIT DIRECTORIES PRIVATE LIMITED |
| 62 | U72200DL1996PLC082000 | GETIT SOFTWARE LIMITED |
| 63 | U72900DL2004PTC124543 | CHARU E COM AND HOSTING PRIVATE LIMITED |
| 64 | U18101DL1998PTC092497 | MOHYAL BHARATI EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 65 | U74899DL1994PTC060931 | EAST DELHI COMMUNICATIONS NETWORK PRIVATE LIMITED |
| 66 | U51909DL1998PTC096816 | LUCKNOW ENERTAINMENT NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIM |
| 67 | U72200DL2000PTC107628 | SAI INFOWAY PRIVATE LIMITED |
| 68 | U51909DL2005PTC136899 | RAKTKAMAL IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 69 | U74140DL2004PTC124544 | CHARU RELOCATION SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 70 | U31909DL2004PTC129033 | SONAL ELECTRICALS PRIVATE LIMITED |
| 71 | U51909DL2005PTC136064 | KANTAMANI PHOTO FRAMES TRADEX PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 72 | U74899DL1995PTC068423 | PEE AND ANU INVESTT PRIVATE LIMITED |
| 73 | U65992HR1992PTC031773 | PROSECURE CHITS PVT. LTD. |
| 74 | U70101HR1997PTC033798 | A B REAL ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 75 | U51909HR2003PTC035227 | PEERLIFE MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 76 | U18101DL2005PTC138941 | GARBHA CLOTHING PRIVATE LIMITED |
| 77 | U51311DL2005PTC140772 | GARMA CLOTHING PRIVATE LIMITED |
| 78 | U18101HR2000PTC034509 | HARITEX FASHIONS PRIVATE LIMITED |
| 79 | U51909DL1992PTC048590 | JET STAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| 80 | U74899DL1991PLC045137 | GANGA AGRI SEEDS LIMITED |
| 81 | U51109DL1990PTC039225 | MAJESTIC EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 82 | U34826DL1989PTC034826 | AVDHUT SWAMI METCHEM PRIVATE LTD |
| 83 | U67120DL1995PTC065672 | SRI DURGA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 84 | U17220DL1988PTC031253 | DELHI DHURRIE DURBAR PRIVATE LIMITED |
| 85 | U15200HR1991PTC031223 | MILKY WAY ICECREAM PRIVATE LIMITED |
| 86 | U24231DL1998PTC093711 | WILSON MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 87 | U65992HR1991PTC031273 | SAHYOGI CHITS PVT.LTD. |
| 88 | U51391DL1998PTC095193 | RONALD MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 89 | U72900DL2000PLC103202 | COSMOS SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED |
| 90 | U74899DL1992PTC049795 | RAWAL NURSING HOME & RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMIT |
| 91 | U63040DL1996PTC083514 | SKYBIRD AIRWAYS PRIVATE LIMITED |
| 92 | U51909DL2005PTC133569 | SAYO ENTERPRISE PRIVATE LIMITED |
| 93 | U65921DL1994PLC062213 | A.K.S. FINLEASE LIMITED |
| 94 | U24239DL2004PTC131620 | BANYAN WELLNESS PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 95 | U65921DL1994PLC062278 | MILAN FASHIONS AND FINLEASE LIMITED |
| 96 | U31200DL1985PTC021041 | PROCON CONSORTIUM PVT LTD |
| 97 | U51101DL2006PTC148450 | OZO MARKETING PRIVATE LIMITED. |
| 98 | U74899DL1992PTC049427 | FLORENCE ELECTRICALS PRIVATE LIMITED |
| 99 | U31909DL1981PLC011837 | INDO ELECTRICALS LIMITED |
| 100 | U02001HR1998PLC033889 | KARAN BHOOMI FOREST LIMITED |
| 101 | U15315HR1995PLC032662 | ZEBEC MALT LIMITED |
| 102 | U65910DL1992PTC051422 | JIGYASA INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 103 | U45201DL2005PTC132623 | SARR BUILDTECH PRIVATE LIMITED |
| 104 | U18101DL2003PTC118470 | VAIBHAVI SPINNERS PRIVATE LIMITED |
| 105 | U65992DL1995PTC071979 | DISHTI CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 106 | U45201DL2005PTC134820 | EKAM BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 107 | U74899DL1983PTC015901 | CAPABLE TRADING AND CHITS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 108 | U65992DL1996PTC083959 | AABHAS CHITS PRIVATE LIMITED |
| 109 | U00892DL2005PTC140876 | CAPSTONE INFOWAYS PRIVATE LIMITED |
| 110 | U65992DL1996PTC083464 | SAMRIDHI CHITS PRIVATE LIMITED |
| 111 | U74899DL1989PTC035945 | BABBAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED |
| 112 | U74899DL2000PTC108843 | V3 CLASSES PRIVATE LIMITED |
| 113 | U74899DL1994PTC059751 | INTERIOR EXPRESSIONS PRIVATE LIMITED |
| 114 | U74899DL2000PTC109530 | B D KHANNA ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED |
| 115 | U74899DL1994PTC059203 | L A COMPUTERS SHOPPEE PRIVATE LIMITED |
| 116 | U70101DL1992PTC050037 | V N V CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 117 | U45200DL2007PTC159275 | MOHIT CONTRACTORS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 118 | U70109DL2007PLC168843 | AVB INFRASTRUCTURE & DEVELOPERS LIMITED |
| 119 | U55101DL2006PTC149012 | WHITESKYE HOLIDAYS PRIVATE LIMITED |
| 120 | U45206DL2007PTC160319 | MOHIT CONTRACTORS PRIVATE LIMITED |
| 121 | U22306DL1981PTC011499 | B D KHANNA PUBLICITY PVT LTD |
| 122 | U24299DL1990PTC040305 | ARYA PROGRESSIVE CHEMICALS PRIVATE LIMITED. |
| 123 | U74899DL1986PTC025390 | MORNING BREAD PRIVATE LIMITED |
| 124 | U74899DL1975PTC007856 | ABBASI BROTHER PRIVATE LIMITED |
| 125 | U29211HR1990PTC031134 | AGGARWAL IMPLEMENTS PRIVATE LIMITED |
| 126 | U15541DL1999PTC099361 | AN ANGEL FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED |
| 127 | U74899DL2006PTC145202 | MIRAGE INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
| 128 | U00893HR2005PTC035751 | ENTX ESOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 129 | U74999DL2000PTC104692 | CICO WATERPROOFING COMPANY PRIVATE LIMITED. |
| 130 | U24231HR2003PTC035055 | NEXUS MEDICHEM PRIVATE LIMITED |
| 131 | U45400DL2008SGC172772 | INPLAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 132 | U74140DL2008PTC172957 | GANGA EXPRESSWAY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 133 | U51909HR2004PTC035355 | ZONE FOUR MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 134 | U26109DL1999PTC099149 | SHYAMA GLASS PRIVATE LIMITED |
| 135 | U72900DL2004PTC126388 | NAVIGANT CALL CENTRE PRIVATE LIMITED |
| 136 | U29199DL2005PTC144197 | THERMO PRECISION TOOLS PRIVATE LIMITED |
| 137 | U01122DL1996PTC082529 | BUDS BIOTECH PRIVATE LIMITED |
| 138 | U51909DL2005PTC133091 | NEW WAY EXIM PRIVATE LIMITED |
| 139 | U74994DL2003PTC123349 | STYLE AND DECOR EXIM PRIVATE LIMITED |
| 140 | U18101DL2005PTC134452 | SHUBHI GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| 141 | U18101DL1998PTC093337 | RAGS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 142 | U74899DL1994PLC060606 | J P PHOSPHATES LIMITED |
| 143 | U65910DL1995PLC065865 | SAHUKAR LEASING AND FINANCE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 144 | U45201HR1990PTC030996 | PRASHJE ENGINEERING CONSTRUCTIONS PVT. LTD. |
| 145 | U65992HR1994PTC032369 | ALASKA CHITS PVT LTD |
| 146 | U65921HR1986PTC026346 | BLUE BIRD APPLIANCES PRIVATE LIMITED |
| 147 | U74899DL1992PTC048764 | TRINSHAKTI ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 148 | U74910DL1987PTC028808 | MANEX COSULTANTS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED |
| 149 | U51909DL2005PTC137220 | LAKSH TRADELINKS PRIVATE LIMITED |
| 150 | U67190DL1994PLC060127 | TANYA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| 151 | U74899DL1986PTC025324 | SHUBHRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED |
| 152 | U00000DL1997PTC087880 | NAMAH SHIVAYA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 153 | U72100DL1999PTC102028 | ELFIN SOFTECH PRIVATE LIMITED |
| 154 | U67120DL1999PTC098349 | SHUBHLAXMI SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 155 | U72200DL1998PTC092035 | BNB SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
| 156 | U57909HR2004PTC035551 | DHARTIPUTRA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 157 | U05001DL1982PLC014897 | SHIV GANGA FISHERIES LIMITED |
| 158 | U74899DL1988PTC032982 | CMDC DESIGN PRIVATE LIMITED |
| 159 | U74899DL1995PTC065923 | ANANT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 160 | U67120HR1994PTC032413 | RAJGAUTAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 161 | U74899DL1995PTC064647 | AGGU INVESTMENT AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 162 | U25209DL1997PTC088615 | POOJA PLASTOCHEM PRIVATE LIMITED |
| 163 | U74899DL1996PTC079138 | COOPERS AND LYBRAND (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 164 | U22122DL2002PTC114406 | PAVE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 165 | U65992HR1991PTC031245 | D.S.V. CHITS PRIVATE LIMITED |
| 166 | U18101DL2008PTC172249 | SNT LABELS & DATA CODES PRIVATE LIMITED |
| 167 | U31402DL1995PTC072579 | INDOVOLT BATTERY PRIVATE LIMITED |
| 168 | U74899DL1990PTC040001 | NOIDA NEWS PRIVATE LIMITED |
| 169 | U74899DL1995PLC066133 | GSR AGRO RESORTS LIMITED |
| 170 | U55103DL2001PTC110510 | AVALON HOLIDAYS PRIVATE LIMITED |
| 171 | U74899DL1985PTC021718 | N K FARMING PRIVATE LIMITED |
| 172 | U65921DL1989PTC036886 | USHIKA LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 173 | U01122HR2003PLC035115 | TANSI BIO-TECH (INDIA) LIMITED |
| 174 | U45200DL2007PTC158253 | FAST TRACK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 175 | U74899DL2001PTC110137 | FORT LEATHER PRIVATE LIMITED |
| 176 | U72200DL1996PTC080217 | SHAKUNTALA COMPUTERS & SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 177 | U28993DL1992PLC048999 | EAST DELHI VAULTS LIMITED |
| 178 | U51311DL2004PTC127188 | S R H EXIM PRIVATE LIMITED |
| 179 | U74899DL1972PTC006269 | TERA HOTEL AND RESTAURANTS PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 180 | U74899DL1994PTC062372 | RAPID LINKS PRIVATE LIMITED |
| 181 | U74899DL1990PTC041642 | KARANITA TEXPRINTS PRIVATE LIMITED |
| 182 | U65929DL1996PLC076718 | BINA FIN LEAS LIMITED |
| 183 | U02005DL1995PLC068476 | GANGA CAVERI AGRO FORESTRY LIMITED |
| 184 | U01119DL1992PLC048576 | IDASA AGRO INDIA LIMITED |
| 185 | U27109DL2003PTC120620 | TRIG STEELS PRIVATE LIMITED |
| 186 | U74899DL1990PTC040638 | K L MANCHANDA ACEDEMIC CENTRE PRIVATE LIMITED |
| 187 | U74899DL1995PLC069189 | MARINE RESOURCES INTERNATIONAL LLIMITED |
| 188 | U74999HR2001PTC034735 | KISAN SPRINKLER COMPANY PVT LTD |
| 189 | U15432DL1986PTC025168 | KAMAL PROTEINS PRIVATE LIMITED |
| 190 | U74899DL1993PTC052409 | SMAD PORTFOLIO PRIVATE LIMITED |
| 191 | U74140DL2004PTC125172 | SPECTRA EBIOS CONSULTING PRIVATE LIMITED |
| 192 | U74899DL1994PTC061444 | P K SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 193 | U65921DL1992PTC047096 | BBM FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED |
| 194 | U74999HR2004PTC035575 | SKH FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
| 195 | U74899DL1983PTC015070 | GHUMAN HOTELS PRIVATE LIMITED |
| 196 | U51909HR2004PTC035388 | NAVYA TRAEXIM PRIVATE LIMITED |
| 197 | U15400DL2008PTC173971 | RAMA SANDESH FOOD ZONE PRIVATE LIMITED |
| 198 | U72200DL2004PTC130582 | GETWELL INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 199 | U74999DL2000PTC104669 | KDM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
| 200 | U28111DL2004PTC129184 | MAXMIN FABRICATIONS PRIVATE LIMITED |
| 201 | U72900DL2007PTC170231 | RIVIERA INFOCOM PRIVATE LIMITED |
| 202 | U74899DL1989PTC035455 | CHANDSONS APPLIANCES PRIVATE LIMITED |
| 203 | U63045DL2005PTC132017 | SKY QUEEN TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 204 | U40101DL1995PLC070750 | ELECTRIC SUPPLY CO. (I) LIMITED |
| 205 | U74899DL1998PTC095171 | KHURANA DEPARTMENTAL STORE PRIVATE LIMITED |
| 206 | U74899DL1979PTC009885 | SURYA HOLDING PRIVATE LIMITED |
| 207 | U31909DL1996PTC077718 | ARHINTA AUDIO ARCADE PRIVATE LIMITED |
| 208 | U65923HR1999PTC034358 | MUKURIT FINANCIAL SERVICES PVT LTDD |
| 209 | U65910HR1995PLC032810 | SHRI SIDDARTH LEASING AND FINANCE LIMITED |
| 210 | U74899DL1993PTC051558 | CALTAN INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED |
| 211 | U86221DL2004PTC126745 | NEW AGE LEARNING PRIVATE LIMITED |
| 212 | U21000DL1984PTC018343 | OM PACKAGINGS PRIVATE LIMITED |
| 213 | U17214DL1996PLC079224 | TEXAS BREWING COMPANY LIMITED |
| 214 | U74899DL1995PTC072449 | REAL VALUE PUMPS PRIVATE LIMITED |
| 215 | U55101DL1999PTC099499 | BANON AND BRIAN (INDIA) PRIVATE LIMITED |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 216 | U70109DL2006PLC150288 | OZO CITIES LIMITED |
| 217 | U35921DL1993PLC055927 | SWIFT CYCLES LIMITED |
| 218 | U70109DL2006PLC150140 | OZO NRI RESIDENTA LIMITED |
| 219 | U51909DL2006PLC152367 | OZO EXIM WORLDWIDE LIMITED |
| 220 | U18101DL2007PTC161169 | AKG FABRICS PRIVATE LIMITED |
| 221 | U45201DL2006PLC145594 | OZO ESTATES LIMITED |
| 222 | U70101DL2006PTC148543 | LORD SHIVNANDAN FABRICS PRIVATE LIMITED |
| 223 | U01121DL1985PTC020309 | RUCHI FARMS PRIVATE LIMITED |
| 224 | U21022DL1998PTC096463 | ANANT CONTAINERS PRIVATE LIMITED |
| 225 | U65993DL1992PTC047081 | KALINDI CREDITS AND SCCURITIES PRIVATE LIMITED |
| 226 | U70109DL2006PTC149806 | FINE CARE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED |
| 227 | U85121DL2006PTC153455 | D I L EUROPE MEDICAL (ASIA) PRIVATE LIMITED |
| 228 | U74899DL1992PTC047253 | SHYAM FEB ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| 229 | U51109DL2000PTC104475 | JYOTI VISA SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 230 | U72900DL2000PTC105395 | SYNGLE I COM PRIVATE LIMITED |
| 231 | U25199DL1995PLC069570 | PROMAIN CABLES LIMITED |
| 232 | U74899DL1987PTC028662 | KAMLA NAGAR CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 233 | U22121DL2004PTC126333 | EKTA MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 234 | U74899DL2006PTC145200 | MADHUSUDAN INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| 235 | U74899DL1988PTC033403 | BANDHU CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 236 | U65992DL2000PTC106126 | GREEN VALLEY CHITS PRIVATE LIMITED |
| 237 | U45201DL2004PTC131395 | AZA BUILDERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED |
| 238 | U65992DL2004PTC127115 | NISHU CHITS PRIVATE LIMITED |
| 239 | U74899DL1995PTC067362 | DEASHA COMPUTERS PVT. LTD. |
| 240 | U74999DL2007PTC163828 | JASPER CORPORATE INDIA PRIVATE LIMITED |
| 241 | U74999DL2005PTC135088 | AKSHIT PLASTECH PRIVATE LIMITED |
| 242 | U18204DL2007PTC161958 | ILAKAM FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED |
| 243 | U74140DL2003PTC120283 | BHAJ GOVINDAM FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
| 244 | U65992HR1998PTC033845 | AKSHAT CHITS PRIVATE LIMITED |
| 245 | U51431DL1992PTC049802 | KAVITA SALES PRIVATE LIMITED |
| 246 | U29191DL1996PTC082636 | GAYATRI VAIBHAV TRADECOM PRIVATE LIMITED |
| 247 | U74999DL1991PTC043135 | PAWAN TANAY FUEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
| 248 | U51311DL2002PTC118199 | RADIANT CRAFTS PRIVATE LIMITED |
| 249 | U24130DL1994PLC062477 | MEMPHIS POLYMERS LIMITED |
| 250 | U63012DL2004PTC126700 | M.W.SHIPPING PRIVATE LIMITED. |

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shanta Laminates India Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00158—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shanta Laminates India Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Domus Art Gallery Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00135—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Domus Art Gallery Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trans Core Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd June 2011

No. 560(5)/20879—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Trans Core Marketing Private Limited
has this day been struck off the register and the said
company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kanpur-208001, the 23rd June 2011

No. LC/560(5)/102—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956,
that the following Companies have this day been struck
off the register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | CIN No. | Name of the Company |
|------------|------------|---|
| 1. | 016677 | M/s. Tribhuvan Laminators Private Limited |
| 2. | 027821 | M/s. Advantech Agro Consultants Private Limited |
| 3. | 008855 | M/s. Triveni Farms Private Limited |
| 4. | 025431 | M/s. Manfi Aviation Supplies Private Limited |
| 5. | 028414 | M/s. Priyadarshini Flour Mills Private Limited |
| 6. | 021614 | M/s. Opel Drugs Private Limited |
| 7. | 018748 | M/s. Sun Line India Housing Finance Limited |
| 8. | 032572 | M/s. Subhadra Motors Private Limited |
| 9. | 029376 | M/s. Fast Detective and Security Services Private Limited |
| 10. | 004694 | M/s. Tasty Beverages Private Limited |
| 11. | 032814 | M/s. Shree Bhairav Distilleries Limited |
| 12. | 003678 | M/s. Riviera Steels Private Limite |
| 13. | 023281 | M/s. Sarvatra Fuel Management and Consultants Private Limited |
| 14. | 029315 | M/s. Vinayak Vehicle Finance Company Private Limited |

M. P. SHAH
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 20th June 2011

No. TS/560(3)/578—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said Companies shall be dissolved :—

| S. No. | CIN | Company Name |
|--------|-----------------------|--|
| 1 | U45202PB1898PTC002729 | BACHITTER SINGH ANDSONS FINANCE PVT LTD |
| 2 | U45202CH1904PTC002559 | J A S INDUSTRIES (CHANDIGARH) PVT LTD |
| 3 | U65110PB1904PLC000006 | PUNJAB CO-OPERATIVE BANK LTD |
| 4 | U51909PB1922PTC000034 | ROSE AND CO PVT LTD |
| 5 | U15424PB1924PLC000043 | AMRITSAR SUGAR MILLS CO LTD |
| 6 | U99999HP1927PTC000833 | DAVICO PVT LTD |
| 7 | U60210PB1932PTC000077 | GUJRAWALA TRANSPORT FEROZEPUR CO PVT LTD |
| 8 | U65110PB1934PLC000115 | SHAKTI INSURANCE CO LTD |
| 9 | U67120PB1936PLC000172 | PUNJAB STOCK EXCHANGE LTD |
| 10 | U65110PB1936PLC000184 | TARN TARAN BANK LIMITED |
| 11 | U52395PB1937PTC000235 | TIMBERS PRIVATE LIMITED |
| 12 | U22190PB1937PTC000241 | SHIRI MAHA LAXMI COTTON GINNING AND PRINTING FACTORY PVT LTD |
| 13 | U22291PB1938PLC000276 | OM PRESS CO LTD |
| 14 | U63023PB1939PTC000673 | BHATINDA DYALBAGH STORES PVT LTD |
| 15 | U13209PB1940PLC000337 | GENERAL MINES AND QUARRIES LTD |
| 16 | U18101PB1941PTC000390 | MILTEX PVT LTD |
| 17 | U51909PB1941PTC000406 | PUNJAB INDUSTRIAL AND TRADING CORPORATION PVT LTD |
| 18 | U51909PB1942PTC000416 | INDIA AMMUNITION SYNDICATE PVT LTD |
| 19 | U60210PB1942PTC000434 | KANGRA GOODS TRANSPORT CO PVT LTD |
| 20 | U74999HP1943PTC000512 | JESICO ENTERPRISES PVT LTD |
| 21 | U36930PB1943PLC000542 | NORTH LAND SPORTS LIMITED |
| 22 | U51909PB1943PLC001965 | PUNJAB TRADING CO LTD |
| 23 | U18101PB1943PTC001834 | MINERVA HOSIERY MILLS PVT LTD |
| 24 | U60210PB1943PTC000602 | MALOUT TRANSPORT CO PVT LTD |
| 25 | U45202CH1943PTC000607 | SETH BROTHERS PVT LTD |
| 26 | U60210PB1944PTC000658 | ASIATIC TRANSPORT SERVICE PVT LTD |
| 27 | U99999PB1944PTC000672 | NATIONAL TRANSPORT AND GENERAL CO PVT LTD |
| 28 | U29219PB1944PTC000760 | GURPARSAD BROTHERS PVT LTD |
| 29 | U01111PB1945PLC000786 | LUDHIANA GRAIN EXCHANGE LIMITED |
| 30 | U60221PB1945PTC000816 | NEW JOLLY GOODS TRANSPORT CO PVT LTD |
| 31 | U60231PB1945PTC001106 | SURAJ GOODS CARRIERS PVT LTD |
| 32 | U15311PB1945PLC001991 | BHUPINDRA FLOOR MILLS LTD. |
| 33 | U60231HP1945PLC002021 | CHAMBA VALLEY TRANSPORT LIMITED |
| 34 | U52322PB1945PTC000941 | GANGA SAHAI SADH MAL PVT LTD |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 35 | U99999HP1946PLC001203 | SIMLA ZAMINDAR LIMITED |
| 36 | U26933PB1946PTC001003 | JANKIDASS INDUSTRIES PVT LTD |
| 37 | U99999HP1946PTC001044 | UTILITY METAL AND GENERAL INDUSTRIES PVT LTD |
| 38 | U51909PB1946PLC001078 | HINDUSTAN DEVELOPMENTS LIMITED |
| 39 | U85110PB1946PTC001087 | DR SARMAKH SINGH AND CO PVT LTD |
| 40 | U33117CH1946PLC001110 | SURGICO LTD |
| 41 | U24117PB1946PTC001118 | STREAM LINE INDUSTRIES PVT LTD |
| 42 | U74999CH1946PTC001103 | BHARAT CORPORATION PVT LTD |
| 43 | U99999CH1946PLC001119 | STAR OF INDIA LIMITED. |
| 44 | U15311PB1946PLC001136 | OKARA GRAIN BUYERS SYNDICATE LTD |
| 45 | U67120PB1946PLC001137 | SHRI KRISHNA AGGARWAL EXCHANGE LIMITED |
| 46 | U29219PB1946PTC001133 | KAY CHOUDRY AND CO PVT LTD |
| 47 | U24100HP1946PLC001145 | AZAD HIND CHEMICALS LIMITED |
| 48 | U34300PB1946PTC000916 | AUTOMOTIVES PVT LTD |
| 49 | U29219PB1946PTC001151 | JANTA ENGINEERING WORKS PVT LTD |
| 50 | U24232PB1946PTC001149 | AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
| 51 | U15311PB1947PTC001977 | KAPURTHALA FLOUR OIL AND GENERAL MILLS CO PVT LTD |
| 52 | U51909PB1947PLC001317 | NAKODAR NATIONAL TRADING CO LTD |
| 53 | U99999CH1947PTC002721 | NILHI FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 54 | U70101CH1947PTC002726 | NAVJIVAN ESTATES PVT LTD |
| 55 | U24291PB1947PLC002227 | DAULAT INDUSTRIAL CORPORATION LTD |
| 56 | U51431PB1948PLC001340 | ONKAR TRADERS LTD |
| 57 | U40101PB1948PLC000054 | KASALI ELECTRIC SUPPLY CO LTD |
| 58 | U15544PB1948PTC001435 | THE DURGA ICE AND GENERAL MILLS PVT LTD |
| 59 | U19201PB1948PTC002016 | CHAMAN SHOE CO PVT LTD |
| 60 | U60210PB1948PTC002017 | GONDARA TRANSPORT CO PVT LTD |
| 61 | U45202PB1948PTC000002 | GOUDENA TARNSPORT COMPANY PVT LTD |
| 62 | U29212PB1948PLC001373 | INDUSTRIALS AND AGRICULTURALS LTD |
| 63 | U65999PB1948PLC001409 | Free India Commercial Corporation Limited |
| 64 | U51909PB1948PTC002504 | DWARKA DAS AND CO PATIALA PVT LTD |
| 65 | U51909PB1948PLC001433 | NATIONAL TRADING CORPN LTD |
| 66 | U99999HP1948PTC001437 | NEW VALLEY VIEW TRANSPORT PVT LTD |
| 67 | U92111PB1948PTC001436 | RAMNIK KALA MANDIR PVT LTD |
| 68 | U99999HP1949PTC001460 | JUBILEE HIGHWAYS TRANSPORT PVT LTD |
| 69 | U22219PB1949PTC001475 | BHARAT PRINTING PRESS PVT LTD |
| 70 | U92111PB1949PTC001499 | SHIVALIK TALKIES PRIVATE LIMITED |
| 71 | U60210PB1949PTC002052 | BARNALA TRANSPORT SERVICE PVT LTD |
| 72 | U45202PB1949PTC000068 | SWADHEEN SAHITYA PVT LTD |
| 73 | U60210PB1949PTC001565 | MURREE HILL TRANSPORT CO PVT LTD |
| 74 | U29219PB1949PTC002310 | MODERN FOUNDRY WORKS PVT LTD |
| 75 | U45202PB1949PTC001720 | MODERN FOUNDRY WORK PVT LTD |
| 76 | U60210PB1950PTC002071 | PATIALA BUS SERVICE PVT LTD |
| 77 | U60210PB1950PTC002073 | MALER KOTLA BUS SERVICE PVT LTD |
| 78 | U33119CH1950PTC001623 | SAITH AND SKELTON PVT LTD |
| 79 | U60210PB1950PTC002074 | PEPSU TRANSPORT CO PVT LTD |
| 80 | U45202PB1950PTC002077 | THE PEPSU TRANSPORT COMPANY PVT LTD |
| 81 | U51909PB1950PTC001627 | TRADEX PVT LTD |
| 82 | U60210PB1950PLC002083 | BHATINDA TRANSPORT CO LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 83 | U99999HP1950PTC001645 | NEW CHINIOT TRANSPORT CO PVT LTD |
| 84 | U67120PB1951PLC001653 | PUNJAB STEEL STOCK-HOLDERS SYNDICATE LTD. |
| 85 | U65110PB1951PLC000023 | BARI DOAB BANK LTD |
| 86 | U60210PB1951PTC002105 | MANSA ROADWAYS PVT LTD |
| 87 | U60210PB1951PTC002108 | ALOWAL BUS SERVICE PVT LTD |
| 88 | U51909PB1951PTC001702 | ESGIN INDIA PVT LTD |
| 89 | U45202PB1952PTC002119 | KOT KAPURA CHAMBER OF COMMERCE PVT LTD |
| 90 | U65921PB1952PTC001877 | DOABA FINANCE PVT LTD |
| 91 | U99999HP1952PTC001747 | HOTZ INDUSTRIES PVT. LTD. |
| 92 | U65922PB1952PTC001759 | MALOUDH FARMS PVT.LTD. |
| 93 | U51909PB1952PTC001769 | IMPORT CORPORATION PVT LTD |
| 94 | U50500PB1952PTC001771 | BAIJ NATH SURAJDEV PVT LTD |
| 95 | U65921PB1952PTC001750 | AMRITSAR HIRE PURCHASE AND FINANCING CO PVT LTD |
| 96 | U15311PB1952PLC001780 | PUNJAB FLOUR AND GENERAL MILLS CO LTD |
| 97 | U65921PB1953PTC001787 | PUNJAB FINANCE AND INDUSTRIES PVT LTD |
| 98 | U65922PB1953PTC001788 | THE MALWA LAND AND INDUSTRIES PVT LTD |
| 99 | U52100PB1953PTC001792 | SARUP AND SONS PVT LTD |
| 100 | U60210PB1953PTC001794 | NEW JANTA BUS SERVICE PVT LTD |
| 101 | U45202PB1953PLC000205 | NEW HITHAR BUS SERVICE LIMITED |
| 102 | U70102PB1953PLC002140 | JANTA CORPORATION LTD |
| 103 | U60221PB1953PTC002144 | PREM BUS SERVICE PVT LTD |
| 104 | U51909PB1953PTC001815 | NEELAM FINANCE AND TRADING CO PVT LTD |
| 105 | U60231PB1953PLC001820 | LUDHIANA NATIONAL TRANSPORT CO LTD |
| 106 | U60221PB1953PTC002146 | FATEH GARH SAHIB BUS SERVICE PVT LTD |
| 107 | U65291PB1954PTC002161 | BACHITTAR SINGH AND SONS FINANCE PVT LTD |
| 108 | U26922CH1954PTC001839 | H S DUGGAL AND CO PVT LTD |
| 109 | U60210PB1954PTC001849 | CHANDIGARH TRANSPORT CO PVT LTD |
| 110 | U70101PB1954PLC002160 | BHARAT DEVELOPMENT LTD |
| 111 | U60210PB1954PTC002163 | KHATRA BUS SERVICE PVT LTD |
| 112 | U51909PB1955PTC002001 | SETH CHANDAR PARKASH SURAJ PARKASH PRIVATE LIMITED |
| 113 | U65922PB1955PTC001870 | FEROZEPUR FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 114 | U99999PB1955PLC002166 | BHATINDA MAHABIR COMPANY LIMITED |
| 115 | U29265PB1955PTC002171 | VISHAV SEWING MACHINE INDUSTRIES PVT LTD |
| 116 | U45202PB1955PLC000239 | VISHAV SEWING MACHINE INDUSTRIES LTD |
| 117 | U60210PB1956PTC002177 | GARG TRANSPORT SOCIETY PVT LTD |
| 118 | U51909PB1956PLC001904 | ZORDORS LIMITED |
| 119 | U25111PB1956PTC001906 | VIR CHAKAR CYCLE CO PVT LTD |
| 120 | U31909PB1956PTC001908 | KARAMJIT ELECTRICAL MFG CO PVT LTD |
| 121 | U17123PB1956PTC001909 | LAL TEXTILE FINISHING MILLS PVT LTD |
| 122 | U65921PB1956PTC001913 | AIR BIKE INDUSTRIAL AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 123 | U65921PB1956PTC001918 | FINANCE AND INDUSTRIAL CORPORATION PRIVATE LIMITED |
| 124 | U60210PB1956PTC001921 | NEW PHAGWARA TRANSPORTERS PVT LTD |
| 125 | U15141PB1956PTC001922 | SAMRALA OIL MILLS PVT LTD |
| 126 | U67120PB1956PTC002183 | MANAV SAHAYOG PVT LTD |
| 127 | U60210PB1957PTC002207 | RANDHAWA TRANSPORT CO PVT LTD |
| 128 | U60210PB1957PTC002210 | MUSAFIR TRANSPORT CO PVT LTD |
| 129 | U91990PB1957PTC002212 | JULLUNDUR DIST REGD IANDS STOCK HOLDERS ASSOCIATION PVT LTD |
| 130 | U60221PB1957PTC002221 | NEW KHALSA ROADWAYS CO PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 131 | U17121PB1957PTC002230 | BAL SILK WEAVING CO PVT LTD |
| 132 | U65921PB1958PTC002246 | HOSHIARPUR NATIONAL HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 133 | U65910PB1958PTC002250 | DESH FINANCE PVT LTD |
| 134 | U65921PB1959PTC002268 | SHIWALIK FINANCE PVT LTD |
| 135 | U51909PB1959PLC002271 | BHATINDA CHAMBER OF COMMERCE LTD |
| 136 | U60231PB1959PTC002281 | UPPER INDIA TRANSPORT CO PVT LTD |
| 137 | U65921PB1960PTC002301 | PATIALA HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 138 | U65921PB1960PTC002312 | KIRAN FINANCIERS PVT LTD |
| 139 | U65921PB1960PTC002316 | NORTHERN FINANCIERS PRIVATE LIMITED |
| 140 | U70101PB1960PTC002320 | PUNJAB TOWN PLANNERS AND BUILDERS PVT LTD |
| 141 | U31109PB1960PLC002187 | KASAUJI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED |
| 142 | U65921CH1960PTC002339 | SATNAM FINANCIERS PVT LTD |
| 143 | U60210PB1960PTC002345 | AMRITSAR PATHANKOT BUS SERVICE PVT LTD |
| 144 | U60210PB1960PTC002347 | JULLUNDUR TRANSPORT CO PVT LTD |
| 145 | U17115PB1960PTC002351 | LUDHIANA YARN SYNDICATE PVT LTD |
| 146 | U60231PB1961PTC002360 | SANDHU TRANSPORT CO PVT LTD |
| 147 | U65921PB1961PTC002363 | EXPRESS HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 148 | U65922PB1961PTC002366 | JOUSHI COLONIZERS PVT LTD |
| 149 | U65921PB1961PLC002309 | CARRIER FINANCE AND CINEMA SOCIETY LTD |
| 150 | U65922PB1961PTC002368 | SEHGAL COLONIZERS AND FINANCIERS PVT LTD |
| 151 | U60210PB1961PTC002372 | BRAR TRANSPORT CO PVT LTD |
| 152 | U65921PB1961PTC002373 | PEARL MOTOR AND GENERAL FINANCIERS PVT LTD |
| 153 | U65992PB1961PTC002378 | NORTHERN INDIA CHIT FUND CO PVT LTD |
| 154 | U65921CH1961PTC002382 | ADRASH CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 155 | U65921PB1961PTC002386 | BRAR FINANCE PVT LTD |
| 156 | U60231PB1961PTC002388 | MALWA TRANSPORT CO PVT LTD |
| 157 | U65921PB1961PTC002395 | MAHALAKSHMI CINE CREDITS AND DISTRIBUTORS PVT LTD |
| 158 | U65921PB1961PTC002403 | KAILASH FINANCIERS PVT LTD |
| 159 | U31909PB1961PTC002415 | VIKON ELECTRICAL WORKS PVT LTD |
| 160 | U45202PB1962PTC002416 | THE ANMOL MOTOR FINANCE PVT LTD |
| 161 | U65921CH1962PTC002418 | SUNIL FINANCIERS AND TRADERS PVT LTD |
| 162 | U60210PB1962PTC002425 | GREWAL TRANSPORT PVT LTD |
| 163 | U65921PB1962PTC002428 | POPULAR FINANCE CO PVT LTD |
| 164 | U65921PB1962PTC002441 | MARSURY MOTOR FINANCE CORPN PVT LTD |
| 165 | U60210PB1962PTC002442 | AHMEDGARH TRANSPORT CO PVT LTD |
| 166 | U26914PB1962PTC002450 | SEHGAL SANITARY FITTINGS PVT LTD |
| 167 | U65921PB1962PTC002455 | JASBIR FINANCE PVT LTD |
| 168 | U60231PB1962PTC002457 | SUTLEJ GOODS CARRIERS PVT LTD |
| 169 | U65921PB1963PTC002466 | SEWAK CHIT FUND PVT LTD |
| 170 | U27106PB1963PTC002209 | GURU NANAK STEEL WORKS PRIVATE LIMITED |
| 171 | U65921PB1963PTC002495 | GLORY FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 172 | U65921PB1963PTC002498 | SHARMA CHIT FUND PVT LTD |
| 173 | U45202PB1963PLC001860 | SOUTH PUNJAB ELECTRICITY CORPORATION LTD |
| 174 | U65921PB1963PTC002503 | NEW SURAJ FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 175 | U65921PB1963PTC002508 | WALIA CHIT FUND PVT LTD |
| 176 | U65921PB1964PTC002514 | MAHABIR ASHWANI LUCKY (CHIT FUND) CO PVT LTD |
| 177 | U65931PB1964PTC002521 | DIAMOND FAIRDEAL PVT LTD |
| 178 | U65921CH1964PTC002522 | JANARDHANA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 179 | U19201PB1964PTC002526 | SANDY SHOE CO PVT LTD |
| 180 | U29303PB1964PTC002525 | KHOSLA FANS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| 181 | U51101CH1964PTC002530 | HARI INDUSTRIAL AGENCIES PVT LTD |
| 182 | U45202PB1964PTC001375 | J M A EXPORTS PVT LTD |
| 183 | U65921PB1964PTC002539 | WHITE WAY FINANCIERS PVT LTD |
| 184 | U60210PB1964PTC002547 | DASHMESH TRANSPORT CO PVT LTD |
| 185 | U65921PB1964PTC002555 | DASHMESH FINANCE AND INDUSTRIES PVT LTD |
| 186 | U65921PB1964PTC002558 | RAVINSONS FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 187 | U65921CH1964PTC002564 | DHRAVA CHIT FUND AND FINANCES PVT LTD |
| 188 | U45202PB1964PTC002565 | PREM TRADING AND INDUSTRIAL ENTERPRISES PVT LTD |
| 189 | U65921PB1964PTC002566 | GUNDEEP FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 190 | U65921PB1964PTC002570 | DHAWAN FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 191 | U65921PB1964PTC002571 | SODHI CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 192 | U65921PB1964PTC002572 | CHOHAN FINANCIERS CHIT FUND AND TRADING CO PVT LTD |
| 193 | U27209PB1964PTC002575 | PILLER METAL CO PVT LTD |
| 194 | U65921PB1965PTC002578 | DECENT FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 195 | U65921PB1965PTC002580 | KHOSLA FINANCE PVT LTD |
| 196 | U65992PB1965PTC002585 | R L BALDEV RAJ FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 197 | U27209PB1965PTC002588 | RAMESH INDUSTRIES PVT LTD |
| 198 | U65921PB1965PTC002596 | FLYING CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 199 | U65921PB1965PTC002597 | EARN WELL FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 200 | U65921PB1965PTC002599 | SIMLA FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 201 | U65921PB1965PTC002335 | ONKAR HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED |
| 202 | U65921PB1965PTC002603 | SURAJ BACHAT YOJNA PVT LTD |
| 203 | U24119CH1965PTC002604 | JATENDRA CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD |
| 204 | U65921PB1965PTC002607 | SHALIMAR FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 205 | U65921PB1965PTC002609 | DEE PEE H FINANCE AND INDUSTRIES PVT LTD |
| 206 | U65921PB1965PTC002611 | BHAGAT SINGH GENERAL FINANCIERS PVT LTD |
| 207 | U65921CH1965PTC002614 | SARDAR FINANCIERS PVT LTD |
| 208 | U60221PB1965PTC002617 | HARIJAN BUS SYNDICATE PVT LTD |
| 209 | U65921PB1965PTC002624 | GLOBE HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 210 | U65921CH1965PTC002626 | CHANDIGARH MUTUAL BENEFIT INSTALMENT CO PVT LTD |
| 211 | U65921PB1965PTC002627 | DOABA HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 212 | U65921PB1966PTC002633 | PRITAM CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 213 | U27106PB1966PTC002634 | REDNAZE PVT LTD |
| 214 | U45202CH1966PTC002635 | RATTAN CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 215 | U45202PB1966PTC002646 | GHAIR ROADWAYS AND FINANCIERS PVT LTD |
| 216 | U74999PB1966PTC002660 | SETH PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 217 | U65921PB1966PTC002659 | PEARL BACHAT SCHEMES AND FINANCIERS PVT LTD |
| 218 | U65921PB1966PTC002664 | GUIDE FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 219 | U65921PB1966PTC002665 | B M FINANCIERS PVT LTD |
| 220 | U65921PB1966PTC002670 | BAINS CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 221 | U65921PB1966PTC002672 | GARG CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 222 | U65921PB1966PTC002674 | KASHMIR CHIT FUND AND HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 223 | U65921PB1966PTC002678 | NANU CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 224 | U24231PB1966PTC002685 | HANSRAJ NAYYAR SURGICAL PVT LTD |
| 225 | U65921PB1967PTC002687 | PATHANKOT FINANCE PVT LTD |
| 226 | U65921PB1967PTC002688 | KRANTI LAND AND FINANCE PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 227 | U45202PB1967NPL002690 | PUNJAB COTTAN GROWEAS AND TRADERS ASSOCIATION LIMITED |
| 228 | U65921PB1967PTC002692 | HOSHIARPUR CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 229 | U65921PB1967PTC002698 | FINANCE AND FUNDS PVT LTD |
| 230 | U65921PB1967PTC002709 | PUSIKARNA CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 231 | U65992PB1967PTC002711 | BAL GOPAL CHIT FUND FINANCE PVT LTD |
| 232 | U24219CH1967PTC002714 | CHEMICALS AND PESTICIDES PVT LTD |
| 233 | U65921PB1967PTC002715 | CHANANA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 234 | U65921PB1967PTC002716 | LOK LAND AND FINANCE PVT LTD |
| 235 | U51909CH1967PTC002728 | PLAMINATES CHANDIGARH PVT LTD. |
| 236 | U29211PB1967PTC002732 | LUDHIANA THRASHERS SALES PVT LTD |
| 237 | U65921PB1967PTC002733 | PHAGWARA FINANCE PVT LTD |
| 238 | U65921PB1967PTC002734 | NIRANKARI FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD. |
| 239 | U65921PB1967PTC002736 | ARUN RASHMI FINANCIERS PVT LTD |
| 240 | U65921PB1967PTC002738 | NANGAL FINANCE AND INVESTMENT CO PVT LTD |
| 241 | U65921PB1967PTC002739 | MOHAN MAYA CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 242 | U65921PB1968PTC002742 | PEEKAY CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 243 | U65921PB1968PTC002747 | TIC CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 244 | U65921PB1968PTC002751 | EK JOT CHIT FUND FINANCIERS PVT LTD |
| 245 | U60210PB1968PTC002752 | PATIALA BUS SIRHIND PVT LTD |
| 246 | U45202PB1968PTC002700 | HIGHWAY FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 247 | U65921CH1968PTC002756 | JANVIKAS GENERAL FINANCE CO PVT LTD |
| 248 | U65921PB1968PTC002757 | FANCY CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 249 | U65921PB1968PTC000261 | DESH LUCKY FUND PVT LTD |
| 250 | U65921PB1968PTC002760 | TINY FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 251 | U65921PB1968PTC002762 | BATRA CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 252 | U65921PB1968PTC002763 | GLOVE HIGHWAYS FINANCE CO PVT LTD |
| 253 | U65921PB1968PTC002764 | CLASSIC DEPOSITS AND ADVANCES PRIVATE LIMITED |
| 254 | U19202CH1968PTC002765 | PLASTICWEARS PVT LTD |
| 255 | U65921PB1968PTC002766 | OWN YOUR HOUSE PVT LTD |
| 256 | U65921PB1968PTC002767 | M.D. TRADERS AND CHIT FUND FINANCIERS PVT LTD. |
| 257 | U60210HP1968PTC002771 | NAGARKOT ARYAN TRANSPORT CO PVT LTD |
| 258 | U65921PB1968PTC002773 | SHAH FINANCIERS AND LUCKY SCHEMES PVT LTD |
| 259 | U65921PB1968PTC002774 | R M LUCKY SCHEME AND FINANCIERS PVT LTD |
| 260 | U60221PB1968PTC002775 | FATEH GARH SAHIB MOTOR TRANSPORT CO PVT LTD |
| 261 | U65921PB1968PTC002777 | BEACON FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 262 | U65921PB1968PTC002778 | KAMYAB CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 263 | U65921HP1968PTC002779 | EMPLOYEES FINANCIERS PVT LTD |
| 264 | U65921PB1968PTC002780 | KALGIDHAR LUCKY CHIT FUND PVT LTD |
| 265 | U65921PB1968PTC002782 | UMNAT FINANCE AND LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 266 | U65921PB1968PTC002784 | DEEP LUCKY SCHEME AND FINANCIERS PVT LTD |
| 267 | U65921PB1968PTC002786 | ANAND LUCKY CHIT FUND PVT LTD |
| 268 | U65921PB1968PTC002792 | UPKAR FINANCIERS AND CHIT FUND LUDHIANA PVT LTD |
| 269 | U65921CH1968PTC002789 | ZAMINDARA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 270 | U65921PB1968PTC002796 | HARBHAJAN LUCKY CHIT FUND PVT LTD |
| 271 | U65921PB1968PTC002797 | NOVELTY FINANCE AND LUCKY CHIT CO PVT LTD |
| 272 | U65921PB1968PTC002799 | VEEMSON CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 273 | U65921CH1969PTC002803 | ARYAN CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 274 | U28939PB1969PTC002806 | THAPAR ENGINEERING WORKS PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 275 | U65921PB1969PTC002813 | FINANCE AIDS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 276 | U60231HP1969PTC002814 | HIMALAYA GOODS CARRIERS PVT LTD |
| 277 | U28939PB1969PTC002816 | JOLLY ENGINEERS AND CONTRACTORS PVT LTD |
| 278 | U65921PB1969PTC002817 | ROOPJEET LUCKY SCHEME AND FINANCE PVT LTD |
| 279 | U65921HP1969PTC002818 | HIMACHAL SECURITY AND FINANCE PVT LTD |
| 280 | U74999PB1969PTC002819 | SUTLEJ COMMERCIAL CORPN PVT LTD |
| 281 | U65921PB1969PTC002820 | GENTLE FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 282 | U65921PB1969PLC002821 | SHASTRY LUCKY DROMS AND FINANCE CO LTD |
| 283 | U65921PB1969PTC002822 | MEHRA KHANNA LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 284 | U65921PB1969PLC002823 | MODERN LUCKY DRAWS AND FINANCE CO LTD |
| 285 | U65921PB1969PTC002826 | CHETANA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 286 | U51909PB1969PLC002827 | TELU RAM JAIN AND CO LTD |
| 287 | U60304CH1969FTC002829 | CHANDIGARH TOURIST SYNDICATES PVT LTD |
| 288 | U36109HP1969PTC002830 | HIMACHAL SAWS PVT LTD |
| 289 | U65921PB1969PTC002833 | MASTER CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 290 | U65921PB1969PTC002834 | SINCERE FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 291 | U65921PB1969PTC002836 | PERFECT CHIT FUND AND FINANCE CO PRIVATE LIMITED |
| 292 | U65921PB1969PTC002837 | RUBINA CHIT AND FINANCE CO PVT LTD |
| 293 | U65921PB1969PTC002838 | TRIPLEX LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 294 | U60210HP1969PTC002841 | HIMACHAL TRANSPORT SERVICES PVT LIMITED |
| 295 | U65999PB1969PTC002843 | RIGHTWAYS CHIT FUND PVT LTD |
| 296 | U34300PB1969PTC002844 | NEW SURAJ AUTO REPAIRS PVT LTD |
| 297 | U65921PB1969PTC002849 | ACTIVE FINANCE AND LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 298 | U65921PB1969PTC002852 | FREE FLOW FINANCING CHIT FUND CO PVT LTD |
| 299 | U65921PB1969PTC002853 | DESHLAJ FINANCE HIRE PURCHASE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 300 | U65921PB1969PTC002856 | AVON CHIT FUND FINANCIERS PVT LTD |
| 301 | U65921PB1969PTC002861 | BEE KAY CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 302 | U65921PB1969PTC002863 | MANSROVAR FINANCE AND LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 303 | U65921PB1969PTC002865 | HAMDARD LUCKY SCHEMES AND FINANCE CO PVT LTD |
| 304 | U65921PB1969PTC002867 | CINE PAYAL FINANCE CO PVT LTD |
| 305 | U65921PB1969PTC002868 | SAMRAT FINANCE AND LUCKY CHIT CO PVT LTD |
| 306 | U28999PB1969PTC002869 | PAUL DISOS INDIA PVT LTD |
| 307 | U65921PB1969PTC002870 | JAGMOHAN CHIT FUND AND LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 308 | U65921PB1969PTC002871 | SINGH LUCKY SCHEME AND FINANCE PVT LTD |
| 309 | U65921PB1969PTC002872 | MANJEET CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 310 | U65921PB1969PTC002874 | MAHINDRA FINANCIERS AND LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 311 | U65921PB1969PTC002875 | TEE AAM KAY FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 312 | U32109PB1969PTC002876 | BALKAR ELECTRONICS PVT LTD |
| 313 | U65999PB1969PTC002877 | THE LONGLIFE MONEY CIRCULATION CO PVT LTD |
| 314 | U65999PB1969PTC002878 | SHAKTIWAN CHIT FUND AND LUCKY SCHEME PVT LTD |
| 315 | U65999PB1969PTC002879 | MUKADDAR LUCKY AND CHIT FUND PVT LTD |
| 316 | U65921PB1969PTC002883 | NAV BHARAT FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 317 | U51909CH1969PTC002888 | RAJIV TRADING CO PVT LTD |
| 318 | U65921PB1969PTC002889 | SAWAN FINANCIERS AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 319 | U65921PB1969PTC002892 | MANJKEE FINANCE PVT LTD |
| 320 | U22219CH1969PTC002894 | YAMUNA PRESS PVT LTD |
| 321 | U65921PB1970PTC002897 | DEEPAVALI LUCKY SCHEME AND FINANCIERS PVT LTD |
| 322 | U65921PB1970PLC002902 | AMAR HITKARI FINANCE AND TRADING CO LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 323 | U65921PB1970PTC002903 | GOEL FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 324 | U65921CH1970PTC002906 | OVERSEAS FINANCE AND INVESTMENT CO PVT LTD |
| 325 | U65999PB1970PTC002908 | SHAM CHIT FUND PVT LTD |
| 326 | U27104PB1970PTC002911 | STEEL FABRICATORS (INDIA) PVT LTD |
| 327 | U70101PB1970PTC002916 | NIRBHAI LAND AND AGRO INDUSTRIES PVT LTD |
| 328 | U60210PB1970PTC002919 | ANIL TRANSPORT CO PVT LTD |
| 329 | U28910PB1970PTC002920 | JAGATJIT FASTENERS PVT LTD |
| 330 | U65921PB1970PTC002929 | TIJINDER FINANCE AND CHIT FUND (LUCKY) SCHEME PVT LTD |
| 331 | U51909PB1970PTC002933 | SHER-I-PUNJAB TRADERS AND FINANCIERS PVT LTD |
| 332 | U45202PB1970PLC002936 | WADHERA MOTION PICTURES LTD |
| 333 | U65921PB1970PTC002937 | NISHAT LUCKY SCHEME FINANCIERS PVT LTD |
| 334 | U65921PB1970PTC002938 | AZAD HIND FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 335 | U65110PB1970PLC002939 | PYARA BANK LTD |
| 336 | U24241HP1970PTC002940 | KRISHNA SOAP MANUFACTURERS PVT LTD |
| 337 | U65921PB1970PTC002944 | KABIR LUCKY SCHEMES AND FINANCIERS PVT LTD |
| 338 | U45201CH1970PTC002946 | ORIENTAL CONSTRUCTION DELHI PVT LTD. |
| 339 | U65921PB1970PTC002947 | RAYYA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 340 | U65921PB1970PTC002949 | AJEET FINANCIERS PVT LTD |
| 341 | U60213PB1970PTC002951 | ADARSH FINANCIERS AND TRANSPORTERS PVT LTD |
| 342 | U65992PB1970PTC002961 | KHURANA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 343 | U60210PB1970PTC002962 | SAMUNDRI ROADWAYS PVT LTD |
| 344 | U65921PB1970PTC002973 | GROVER VILLA FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 345 | U15314PB1971PTC003028 | CHOHAN HUTTAMAKI INDIA PVT LTD |
| 346 | U65921PB1971PTC002986 | JINDAL FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 347 | U65921PB1971PTC002985 | UNITED MOTOR FINANCIERS PVT LTD |
| 348 | U18109PB1971PTC002988 | BEN BIRDS SHIRTS PVT LTD |
| 349 | U65921PB1971PTC002989 | MARVEL FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 350 | U65921PB1971PTC002990 | KALPNA LOK FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 351 | U65992PB1971PTC002993 | M H FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 352 | U60231PB1971PTC002992 | QUICK CARRIERS PVT LTD |
| 353 | U65921HP1971PTC002994 | HIMACHAL CHIT FUND PVT LTD |
| 354 | U65921PB1971PTC003001 | SIMPLEX FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 355 | U65921PB1971PTC003002 | GREAT SOCIETY FINANCIERS & CHIT FUND PVT LTD |
| 356 | U65921HP1971PTC003008 | KANGRA VALLEY FINANCIERS & CHIT FUND COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 357 | U65921PB1971PTC003019 | FIRDOS FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 358 | U65921PB1971PTC003021 | FOREX CHIT FUND & FINANCIER COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 359 | U65921PB1971PTC003023 | AMRITSAR ORIENTAL FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 360 | U29219PB1971PTC003025 | ZIMINDARA EQUIPMENTS PVT LTD |
| 361 | U65992HP1971PTC003026 | PALAMPUR FINANCE AND CHIT FUND CO PRIVATE LIMITED |
| 362 | U65921PB1971PTC003030 | NAV TARANG FINANCE & CHIT FUND PVT LTD |
| 363 | U65921HP1971PTC003031 | TRUSTWORTHY FINANCIERS PVT LTD |
| 364 | U65921PB1971PTC003039 | BATALA CHIT FUND AND FINANCIERS CO PVT LTD |
| 365 | U65921PB1971PTC003043 | KISAN FINANCIERS & CHIT FUND COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 366 | U17116PB1971PTC003045 | BEDI WOOLLEN AND SILK MILLS PVT LTD |
| 367 | U65921PB1971PTC003049 | M. J. S. FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 368 | U65921PB1971PTC003050 | SAT KARTAR HIRE PURCHASE AND LAND COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 369 | U15322PB1971PLC003010 | BHAGWANPURA SUGAR MILL LTD. |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 370 | U45202CH1971PTC003052 | POPLI CHIT FUND PVT LTD |
| 371 | U70101PB1971PTC003055 | MODEL LINE COLONISERS PVT LTD |
| 372 | U65921PB1971PTC003056 | R. C. SONS FINANCERS & CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 373 | U65921PB1971PTC003057 | GEE VEE FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 374 | U65921PB1971PTC003059 | PARVAT FINANCIERS PRIVATE LIMITED |
| 375 | U65921PB1971PTC003058 | PUNJHIM FINANCE & CHIT FUND COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 376 | U45202PB1971PTC003061 | INTEREXPORTS INDIA PVT LTD |
| 377 | U65921PB1971PTC003065 | VIVEK CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 378 | U65921PB1971PTC003071 | AMRITSAR DHANKUBER FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 379 | U65921PB1971PTC003072 | UNITED BROTHERS FINANCERS PVT LTD |
| 380 | U65921PB1971PTC003073 | BHATTI FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 381 | U65921PB1971PTC003079 | SUNAM CHIT FUND AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 382 | U70101PB1971PTC003080 | K. C. ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 383 | U50103PB1971PTC003082 | NADHU SHAH KAPUR AGENCIES PVT LTD |
| 384 | U65921PB1972PTC003089 | M.C. CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 385 | U60210PB1972PTC003090 | HEM KUND BUS SERVICE PVT LTD |
| 386 | U65921PB1972PTC003091 | B. D. CHIT FUND & FINANCIERS PRIVATE LIMITED |
| 387 | U28112HP1972PTC003105 | CHAMBA METAL INDUSTRIES PVT LTD |
| 388 | U29212PB1972PTC003097 | DOABA EX SERVICEMAN AGRO INDUSTRIES PVT LTD |
| 389 | U65921HP1972PTC003095 | SUBHASH FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 390 | U65992PB1972PTC003099 | B C S KARTAR CHIT & FUND FINANCE PVT LTD |
| 391 | U01119CH1972PTC003100 | ECHEL MEHRA PVT LTD |
| 392 | U65921PB1972PTC003102 | SHRI VIJAYANAND FINANCIERS AND TRADING CO PVT LTD |
| 393 | U65921PB1972PTC003103 | RANDHIR FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 394 | U63040PB1972PLC003104 | PANCH NAD TRAVELS INDIA LTD |
| 395 | U65921PB1972PTC003098 | KULWINDER FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 396 | U65921PB1972PTC003107 | GAMBHIR CHIT FUND AND FINANCES PVT LTD |
| 397 | U65921PB1972PTC003109 | PICADILY FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 398 | U65921PB1972PTC003116 | HAMARA FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 399 | U65921PB1972PTC003118 | MINAR CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 400 | U65921HP1972PTC003119 | BALABIR FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 401 | U65921PB1972PTC003120 | ANMOL FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 402 | U65992PB1972PTC003123 | LUNGIWALA FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 403 | U65921PB1972PTC003126 | NAGINA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 404 | U92111CH1972PTC003127 | CHANDI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| 405 | U65921PB1972PTC003128 | KOCHHAR FINANCIAL AND CHIT FUND CO PRIVATE LIMITED |
| 406 | U55101HP1972PTC003129 | JOHNSON'S HOTEL AND LAND DEVELOPMENT PVT LTD |
| 407 | U65921PB1972PTC003132 | CHAWLA CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 408 | U65921PB1972PTC003134 | GUNOPUR FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 409 | U65921PB1972PTC003435 | PAKEEZAH CHIT FUND AND FINANCE CO PRIVATE LIMITED |
| 410 | U28939PB1972PTC003136 | BASAL TODD CO PVT LTD |
| 411 | U65992PB1972PTC003138 | RENU CHIT FUND AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 412 | U65921PB1972PTC003141 | SHREE GANESH PARVATI CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 413 | U15321PB1972PTC003142 | PUNJAB BONE AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD |
| 414 | U65921PB1972PTC003144 | SONEKA CHIT FUND AND FINANCIERS PRIVATE LIMITED |
| 415 | U24246PB1972PTC003145 | VEE COSMETICS PRIVATE LIMITED |
| 416 | U65921PB1972PTC003147 | AERO CHIT FUND AND FINANCE CO PRIVATE LIMITED |
| 417 | U65921PB1972PTC003150 | STEEL TOWN CHIT FUND AND FINANCER CO P LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 418 | U65921PB1972PTC003152 | NAVAL SANGAM FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 419 | U65921HP1972PTC003155 | BIJLESHWAR MAHENDRA FIN-ANCIERS AND FUND PVT LTD |
| 420 | U65921PB1972PTC003158 | BEETA FINANCE PRIVATE LIMITED |
| 421 | U65921PB1972PTC003157 | BE NAJIR FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 422 | U65921PB1972PTC003164 | SHIVMONI FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 423 | U65921PB1972PTC003165 | SUMAN INVESTMENTS PVT LTD |
| 424 | U65999PB1972PTC003167 | KANWAR MUTUAL BENEFIT CO PVT LTD |
| 425 | U60210PB1972PTC003168 | SAHEED TRANSPORT CO PRIVATE LIMITED |
| 426 | U65921PB1972PTC003166 | CHAMPAK FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 427 | U65921PB1972PTC003169 | FARMAX CHIT FUND FINANCIERS AND COLONISERS PRIVATE LIMITED |
| 428 | U24119PB1972PTC003174 | HOSHIARPUR SILICATE AND CHEMICALS PVT LTD |
| 429 | U65921PB1972PTC003178 | HERO CHIT FUND AND FINANCE CO PRIVATE LIMITED |
| 430 | U65921PB1972PTC003181 | AHMEDGARH FINANCIERS PRIVATE LIMITED |
| 431 | U60210PB1972PTC003182 | NAVDEEP TRANSPORT CO PVT LTD |
| 432 | U99999PB1972PTC003184 | AMAR POLYFABS PVT LTD |
| 433 | U18101PB1972PTC003185 | GUIDE KNITWEARS PVT LTD |
| 434 | U24231HP1972PTC003188 | HIMACHAL DRUGS AND PHARMA-CEUTICALS PVT LTD |
| 435 | U65921PB1972PTC003186 | DUKH BHANJAN FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 436 | U65992PB1972PTC003187 | SHIRAZ FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 437 | U45201PB1972PTC003190 | JOLLY CONSTRUCTORS PUNJAB PVT LTD |
| 438 | U51909CH1972PTC003192 | FAIRFIELDS AGENCIES PVT LTD |
| 439 | U65921HP1972PTC003194 | ARCEE CHIT FUND AND FINANCE CO PRIVATE LIMITED |
| 440 | U65921PB1972PTC003195 | KURALI CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD |
| 441 | U60304PB1972PTC003199 | DELIGHT TOUR OPERATORS PRIVATE LIMITED |
| 442 | U65992PB1972PTC003196 | SHARP FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 443 | U65992PB1972PTC003200 | ROHIT FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 444 | U65921PB1972PTC003205 | NEW MEN FINANCE CO PVT LTD |
| 445 | U65921PB1972PTC003206 | IMDADI CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 446 | U65921PB1972PTC003207 | BHAG FINANCIERS AND CHIT FUND CO PRIVATE LIMITED |
| 447 | U65921PB1972PTC003208 | SADHU FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 448 | U27104HP1972PTC003209 | ADARSH STEELS PVT LTD |
| 449 | U65921PB1973PTC003214 | PERHAR CHIT PUND AND FINANCE PVT LTD |
| 450 | U65992PB1973PTC003216 | HAMDARD CHIT FUND AND TRADING CO PVT LTD |
| 451 | U65992PB1973PTC003221 | TIKKA MANJIT SAVING CHIT FUND CO PVT LTD |
| 452 | U27109PB1973PTC003219 | MEHRA FERRO ALLOYS PVT LTD |
| 453 | U65992PB1973PTC003227 | MANAV CHIT FUND AND FINANCE COMPANY PVT LTD |
| 454 | U24111PB1973PTC003228 | RAJIV OXYGEN PRIVATE LIMITED |
| 455 | U52311PB1973PTC003231 | ALLASHASHWAR DRUGS PRIVATE LIMITED |
| 456 | U65952PB1973PTC003237 | VITAMIN CHIT FUND AND FINANCERS PRIVATE LIMITED |
| 457 | U65992PB1973PTC003240 | SAVERA FINANCE AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 458 | U01122PB1973PTC003243 | FOUR FIELDS PVT LTD |
| 459 | U65992PB1973PTC003245 | J D FINANCIERS AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 460 | U40200CH1973PTC003224 | BHAKRA OXYGEN CO PVT LTD |
| 461 | U65921CH1973PTC003248 | SIDHU MOTOR FINANCE PVT LTD |
| 462 | U45202PB1973PLC003250 | THE RALSON CHIT FUND AND FINANCIERS LTD |
| 463 | U65992PB1973PTC003255 | RINOLI FINANCE AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED |
| 464 | U29150PB1973PTC003256 | ATLAS MARKETING AND MFG CO PRIVATE LIMITED |
| 465 | U99999PB1973PTC003257 | HAYERCO ELECTRONICS PVT LTD |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 466 | U29191PB1973PTC003258 | FOSTER INDIA PRIVATE LIMITED |
| 467 | U55101HP1973PTC003259 | HOTEL HIMACHAL PVT LTD |
| 468 | U65992PB1973PTC003263 | JAI JAVAN FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 469 | U65992PB1973PTC003267 | DARBAR FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 470 | U65992PB1973PTC003277 | HARBANS FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 471 | U65992PB1973PTC003281 | RAVINDRA FINANCIERS AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 472 | U32301PB1973PTC003282 | ULTON TELEVISION PVT LTD |
| 473 | U65992PB1973PTC003284 | BAMRA CHIT FUND AND FINANCE PVT LTD |
| 474 | U65921PB1973PTC003290 | PUREWAL FINANCE PVT LTD |
| 475 | U21099HP1973PTC003291 | MAHIT INDIA PVT LTD |
| 476 | U35201HP1973PTC003295 | HIMACHAL COACH BUILDERS AND AUTO WORKSHOP PVT LTD |
| 477 | U65992PB1973PTC003302 | G K FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 478 | U45202PB1973PTC003305 | CASTERETE PVT LTD |
| 479 | U65992PB1973PTC003309 | WELL KNOWN CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 480 | U65992PB1973PTC003310 | AJANTA SAVING UNIT PVT LTD |
| 481 | U65992PB1973PTC003314 | NEW BLUE STAR FINANCE AND BENEFIT CHITS PVT LTD |
| 482 | U74999PB1973PTC003316 | H. R. ENGINEERS PVT LTD |
| 483 | U74300PB1973PTC003317 | SMART ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 484 | U65923PB1973PTC003318 | ATLAS FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 485 | U22110PB1973PTC003321 | MAHALAXMI CALICO PRINTING MILLS PVT LTD |
| 486 | U65923PB1973PTC003326 | GURU GOBIND SINGH FINANCE AND CHIT FUND CO PVT LTD |
| 487 | U27109PB1973PTC003329 | DOABA SPUN PIPES PVT LTD |
| 488 | U45202PB1973PTC003331 | CRESENT REMEDIES INDIA PVT LTD |
| 489 | U65923PB1973PTC003338 | ADVANCE INVESTMENT AND FINANCIERS PVT LTD |
| 490 | U69923PB1973PTC003341 | ANURAG FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 491 | U65992PB1973PTC003342 | THAKUR CHIT FUND AND INVESTMENTS CO PVT LTD |
| 492 | U65923PB1973PTC003343 | VENUS INVESTMENTS PVT LTD |
| 493 | U01909PB1973PTC003346 | GURU NANAK MERCANTILE CO PVT LTD |
| 494 | U51909PB1973PTC003350 | PRINCE ENTERPRISES PVT LTD |
| 495 | U15544PB1973PTC003361 | CARYHOM ICE CREAM PVT LTD |
| 496 | U45202PB1973PTC003366 | PUNJAB ACCUMALATORS PVT LTD |
| 497 | U65952PB1973PTC003370 | MITTAL FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD |
| 498 | U65921PB1973PTC003377 | NEEL KAMAL FINANCIERS PVT LTD |
| 499 | U65992PB1973PTC003383 | MAGIC MUTUAL BENEFIT AND CHIT FUND PVT LTD |
| 500 | U65992PB1974PTC003390 | TARA FINANCE AND CHIT FUND PVT LTD |
| 501 | U25209PB1974PTC003411 | PRISM PLASTICS PVT LTD |
| 502 | U65992PB1974PTC003427 | DEHATI CHIT FUND AND FINANCIERS PVT LTD |
| 503 | U17111PB1974PLC003442 | OSWAL TEXTILE AND GENERAL MILLS LTD |
| 504 | U24231CH1974PTC003443 | KALPTARU PHARMACEUTICALS PVT LTD |
| 505 | U65921PB1974PTC003454 | FAMOUS PUBLICATIONS PVT LTD |
| 506 | U27106PB1974PTC003455 | KARNAL IRON AND STEEL CO PVT LTD |
| 507 | U01119PB1974PTC003468 | MANSA RAM BODHRAJ PRIVATE LIMITED |
| 508 | U65992HP1974PTC003481 | BHAWAN FINANCIERS AND CHIT FUNDS PVT LTD |
| 509 | U29212PB1974PTC003491 | KISSAN MACHINE STORES PVT LTD |
| 510 | U31909PB1974PTC003492 | AJANTA TELEVISIONS PVT LTD |
| 511 | U65921PB1974PTC003494 | DIAMOND HIRE PURCHASE PVT LTD |
| 512 | U92490PB1974PTC003499 | VEDSONS PRIVATE LIMITED |
| 513 | U60231PB1974PTC003504 | NEW BEAS TRANSPORT CO PVT LTD |
| 514 | U34223HP1974PTC003509 | DINESH CARBONS PVT LTD |
| 515 | U51909PB1974PTC003507 | CORDLEX PVT LTD |

RAJ SINGH

Registrar of Companies

District, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jammu-180012, the 20th June 2011

No. RoC/JMU/560(5)/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | Registration No. | Name of the Company |
|---------|------------------|--|
| 1. | 001792 | M/s. Manasbal Endowment Plantations India Limited |
| 2. | 000383 | M/s. Kashmir Floor Coverings Private Limited |
| 3. | 002456 | M/s. S. N. Education and Research Centre Private Limited |
| 4. | 002224 | M/s. MKG Techno Management Consultants Private Limited |
| 5. | 000900 | M/s. H. S. Oils Private Limited |
| 6. | 001839 | M/s. Chenab Engineering Private Limited |
| 7. | 001544 | M/s. Bhagwati Surgicals Private Limited |
| 8. | 002736 | M/s. Life Long Art Technologies Private Limited |
| 9. | 002745 | M/s. Horizon Financial Investment and Advisor Private Limited |
| 10. | 002342 | M/s. Promising Duniya Infosystems Private Limited |
| 11. | 002818 | M/s. Rishmukh Enterprises Private Limited |
| 12. | 001384 | M/s. EHH DEE Surveyors & Consultants Private Limited |
| 13. | 002481 | M/s. Comet Sales Agencies Private Limited |
| 14. | 002548 | M/s. APS Project Consultancy Private Limited |
| 15. | 002152 | M/s. Akarshan Tourism and Amusement Developers Private Limited |
| 16. | 002440 | M/s. Arun Gupta Real Estate and Builders Private Limited |

M. K. BAGRI
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jammu-180012, the 22nd June 2011

No. RoC/JMU/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | Registration No. | Name of the Company |
|---------|------------------|---|
| 1. | 000727 | M/s. J and K Capital Investments Limited |
| 2. | 000879 | M/s. Bahufort Finance and Investments Private Limited |
| 3. | 000845 | M/s. Aman Hire Purchase and General Finance Private Limited |
| 4. | 000339 | M/s. Manhas Finance Private Limited |
| 5. | 001200 | M/s. Vikas Financiers and Investors Private Limited |

M. K. BAGRI
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following
Companies

Jammu-180012, the 22nd June 2011

No. RoC/JMU/560(5)/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | Registration No. | Name of the Company |
|---------|------------------|---|
| 1. | 002504 | M/s. Muqadus Marketing Private Limited |
| 2. | 000892 | M/s. Elaborate Leasing Private Limited |
| 3. | 001741 | M/s. Wullar Agro Plantations Limited |
| 4. | 002181 | M/s. New Wave Entertainment Complex Private Limited |
| 5. | 002487 | M/s. Bhargav Small Arms Private Limited |
| 6. | 002344 | M/s. Shri Nath Alloys Private Limited |
| 7. | 001422 | M/s. JH Breeders Private Limited |
| 8. | 001423 | M/s. JH Farms Private Limited |
| 9. | 001441 | M/s. Trikuta Forests (India) Private Limited |
| 10. | 001076 | M/s. Jammu Wood Plast Private Limited |

M. K. BAGRI
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Patna, the 13th June 2011

No. RoC/PAT/560(5)/EES-2011/812—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | CIN No. | Name of the Company |
|---------|---------|---|
| 1. | 009804 | M/s. Classic Bhawan Private Limited |
| 2. | 005952 | M/s. Nalanda Ispat Udyog Private Limited |
| 3. | 007998 | M/s. Vikramshila Agrotech Private Limited |
| 4. | 006963 | M/s. Camco Steels Private Limited |

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Patna, the 13th June 2011

No. RoC/PAT/560(3)/EES-2011/1425—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

| Sl. No. | Reg. No. | Name of the Company |
|---------|----------|---|
| 1. | 003077 | M/s. Prasad Motor Finance Private Limited |
| 2. | 012764 | M/s. Hope Care Hospital Private Limited |

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Aren Chemicals Private Limited

Patna, the 16th June 2011

No. RoC/PAT/560(5)/EES-2010/1426—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aren Chemicals

Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata-700 020, the 21st June 2011

No. RoC/WB/EES-560/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | CIN No. | Name of the Company |
|---------|---------|---|
| 1. | 092275 | M/s. Nauhria & Garg Steel Wires Private Limited |
| 2. | 033303 | M/s. Kiat Marketing Limited |
| 3. | 076393 | M/s. Ginodia Exports Private Limited |
| 4. | 057812 | M/s. Nishant Fin & Trade Private Limited |
| 5. | 058382 | M/s. Bloom Merchandise Private Limited |

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong-793001, the 17th June 2011

No. RoC/SH/560(3)/2011/14—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

| Sl. No. | CIN No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 007602 | M/s. Alive Pharma Private Limited |
| 2. | 007432 | M/s. Allecto Impex Private Limited |
| 3. | 004650 | M/s. Allworth Finance and Investment Private Limited |
| 4. | 003468 | M/s. Ambarirish Agro Chemicals Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|---|
| 5. | 007190 | M/s. Amprolisa Construction & Marketing Private Limited |
| 6. | 008243 | M/s. Ankronu Infotech Private Limited |
| 7. | 008240 | M/s. Apang Exports Private Limited |
| 8. | 005735 | M/s. Aries (Assam) Limited |
| 9. | 007473 | M/s. Arpana Distributors Private Limited |
| 10. | 002202 | M/s. Assam Galvanizing Industries Limited |
| 11. | 000626 | M/s. Assam Mining and Trading Co. Private Limited |
| 12. | 002491 | M/s. Assam Oshzan Limited |
| 13. | 006101 | M/s. Associated Manufacturers Private Limited |
| 14. | 008240 | M/s. Atoqa Plantation and Marketing Company Private Limited |
| 15. | 008231 | M/s. Atsolu Agro Foods and Live Stock Marketing Private Limited |
| 16. | 008231 | M/s. Axial Builders Private Limited |
| 17. | 006983 | M/s. Bishnu Jyoti Health Institute Private Limited |
| 18. | 008232 | M/s. Bodu Kro Finance Limited |
| 19. | 004746 | M/s. Brahmaputra Commercial and Finvest (India) Limited |
| 20. | 007134 | M/s. Byrnihat Wires Private Limited |
| 21. | 008239 | M/s. Chirang Hospital Private Limited |
| 22. | 007549 | M/s. Corona Projects and Developers Limited |
| 23. | 008245 | M/s. Creative Farms and Resources Private Limited |
| 24. | 006897 | M/s. De Lutece Private Limited |
| 25. | 005955 | M/s. Dees Chemicals Private Limited |
| 26. | 000995 | M/s. Dhelia Brothers Private Limited |
| 27. | 004840 | M/s. Elite Metro Residences Private Limited |
| 28. | 007709 | M/s. Elysiumtech Private Limited |
| 29. | 007208 | M/s. Goldmark Marketing Private Limited |
| 30. | 006155 | M/s. Grassland Productions Limited |
| 31. | 001116 | M/s. H Kar & Sons Private Limited |
| 32. | 002995 | M/s. Hecatomb Laboratory Private Limited |
| 33. | 007780 | M/s. Hill View Orchards Private Limited |
| 34. | 008245 | M/s. Himalayan Power Project Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|--|
| 35. | 008232 | M/s. Hynniewtrep Food Products Private Limited |
| 36. | 005824 | M/s. I T Systems Private Limited |
| 37. | 005655 | M/s. Itrik Industries Private Limited |
| 38. | 006959 | M/s. Jupiter Consucom Private Limited |
| 39. | 006919 | M/s. Karakal Construction Private Limited |
| 40. | 000561 | M/s. Karimganj Electric Supply Private Limited |
| 41. | 007548 | M/s. Karmabir Marketing Private Limited |
| 42. | 008239 | M/s. KKKK Tea Company Private Limited |
| 43. | 002644 | M/s. Lohkars Cables and Conductors Private Limited |
| 44. | 008232 | M/s. Mathipi Oils and Allied Services Private Limited |
| 45. | 007397 | M/s. MDM Infotech Private Limited |
| 46. | 003797 | M/s. Megatech Hospitals Limited |
| 47. | 001324 | M/s. Meghalaya Potteries Private Limited |
| 48. | 006885 | M/s. Meghalaya Refractories and Minerals Private Limited |
| 49. | 008233 | M/s. Mehping Construction Company Private Limited |
| 50. | 003914 | M/s. Neac Assam Private Limited |
| 51. | 006316 | M/s. Needomain Manufacturing Private Limited |
| 52. | 003824 | M/s. New Bright Finance India Limited |
| 53. | 006138 | M/s. Nezone Consultants Private Limited |
| 54. | 001513 | M/s. North Eastern Tobacco Co. Limited |
| 55. | 008231 | M/s. NTY Construction Company Private Limited |
| 56. | 004823 | M/s. Numen Enterprises Private Limited |
| 57. | 005927 | M/s. Orion Supermarket Private Limited |
| 58. | 007142 | M/s. Pan (Assam) Entrepreneur Private Limited |
| 59. | 003253 | M/s. Pharmaceutical Wholesale Agencies Private Limited |
| 60. | 006659 | M/s. R N Fragrances Private Limited |
| 61. | 006511 | M/s. Rangne Constructions Private Limited |
| 62. | 007052 | M/s. Riverblue Marketing Private Limited |
| 63. | 008235 | M/s. Roshan & Rohit Construction Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|--|
| 64. | 005841 | M/s. S R Entrade Private Limited |
| 65. | 008233 | M/s. Sangfroid Trading Development Private Limited |
| 66. | 008235 | M/s. Saras International Private Limited |
| 67. | 008238 | M/s. Shiva Security Services Private Limited |
| 68. | 008243 | M/s. Shogun Consumer Care Private Limited |
| 69. | 004272 | M/s. Shubh Pragya Investments Private Limited |
| 70. | 008238 | M/s. Siang Constructions & Hydro Power Private Limited |
| 71. | 000338 | M/s. Silchar Electric Supply Limited |
| 72. | 006612 | M/s. Simul Dairy Limited |
| 73. | 005855 | M/s. TBG Private Limited |
| 74. | 004831 | M/s. Traditional Finvest Private Limited |
| 75. | 003854 | M/s. United Forest Products Private Limited |
| 76. | 006960 | M/s. Uttam Development & Construction Private Limited |
| 77. | 007926 | M/s. Wansaka Lime Calcinates Private Limited |
| 78. | 007373 | M/s. Yellow Courier Technologies Private Limited |
| 79. | 008233 | M/s. Zocrafts Bamboo Private Limited |
| 80. | 007444 | M/s. Tirual Bortmon Tea Estates Private Limited |
| 81. | 002779 | M/s. Pragjyotish Food Products Private Limited |
| 82. | 005451 | M/s. A B Bonded Warehouse Private Limited |
| 83. | 001768 | M/s. Aditi Sales & Marketing Co. Private Limited |
| 84. | 001883 | M/s. Aluminium India Private Limited |

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong-793001, the 21st June 2011

No. ROC/SH/560(5)/2011/16—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been

struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | CIN No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 007037 | M/s. Ambrosia Builders Private Limited |
| 2. | 003994 | M/s. Anirudha Steel Assam Private Limited |
| 3. | 005969 | M/s. Assam Apple Valley Tea Limited |
| 4. | 007611 | M/s. B. & Z. Developers Private Limited |
| 5. | 005073 | M/s. Barman Food Products Private Limited |
| 6. | 009408 | M/s. Bishakh Marketing Private Limited |
| 7. | 005229 | M/s. Brahmaputra Commercial and Builders Private Limited |
| 8. | 004945 | M/s. Brahmaputra Rubber Products Private Limited |
| 9. | 005846 | M/s. Coal Field India Private Limited |
| 10. | 005845 | M/s. Jayntia Hill Export Private Limited |
| 11. | 007474 | M/s. Kamakhya Associates Private Limited |
| 12. | 005533 | M/s. Kameng Tours and Travels Private Limited |
| 13. | 005939 | M/s. Kayi Organic Products Private Limited |
| 14. | 004188 | M/s. Kohinoor Tiles and Bricks Assam Private Limited |
| 15. | 009180 | M/s. Konark Multi Trade Private Limited |
| 16. | 006299 | M/s. Lekhchand Tea Kanoi Company Private Limited |
| 17. | 008654 | M/s. Lokechand Bonded Warehouse Private Limited |
| 18. | 005160 | M/s. Lullu Hospitals Private Limited |
| 19. | 008055 | M/s. Malson Bamboo Private Limited |
| 20. | 004802 | M/s. Manyu Tea Estate Private Limited |
| 21. | 003341 | M/s. Nas India Private Limited |
| 22. | 005606 | M/s. New North-East Coal Mining Private Limited |
| 23. | 007325 | M/s. Niza Builders Private Limited |
| 24. | 004326 | M/s. Octave India Private Limited |
| 25. | 005898 | M/s. Padmini Tea & Manufacturing Company Private Limited |
| 26. | 002841 | M/s. Parsuram Saw Mills Private Limited |
| 27. | 004085 | M/s. Promudini Transport and Trading Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|--|
| 28. | 003273 | M/s. Purbanchal Sacks Private Limited |
| 29. | 007601 | M/s. R. K. Gupta Infrastructure Private Limited |
| 30. | 005087 | M/s. Rhino Travels Private Limited |
| 31. | 006925 | M/s. S. K. India Wire Products Private Limited |
| 32. | 007522 | M/s. Seujee Plantations Private Limited |
| 33. | 007777 | M/s. Sona Maina Detergents Private Limited |
| 34. | 003958 | M/s. Suratan Consultants Private Limited |
| 35. | 004918 | M/s. Thanga Biscuits Private Limited |
| 36. | 002691 | M/s. Trans Drugpac Private Limited |
| 37. | 008116 | M/s. Tsangpo Constructions Private Limited |
| 38. | 006581 | M/s. Appasa Business India Private Limited |
| 39. | 007145 | M/s. Hill Soft-Tech Private Limited |
| 40. | 003614 | M/s. Ail Cura Medicals Private Limited |
| 41. | 007150 | M/s. J. C. Healthcare and Research Institute Private Limited |
| 42. | 000901 | M/s. Kamrup Trading Co. Limited |
| 43. | 006193 | M/s. Pine Ridge Company Private Limited |
| 44. | 007277 | M/s. Pixel Media Private Limited |
| 45. | 003465 | M/s. Wonder Tea Co. Private Limited |
| 46. | 008146 | M/s. Halax Plantation and Trading (India) Private Limited |
| 47. | 007473 | M/s. Arpana Distributors Private Limited |

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 10th June 2011

No. 3(156)/S. 560(5)/EES/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been

struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1. | 1650 | M/s. Shree Mahaganapathy Grand Digital Imaging Private Limited |
| 2. | 995 | M/s. Ponsum Farmers Benefit Fund Limited |

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 17th June 2011

No. 3(156)/S. 560(5)/EES/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|---|
| 1. | 448 | M/s. Raj Granites Private Limited |
| 2. | 1088 | M/s. Structural Engineers India Private Limited |

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kochi-682021, the 2nd June 2011

No. u/s. 560(5)/EES/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Registration No. | Name of the Company |
|---------|------------------|---|
| 1. | 2805 | M/s. Shee Bhagavathi Chit Funds Private Limited |
| 2. | 2890 | M/s. Bombay Auto Stores Private Limited |
| 3. | 2996 | M/s. Jai Hind Enterprises Private Limited |
| 4. | 4252 | M/s. Greenland Kuries Private Limited |
| 5. | 4321 | M/s. Artino Watches Private Limited |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|-----|-------|---|
| 6. | 4546 | M/s. Calicut Diagnostic Services Private Limited | 34. | 14247 | M/s. Majestic Equipments and Services Private Limited |
| 7. | 4685 | M/s. Kerala Refineries Private Limited | 35. | 14826 | M/s. Aeb Software Systems Private Limited |
| 8. | 6314 | M/s. Harbour Financial Services Private Limited | 36. | 15257 | M/s. Satyam Detective Agencies Private Limited |
| 9. | 6629 | M/s. Touchstone Publishing Private Limited | 37. | 15795 | M/s. MS Tech and Solutions Kerala Private Limited |
| 10. | 6937 | M/s. Weather Foam Private Limited | 38. | 15911 | M/s. Misthill Resorts Private Limited |
| 11. | 8169 | M/s. Thekkumkara Kuries and Loans Private Limited | 39. | 15932 | M/s. BRS Electro Agencies Private Limited |
| 12. | 8446 | M/s. Paragon Housing Projects Private Limited | 40. | 16981 | M/s. Octans Systems and Devices Private Limited |
| 13. | 8469 | M/s. Piccolo Petroleums Private Limited | 41. | 17314 | M/s. Golden Gate Tours and Travels Private Limited |
| 14. | 8581 | M/s. Cosmo Offset Printers Private Limited | 42. | 17511 | M/s. Ruchi Catering Private Limited |
| 15. | 8609 | M/s. Pazhayannur Kuries and Loans Private Limited | 43. | 17527 | M/s. Wescode Trading Company Private Limited |
| 16. | 8724 | M/s. Mathew and Mathew Design Associates Private Limited | 44. | 17538 | M/s. Kairali Chemtex and Handicrafts Private Limited |
| 17. | 9262 | M/s. Grace Foundations Private Limited | 45. | 17769 | M/s. Panama Shoes Private Limited |
| 18. | 9854 | M/s. Southern Printers Private Limited | 46. | 17804 | M/s. Digitoon Animations Studios Private Limited |
| 19. | 9920 | M/s. Electrocom Systems and Services Private Limited | 47. | 17857 | M/s. Nimbient Systems Private Limited |
| 20. | 10568 | M/s. Hi Range Cements Private Limited | 48. | 17919 | M/s. Zanat Malabar Engineering and Equipments Private Limited |
| 21. | 10825 | M/s. Vanchinad Drop Stampings Private Limited | 49. | 18158 | M/s. Arafa Health Care Private Limited |
| 22. | 10925 | M/s. Sanco Rubbers Private Limited | 50. | 18288 | M/s. K. Marine Consultants India Private Limited |
| 23. | 11004 | M/s. Delser Marketing Private Limited | 51. | 18400 | M/s. Murinjapuzha Resorts and Properties Private Limited |
| 24. | 11316 | M/s. Jeevani Marketing Management Services Private Limited | 52. | 18433 | M/s. Kurians Properties and Real Estate Company Private Limited |
| 25. | 11809 | M/s. Prema Ravi Fun Park Private Limited | 53. | 18972 | M/s. Convoy Sealing Systems Private Limited |
| 26. | 11991 | M/s. Thacheth Enterprises India Private Limited | 54. | 19033 | M/s. Aura Aquatics Private Limited |
| 27. | 12066 | M/s. Kelakam Chit Funds Private Limited | 55. | 19187 | M/s. Alim Trading Company Private Limited |
| 28. | 12886 | M/s. Amil Pharmaceuticals India Private Limited | 56. | 19561 | M/s. Tropicana Resorts Private Limited |
| 29. | 13348 | M/s. Infinite Lightings Private Limited | 57. | 19744 | M/s. Transvalley Builders and Developers India Private Limited |
| 30. | 13400 | M/s. K. M. J. Rice Mills Private Limited | 58. | 19756 | M/s. Gateway Health Tourism Private Limited |
| 31. | 13829 | M/s. Alluva Food Park Private Limited | 59. | 20148 | M/s. Cochin Sands and Mines Private Limited |
| 32. | 13909 | M/s. Tovis Management Consultants Private Limited | 60. | 20665 | M/s. Echo Cadd Training Private Limited |
| 33. | 13998 | M/s. Sirius Computing Company Private Limited | | | |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 61. | 20768 | M/s. JVL Financial and Management Consultants Private Limited |
| 62. | 20895 | M/s. Ashle Nutra Care Trading Private Limited |
| 63. | 21051 | M/s. Ahlan Travels and Tours Kerala Private Limited |
| 64. | 21624 | M/s. Mafaz Impex Private Limited |
| 65. | 21742 | M/s. TCJ Resorts and Hotels Private Limited |
| 66. | 22139 | M/s. Unilife Sales and Financial Services Limited |

V. E. JOSEKUTTY
Dy. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kochi-682021, the 2nd June 2011

No. u/s. 560(5)/EES/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Registration No. | Name of the Company |
|---------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1878 | M/s. Vagaery Valley Plantations Private Limited |
| 2. | 2532 | M/s. Century Mines and Ceramics Limited |
| 3. | 2714 | M/s. Progressive Printers and Publishers Limited |
| 4. | 4094 | M/s. Souhrida Transport Co. Private Limited |
| 5. | 5095 | M/s. Richman S. Kuries Investment Private Limited |
| 6. | 5637 | M/s. Pecaru Rubber and Agro Products Limited |
| 7. | 6071 | M/s. United Tours and Travels Calicut Private Limited |
| 8. | 7732 | M/s. Brahma Softek Private Limited |
| 9. | 9222 | M/s. Palazhi Chitties and Loans Private Limited |
| 10. | 9431 | M/s. X. L. Remedies Distributors Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 11. | 10049 | M/s. Parayanken Exports Private Limited |
| 12. | 10076 | M/s. Blurays India Private Limited |
| 13. | 10649 | M/s. Suryagayathri Chits and Investments Private Limited |
| 14. | 11408 | M/s. Chelpar Modern Business Services Private Limited |
| 15. | 11429 | M/s. Alankar Tours and Travels Private Limited |
| 16. | 12386 | M/s. Innovative Megatrend Private Limited |
| 17. | 12474 | M/s. Techno World Systems Private Limited |
| 18. | 12545 | M/s. Unibrothers Impex Private Limited |
| 19. | 12585 | M/s. One 2 One Creations Private Limited |
| 20. | 12824 | M/s. Kadi International Exports Private Limited |
| 21. | 13048 | M/s. Ranny Infotech Private Limited |
| 22. | 14082 | M/s. Doctorspost Com Portal Limited |
| 23. | 14936 | M/s. Manoramam Automobiles Private Limited |
| 24. | 16739 | M/s. Adlux Age Home Private Limited |
| 25. | 16935 | M/s. Leedhar Technologies Private Limited |
| 26. | 17180 | M/s. Trans Wheels India Private Limited |
| 27. | 17675 | M/s. Haji C. M. Muathafa Containers Private Limited |
| 28. | 18291 | M/s. Lamok Business Advisory Private Limited |
| 29. | 18540 | M/s. Piravom Spares Private Limited |
| 30. | 18748 | M/s. Kanaan Wineries Private Limited |
| 31. | 19584 | M/s. Eguidance Club Technologies and Services Private Limited |
| 32. | 19620 | M/s. Cyprea (India) Resorts Private Limited |

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kochi-682021, the 2nd June 2011

No. u/s.560(5)/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the names of the following Companies has this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

| S. No. | CIN | Name of the Company |
|--------|-------|---|
| 1. | 3835 | M/s. Bhadra Bharatham Cihitties and Loans Private Limited |
| 2. | 10506 | M/s. Pranavam Enterprises Private Limited |
| 3. | 11025 | M/s. Pyrolator and Pyrolator Private Limited |
| 4. | 11090 | M/s. The Intel Software Private Limited |
| 5. | 12361 | M/s. Ashtavaidya Samskrithi Pharmaceuticals Private Limited |
| 6. | 13949 | M/s. Uniokotspolychem Private Limited |
| 7. | 16654 | M/s. Earnersnet Net works and Services Private Limited |
| 8. | 18594 | M/s. Formens Pharma Private Limited |
| 9. | 18940 | M/s. Calecas Trading and Expots Private Limited |
| 10. | 19636 | M/s. GMT Electricals Private Limited |
| 11. | 19787 | M/s. Thayyil Plantations Private Limited |
| 12. | 19884 | M/s. Anabal Marketing Private Limited |
| 13. | 19905 | M/s. Thelakkadan Chits Private Limited |

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Midwest Labs Private Limited

Hyderabad-500195, the 19th June 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2009/00013—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Midwest Labs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cute Plastics Private Limited

Hyderabad-500195, the 30th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2010/00165—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Cute Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanekula Spinning Mills Private Limited

Hyderabad-500195, the 4th June 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2010/00753—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhanekula Spinning Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Restile Marketing Private Limited

Hyderabad-500195, the 6th July 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2010/00056—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Restile Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of

M/s. Gayatri Rice Products Private Limited

Hyderabad-500195, the 4th August 2010

No. RAP/SES-2005/560(3)/AUG-2010/34942—Notice is hereby given that the following Company has applied to this office for striking off the name under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) dated 28.01.2005 of Government of India, Ministry of Company Affairs. Notice is hereby give that after the expiry of 30 days from the date hereof the Gayatri Rice Products Private Limited of the Company, unless cause is

shown to the contrary, will be struck off as a defunct Company from the Register of this office and it will be dissolved :—

Any Person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned Company may lodge his/their objections in writing within 30 days from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned. Failing which the name of the above Company will be struck off as aforesaid without any further notice.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Activard Software Private Limited

Hyderabad-500195, the 4th August 2011

No. RAP/SES-2005/560(3)/AUG-2010/039756—Notice is hereby given that the following Company has applied to this office for striking off the name under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) dated 28.01.2005 of Government of India, Ministry of Company Affaris. Notice is hereby give that after the expiry of 30 days from the date hereof the name of M/s. Activard Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct Company from the Register of this office and it will be dissolved :—

Any Person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned Company may lodge his/their objections in writing within 30 days from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned. Failing which the name of the above Company will be struck off as aforesaid without any further notice.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jude Computer Services Limited

Hyderabad-500195, the 29th September 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2010/00091—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jude Computer Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GVK Power (Krishnapatnam) Private Limited

Hyderabad-500195, the 1st February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00295—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. GVK Power (Krishnapatnam) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GVK Cements Private Limited

Hyderabad-500195, the 1st February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00290—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. GVK Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GVK Power (Ratlam) Private Limited

Hyderabad-500195, the 1st February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00303—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. GVK Power (Ratlam) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Telesource Management Consulting Private Limited

Hyderabad-500195, the 1st February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00281—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Telesource Management Consulting Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Genesys World Solutions Private Limited

Hyderabad-500195, the 4th February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00804—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Genesys World Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Solar Salts Private Limited

Hyderabad-500195, the 23rd February 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00312—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Solar Salts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venika Spinning Mills Private Limited

Hyderabad-500195, the 30th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00282—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Venika Spinning Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Medicit Diagnostic Services Private Limited

Hyderabad-500195, the 30th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00292—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Medicit Diagnostic Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seligo Technologies Limited

Hyderabad-500195, the 30th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00311—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Seligo Technologies Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Oakfed Technologies Private Limited

Hyderabad-500195, the 30th March 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2011/00317—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oakfed Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Safertek Software (India) Private Limited

Hyderabad-500195, the 29th November 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2008/00007—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Safertek
Software (India) Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

RICHARD HENRY
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. TGV Infra Projects Private Limited

Hyderabad-500195, the 22nd May 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2009/00041—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. TGV Infra
Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the register and the said company will be
dissolved.

RICHARD HENRY
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. TGV Chemicals Private Limited

Hyderabad-500195, the 22nd May 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2009/00044—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. TGV Chemicals
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be dissolved.

RICHARD HENRY
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Boniva Software (India) Private Limited

Hyderabad-500195, the 10th September 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2008/00903—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Boniva
Software (India) Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

VIJAYA BHASKAR D.
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SMS Iron and Steel Private Limited

Chennai-600034, the 21st June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2011/00470—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. SMS Iron and
Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the register and the said company will be
dissolved.

V C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands